



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 11—नवम्बर 17, 2006 (कार्तिक 20, 1928)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 11—NOVEMBER 17, 2006 (KARTIKA 20, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

सिंडिकेट बैंक

मणिपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2006

सं. 2151/0089/का.वि. : औ. सं. प्र.(अ)/विनियम 5--बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980* (1970 का 5/1980* का 40), की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंडिकेट बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, सिंडिकेट बैंक ((अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :

1. (1) ये विनियम सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में विनियम 5 में :

(क) उप-विनियम (1) में खंड (ग) के अंतर्गत, परंतुक के पश्चात् एवं टिप्पणी के पहले निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु, जो अधिकारी पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता है उसे अगले उच्चतर वेतनमान/अवरोध वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियों में ऐसी वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियाँ प्रदान नहीं की जाएंगी।”

(ख) उप-विनियम (2) में, स्पष्टीकरण के खंड (घ) में, टिप्पणी (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी, अर्थात् :

“(iii) जो अधिकारी पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता है, वह व्यावसायिक अर्हता भुगतान, उपर्युक्त के अनुसार, का पात्र नहीं होगा।”

बी. प्रमोद
महा प्रबंधक (का)

पाद टिप्पणी : सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) विनियम, 1979 में हुए पिछले संशोधनों का प्रकाशन राजपत्र में किया गया है, जिनका ब्यौरा निम्नवत् है :

क्र. विवरण	दिनांक
1. एफडीओ/पीडी-34/88-जीएसआर	निर्गम सं 11 दि. 12.3.1988
दि. 2.3.1988	
2. 2719/एस/0089/पीडी:आइआरडी(अ)	निर्गम सं. 2 दि. 11.1.1997
दि. 2.11.1996	
3. 2275/0089/पीडी:आइआरडी(अ)	निर्गम सं. 34 दि. 19.8.2000
दि. 6.7.2000	
4. 2334/0089/पीडी:आइआरडी(अ)/	निर्गम सं 47 दि. 23.11.2002
विनियम 38 दि. 30.10.2002	

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 14 अगस्त 2006

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 3एनसीए(5)/2/2004-2005 : इस इंस्टीट्यूट की अधिसूचना नं. तिथि 3एनसीए(4)/1/1999-2000 तिथि 1 मार्च, 2000, 3एनसीए(4)/1/2001-2002 तिथि 21 नवम्बर, 2001, 3एनसीए(4)/1/2002-2003 तिथि 3 दिसम्बर, 2002 और 3एनसीए(4)/1/2003-2004 तिथि 4 फरवरी, 2005 यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम 20 के नियम 1988 के अंतर्गत निर्धारित पावर नियम 19 के द्वारा यह इंस्टीट्यूट निम्नलिखित सदस्यों के नाम रजिस्टर में नाम के समक्ष दी हुई तिथि से वापस लेता है।

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टर ता.
1.	001829	श्री हरिहरन एसीए पेरुगुडु रामस्वामी केयर ऑफ फेडररी 71, जी. सी. एवेन्यू कोलकाता-700013	11/10/2004	7.	011795	श्री गेयल सुरील कुमार एसीए सी 8/8282, वस्तु कुंज न्यू दिल्ली-110070	01/10/2004
2.	009260	श्री अश्वर वी सुब्रमण्य एसीए इंटरनल ऑडिटर, कल स्टेट 9 सीयू 2300, क्लेटन रोड, स्टूट 220 कोनकोर्ड सीए-94520, यू. एस.ए.	25/11/2004	8.	013991	श्री किनरा अशोक कुमार एसीए फाईन डायरेक्टर जे. के. इंस्टीट्यूट लि. लिनक हाऊस, 3 बहादुर शाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली-110002	01/10/2004
3.	009549	श्री कपूर रमेश चन्द एसीए 305 एमकर हाऊस 23/23-बो. दरियावांन अमरी रोड, दिल्ली-110002	01/10/2004	9.	014343	श्री चौपड़ा दलीप कुमार एसीए आर-804, न्यू राजेन्द्र नगर न्यू दिल्ली-110060	01/10/2004
4.	009569	श्री जैन विजय चंद एसीए डी-152, प्रसन्न विश्व सेक्टर-XIV, दिल्ली-110085	28/01/2005	10.	014560	श्री विज अशोक कुमार एसीए 19, एन.डी.एस.ई. पार्क-1 न्यू दिल्ली-110049	18/10/2004
5.	011387	श्री रावल धरम पाल एसीए 350 पोकेट-ए, सरीता विश्व न्यू दिल्ली-110044	01/10/2004	11.	015091	श्री अप्पाल अशोक कुमार एसीए 1500, सेक्टर-8, फरीदबाद	01/10/2004
6.	011409	श्री बाम्बा कृष्ण लाल एसीए 18, न्यू प्रगतिशील अपार्टमेंट वसुंधरा अन्तरेक्ष, दिल्ली-110096	01/10/2004	12.	015452	श्री सिंह बलबीर एसीए बी-3/353, परिक्रम विश्व न्यू दिल्ली-110063	01/10/2004
				13.	015654	श्री समीर कुमार सेन एसीए 104, नेहरू मिडियम सेक्टर संकर चौक, गुडगांव-122002	01/10/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
14.	016282	श्री मेहता अशोक चंद एफसीए अशोक मेहता एन्ड एसोसिएट्स 4 कोम्प्यूटि सेंटर इस्ट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली-110065	01/10/2004	23.	026016	श्री अरोड़ा शशांक एफसीए 26 एसएफएस गुलमोहर अनक्लेव न्यू दिल्ली-110049	29/12/2004
15.	016472	श्री गुप्ता अरूण एसीए प्लॉट इंजीनियरिंग पोलिमर्स लि. बी-59, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 न्यू दिल्ली-110048	01/10/2004	24.	026700	श्री सुरेश एस एफसीए पी. ओ. बॉक्स 2567 एबीएन एमरो बैंक डुबई यू. ए. ई.	23/11/2004
16.	016510	श्री शर्मा महावीर प्रसाद एफसीए एच. नं. 295/2, ओल्ड दिल्ली रोड, गुडगांव	01/10/2004	25.	032188	श्री सिंह अनुजंन एसीए 475, मॉडल टाउन नियर एलआईसी ऑफिस करनाल-132001	27/09/2004
17.	016651	श्री सागरा दलवीर एस एसीए एच. नं. 1281, सेक्टर 37-बी, चंडीगढ़	01/10/2004	26.	045405	श्री चौधरी राकेश एफसीए एच. नं. 161, 2 फ्लोर फेक्ट सी-4 रेडिपी सैक्टर-6, दिल्ली-110085	01/10/2004
18.	016933	श्री सराफ पवन कुमार एफसीए जे के सिमेंट वर्क्स गालिय भवन, माता सुंदरी रोड न्यू दिल्ली-110002	01/10/2004	27.	052277	श्री मल्होत्रा हेमंत कुमार एसीए केयर ऑफ संतोष दिक्षित एन्ड कं. ए-24, मेन मार्केट मधुबिहार, दिल्ली-110092	01/10/2004
19.	017530	श्री भिक्का सुदर्शन कुमार एफसीए 1896, अप्पा लूस इडव नेपरविले, आई. एल.-60565 यू.एस.ए.	01/10/2004	28.	052849	श्री सेनी पवन कुमार एफसीए पी के सेनी एन्ड कं. सीसी-29, नेहरू अनक्लेव कलकत्ता, न्यू दिल्ली-110019	01/10/2004
20.	024055	श्री हरिहरण के वी एसीए 82, जलान छोड # 07-04, विंडी हार्ट्स सिंगापुर-419592	09/12/2004	29.	054544	श्री आद्याल दिनेश कुमार एफसीए मैसा दिनेश आद्याल एन्ड एसोसिएट्स 1405, ब्रिज स्टेशन दिल्ली-110006	01/10/2004
21.	024963	श्री कमलपाली रंज राव एफसीए मैनेजर (एफ एन्ड ए) एन एच पी सी लि. ओम्कारेस्वर प्रोजेक्ट उर्जा विहार, सिद्धावरकुट डिस्ट. खंडवा (एमपी) खंडवा-450554	11/11/2004	30.	055691	श्री अरोड़ा रमन एसीए सी-79, उत्तर को-ओर. हाउसिंग सोसायटी मधु विहार 1 एक्स., दिल्ली-110091	01/10/2004
22.	025787	श्री कुमार एल एन सुरेश एसीए 1-सी, कलंग कालोनी पीट. टी. राजन सहाई के. के. नगर, चैन्नई-600078	24/11/2004	31.	057426	श्री सहू सुभाषीत एफसीए केयर ऑफ एस सहू एन्ड कं. ई-पा108/1 ब्रिज गंगानथ मार्केट मुम्बई, न्यू दिल्ली-110067	01/10/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
32.	058119	श्री उदय प्रकाश एसीए फ्लैट # 502, पल अडिक्ता अपार्टमेंट्स ए-36, तिलक मार्ग नियर एल बी एस कॉलेज, जयपुर-302004	01/10/2004	40.	060492	श्री यादव राम चन्द्र प्रसाद एसीए केयर ऑफ एस्सीएम एसोसिएट्स डबल्यूड-139/1, नारायण रिंग रोड 2 फ्लोर, न्यू दिल्ली-110028	01/10/2004
33.	058443	श्री डेकानिया प्रवीण कुमार एफसीए इंडियन ऑइल कोरपोरेशन लि. (मार्किटिंग डिपार्टमेंट) 2 फ्लोर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बाबर रोड, न्यू दिल्ली-110001	01/10/2004	41.	070329	श्री राकेश चन्द्र एफसीए एड. डायरेक्टर जनरल मिनीस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल अफेयर्स ए-46/12, डीएल सिटी, फेज-1 गुडरॉड-122002	01/10/2004
34.	058483	श्री पांडे आलोक नारायण एसीए ओरिएंट ब्रकफ़्ट लि. एफ-8, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, न्यू दिल्ली-110020	01/10/2004	42.	070550	श्री खन्ना राजेन्द्र एसीए मवाना शूगर लि. 6 फ्लोर, कीर्ति महल 19, राजेन्द्रा प्लेस न्यू दिल्ली-110008	01/10/2004
35.	058856	श्री सिंघा छाया कुमार एसीए एस 505 स्कूल ब्लॉक 2 सवरपुर (फ्लैट 2 ए/3एफ), दिल्ली-110092	01/10/2004	43.	070751	श्री सिन्हा नवीन एफसीए 11577, मारीसा वे गोल्ड रिवर, सीए यूसए-95670	01/10/2004
36.	059706	श्री मिश्रा अनिल कुमार एसीए केयर ऑफ मैसर्स एन बी कपूर एंड कं. 2ए संकर मार्किट कॉन्ट स्क्वर्स, न्यू दिल्ली-110001	01/10/2004	44.	071153	श्रीमती सिन्हा इरा एफसीए 11577, मारीसा वे गोल्ड रिवर, सीए यूसए-95670	01/10/2004
37.	059712	श्री सराजोगी संजय एसीए फर्निचर अनलार्जिट ह्यूटे पेकोर्ड इंडिया सेल्स प्रा. लि. 24, सत्यपुरिया एरिया होमर मेन रोड, अट्रोबी बंगलौर-560030	08/02/2005	45.	072135	श्री अरोड़ा देवेन्द्र कुमार एसीए ई-801, पवित्र अपार्टमेंट्स फ्लैट-12, कमरा अनकलेज दिल्ली-110096	01/10/2004
38.	060321	श्रीमती अमृता मीनू एसीए 88/92, नारदेवी ब्रॉड लेन वरीयल डिपार्टमेंट 2 फ्लोर, मुम्बई-400003	01/10/2004	46.	072274	श्री मोहनजी जितेन्द्र एसीए जनरल मैनेजर-फर्निचर इन्द्रप्रस्था गेस लि. 14 फ्लोर, ए. गोपालराव डिपार्टमेंट 28, बरखम्बा रोड न्यू दिल्ली-110001	01/10/2004
39.	060480	श्री फाल्गेटिय एसीए संजीव कुमार 27/174, विष्णु विहार 3 फ्लोर राजपुत नगर-4 न्यू दिल्ली-110024	01/10/2004	47.	072756	श्री गुप्ता राकेश एफसीए अपेलेवे इंटरनैशनल लि. अपेलेवे हाउस फ्लैट नं. 7, सैक्टर-32 इंस्टीट्यूशनल एरिया गुडरॉड	19/11/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
48.	072925	श्री संजय सचेटी एसीए ओल्ड एक्सपोर्ट्स (आई) लि. 2 फ्लोर, 48, टोडर मल रोड बगाली मार्किट, न्यू दिल्ली-110001	01/10/2004	57.	080099	श्री खुशबू प्रवीण एफसीए कनसल्टेंट एन-91, पंचसिलन पार्क न्यू दिल्ली-110017	01/10/2004
49.	073079	श्री बेकरी आलोक एफसीए केयर ऑफ कुमार खन्ना चार्टर्ड एकाउंटेंट्स बाजपुर रोड, काशीपुर (यूस नगर)	31/01/2005	58.	080220	श्री देवेन्द्र कुमार एफसीए डी कपूर एन्ड कं. 4228 टेल मंडी चौक फाड़गंज (अपो. न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन) न्यू दिल्ली-110055	01/10/2004
50.	073333	मिस सिंधी सुविज्ञा एफसीए सी-14/3, सक्केत न्यू दिल्ली-110017	01/10/2004	59.	080343	श्री विनोद कुमार एफसीए एच-58, प्रउंड फ्लोर जेजीडी-सी प्रीस, प्रीनक्स सिटी सेक्टर-46, गुडगाँव-122003	01/10/2004
51.	074990	श्री सुकला अम्बुज एफसीए 1/4069, बलबीर नगर एक्स. राजदरा, दिल्ली-110032	01/10/2004	60.	080616	श्री रमेश चन्द्र मोहन एफसीए 1/2406, भावरी कूटीर स्ट्रीट नं. 1, इस्ट राम नगर राजदरा, दिल्ली-110032	01/10/2004
52.	076575	श्री अरोड़ा राजेश एसीए 6/400, ओल्ड मालवीर कॉलोनी सेक्टर-13/1001	01/10/2004	61.	080652	श्री अशुल चन्द्रा एफसीए ए2/139, सफरपूरा अनवलेख न्यू दिल्ली-110029	04/01/2005
53.	077805	श्री कनकड़ अश्विनी कुमार एसीए 202, अनवरकली कमप्लेक्स इंडिकान एक्स., न्यू दिल्ली-110085	01/10/2004	62.	080758	श्री किरण पवन कुमार एफसीए जलन सैनिक प्रीत तेगब XV/3 अवसटा-10520, इन्डिया न्यू दिल्ली-110029	01/10/2004
54.	077958	श्री अश्वकल प्रमोद एसीए केयर ऑफ ओल्डमार्केट इन्स्टीट्यूट एन्ड फार्मिस कं. ऑफिस नं. 506, IV फ्लोर केच वैक्स नैटी रोड जलनगर	06/12/2004	63.	080856	श्री चौधरी रमेश कुमार एफसीए एच के चौधरी एन्ड एसेसिएट्स सी-330, सरावरी निहा दिल्ली-110034	01/10/2004
55.	079692	श्री रमेश चन्द्र कंठा एसीए फैरी-11 जे एक्स. (नियर चव्वा), राजनी नगर, दिल्ली-110092	01/10/2004	64.	081003	श्री सुशुक्ला अम्बेडकर एफसीए अर-18, सऊद एक्स. फ्लॉ-11, न्यू दिल्ली-110049	01/10/2004
56.	079737	मिस जैन एकरा एसीए केयर ऑफ श्री रवि जैन 101-ए, ऑफिसर्स कॉलोनी अनवरकली यमुना नगर	07/12/2004	65.	081119	श्री रमेश शिव नंदन एसीए 129, नवीन निहा न्यू दिल्ली-110017	01/10/2004
				66.	081143	श्री कलानी रमेश कुमार एफसीए इकस नं. 772 सेक्टर 2, पंचकुला	01/10/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
67.	081362	श्री मनोहर लाल एफसीए केयर ऑफ एन.कुमार छाबरा एंड कं. एससीओ 109, सैक्टर-2222बी चंडीगढ़-160022	03/03/2005	76.	082410	श्री हरीश चन्दर एफसीए 37/44, कैप्ट पंजाबी बाग न्यू दिल्ली-110026	01/10/2004
68.	081454	श्री लुगानी बाबूशुत कुमार एफसीए बी.लुगानी एंड एसोसिएट्स 105, राकेश टोप, 11 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स गुल्मोहर अन्वलेव न्यू दिल्ली-110049	01/10/2004	77.	082670	श्री जुनेजा प्रवीण एफसीए ई-47, ग्रेटर कैलाश 2 न्यू दिल्ली-110048	01/10/2004
69.	081768	श्री मंगल राजेश कुमार एफसीए 8/9, रूप नगर फस्ट फ्लोर, न्यू दिल्ली-110007	01/10/2004	78.	082672	श्री अजमान्नी राकेश कुमार एफसीए 143-बी, एलआईजी फ्लैट्स राजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली-1100027	01/10/2004
70.	081895	श्री शर्मा रविन्द्र कुमार एफसीए 43 सी सिव्म अन्वलेव फेक्टरी सी, डिलमिल फेज-II, दिल्ली-110032	30/12/2004	79.	082695	श्री अग्रवाल अशोक कुमार एफसीए अशोक कुमार अग्रवाल एंड कं. 3288, पीपल महादेव, हॉज क्वी, दिल्ली-110006	01/10/2004
71.	081905	श्री विजय कुमार एफसीए चन्दर लोक कालोनी स्ट्रीट नं. 3, ब्लॉक अरोख कलोनिक मंडी गोविन्दगढ़ -147301	01/10/2004	80.	082787	श्री आहुजा मनोज कुमार एफसीए हॉऊस नं. 1430, सैक्टर-15, पंचकुला-134113	01/10/2004
72.	082102	श्री चक्र नवीन एफसीए ई-372, ग्रेटर कैलाश-2 न्यू दिल्ली-110048	01/10/2004	81.	082840	श्री सिंह राजेन्द्रपाल एफसीए 8, II फ्लोर मेन रोड, चिराग दिल्ली न्यू दिल्ली-110017	01/10/2004
73.	082181	श्री कपड़ अतुल एफसीए ब्लॉक-7 एक्सटेंशन 14-ए सफदरजा अन्वलेव न्यू दिल्ली-110029	29/09/2004	82.	082893	श्री भूटानी प्रवीण एफसीए # 316 अरुणाचल भवन बाराखम्बा रोड न्यू दिल्ली-110001	27/12/2004
74.	082273	श्री मिलल राजेन्द्र प्रसाद एफसीए 6/52, कैप्ट पंजाबी बाग न्यू दिल्ली-110026	01/10/2004	83.	083000	श्री दत्ताना संजीव एफसीए 202, एफ/5, संकरासम बिल्डिंग सुंदवन कॉम्प्लेक्स ऑफ स्वामी समर्थ नगर अंधारी (एनएच), मुम्बई-400053	28/09/2004
75.	082370	श्री राकेश कुमार एफसीए मैसर्स राकेश डैग एंड कं. 307, सत्य मैदान, ए-1, ए-2, रंजीत नगर कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली-110008	01/10/2004	84.	083020	श्री मलिक विजय सिंह एफसीए 10-बी, नेत्रजी सुभाष मार्ग दरिया गंज, न्यू दिल्ली-110002	01/10/2004
				85.	083071	श्री सूरी मनिन्दर पाल सिंह एफसीए 405, सत्य एक्स फ्लैट्स-II एन.डी.एस.ई. पार्क-II न्यू दिल्ली-110049	01/10/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
86.	083125	श्री अरोड़ा सुदर्शन एफसीए मेसर्स एस अरोड़ा एन्ड कं. 187, सत्य निकेतन II फ्लोर, न्यू दिल्ली-110021	01/10/2004	95.	083477	श्री गोयल कुमार एफसीए मैजिंग ड्राइवर केएलजी सिस्टेल लि. यूनिट 3-6, जी फ्लोर टॉवर ए, यूनीटेक बिजिनेस पार्क एफ ब्लॉक, साऊथ सिटी 1, सेक्टर-41 गुडौन-122002	01/10/2004
87.	083187	श्री चंदना जोगिन्दर एफसीए मेसर्स जे चंदना एन्ड कं. 303, सेवक भवन 16/2, डबल्यू.ई.ए., करोल बाग न्यू दिल्ली-110005	01/10/2004	96.	083572	श्री कुलभूषण कुमार एफसीए बो-18, मॉडल टाउन रोड नियर इनकम टैक्स आफिस अपो. प्रकाश कलर लेब जालन्धर-144001	01/10/2004
88.	083201	श्री भसीन ब्रिज मोहन एफसीए डी. जन. मैनेजर एच डी एफ सी लि., कैपिटल कोर्ट ओलेफ फ्लाईम मार्ग, मुनिरका, न्यू दिल्ली-110067	01/10/2004	97.	083625	श्री ददू महेन्द्र एफसीए एम ददू एन्ड एसोसिएट्स सी-13, मानसरोवर गार्डन न्यू दिल्ली-110015	01/10/2004
89.	083264	श्री भसीन संगीव एफसीए एससीओ 183-184-185 सेक्टर 17-सी चंडीढ़	30/12/2004	98.	083719	श्री सतीश कुमार एफसीए ससतीव जैन एन्ड एसोसिएट्स 47 बलविन्दर अपार्टमेंट्स ए-6, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली-110063	01/10/2004
90.	083397	श्री चौपड़ा प्रेम प्रकाश एफसीए डी-29, ग्रेटर कैलाश अनक्लेव-2 न्यू दिल्ली-110048	03/12/2004	99.	083803	श्री कुमार कमल एफसीए 137, गर्ग प्लाजा संत नगर रोड, कोम्प्यूनीटी सेंटर पौनपुरा, दिल्ली-110034	01/10/2004
91.	083405	श्री बंसल दया प्रसाद एफसीए एसएफएस डीडीए फ्लैट नं. 154 ड. मुखर्जी नगर दिल्ली-110009	01/10/2004	100.	083827	श्री मुरली धन एफसीए 181-14 श्रीविक्रमसिंह कंठेमिनोयम जर्नी उड्डा, बंसर बाग कुआलालपुर-59100, मलेशिया	29/10/2004
92.	083413	श्री गुप्ता नरेन्द्र मोहन एफसीए सी-28, मेलेयर गार्डन न्यू दिल्ली-110016	01/10/2004	101.	084096	श्री जैन अजय एफसीए सी-14, सी. सी. फ्लाटोनी दिल्ली-110007	01/10/2004
93.	083422	श्री सूद अमरेश एसीए फार्मिस एन्ड एकाउंट्स अलकोटल इंडिया लि. प्लाट नं. 25, इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्टर-18, गुडौन-122015	01/10/2004	102.	084122	श्री अशोक कुमार एफसीए 5-ए/10972, डबल्यू.ई.ए. संत नगर, करोल बाग न्यू दिल्ली-110005	01/10/2004
94.	083459	श्री सार्मा ज्योति कुमार एफसीए ई-73, डीडीए एमआरबी फ्लैट्स सक्केरा, न्यू दिल्ली-110017	01/10/2004	103.	084151	श्री जोहर मनिन्दर सिंह एफसीए 405 साऊथ एस. फ्लाट-II साऊथ एस्टेटन-II, न्यू दिल्ली-110049	01/10/2004

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
104.	084276 श्री गुप्ता सुरेश कुमार एफसीए एससीओ 44, हुडा कॉम्प्लैक्स रोहतक-124001	01/10/2004	115.	085238 श्री नरेश कुमार एफसीए 2044/6, चूना मंडी फहस्रान, न्यू दिल्ली-110055	01/10/2004
105.	084452 श्री कपूर संजय एफसीए 7ए पोकेट-डी, एसएफएस फ्लैट्स फर्रुखाबाद फेज-III दिल्ली-110096	01/10/2004	116.	085276 श्री सेठ प्रवीण एफसीए एससीओ 183-184-185 सेक्टर 17सी चंडीगढ़-160017	01/10/2004
106.	084507 श्री शर्मा विवेक कृष्ण एफसीए सी-67, निजामुद्दीन इस्ट न्यू दिल्ली-110013	01/10/2004	117.	085350 श्री अग्रवाल मनोज कुमार एफसीए बोर्ड/48-सी, अशोक विहार फेज-1 दिल्ली-110052	01/10/2004
107.	084685 श्री बाबा अजय एसीए 50/8, फर्स्ट फ्लोर टॉस्टॉए लेन जनसभ, न्यू दिल्ली-110001	01/10/2004	118.	085481 श्री सिकरी कृष्ण एफसीए के सिकरी एन्ड कं. 6/79 डबल्यू.ई.ए. गुरुद्वारा रोड करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005	01/10/2004
108.	084785 श्री खन्ना राकेश एफसीए एम-115-ए ग्रेटर कैलाश फ्लैट I न्यू दिल्ली-110048	01/10/2004	119.	085518 श्री आहूजा हरिन्दर पाल सिंह एफसीए 595, मॉडल टाउन जय सिंह कॉम्प्लैक्स, 2 फ्लोर नियर नीमिरी होटलसुविधान-141002	01/10/2004
109.	084796 मिस खुराना उर्मिला एसीए डी-3/3, वसंत विहार न्यू दिल्ली-110057	01/10/2004	120.	085521 श्री कुन्दा आशीष कुमार एफसीए ए कुन्दा एन्ड कं. 44-बी टोपेर नगर सिविल लाईंस लुधियाना-141001	01/10/2004
110.	085091 श्री देवेन्द्र कुमार एसीए डी-1/116, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058	01/10/2004	121.	085550 श्री दत्ता राजेश्वरी एसीए विप्रो सैक्टरमहंड 239, ओखला इंड. स्टेट पीएच 3 न्यू दिल्ली-110020	01/10/2004
111.	085109 श्री कंवर सतीश कुमार एसीए 262 सेक्टर 17 फरीदाबाद-121001	01/10/2004	122.	085694 श्री कलबीर सिंह एफसीए 1418, सेक्टर-61 चंडीगढ़	01/10/2004
112.	085125 श्री गर्ग रोशन लाल एफसीए ग्रेडना रोड, अयो. मलिक हॉस्पिटल नियर गौतमला मंडी गेट फरीदाबाद	01/10/2004	123.	085964 श्री सेठ रमन एफसीए 7042 मंडी बास फहस्रान, दिल्ली-110006	01/10/2004
113.	085174 श्री चौपड़ा मोहनन्द प्रताप एफसीए एससीओ 13-14, सेक्टर 16-डी, चंडीगढ़	28/12/2004	124.	085979 श्री प्रसन्न राजेन्द्र एसीए बी/2डी, सिद्ध चक्र अफर्ट. नियर सरगम शॉपिंग सेंटर फरले पार्क, सूत	18/11/2004
114.	085196 श्री गुप्ता प्रकाश चन्द्र एफसीए प्रकाश सी गुप्ता एन्ड कं. ई-45, एन डी एस ई फ्लैट I न्यू दिल्ली-110049	01/10/2004			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
125.	085984	श्री सुद राजीव एफसीए हाऊस नं. 596 सैक्टर 16डी चंडीगढ़	01/10/2004	134.	086843	श्री चौपड़ा सुनील एफसीए सुनील पॉल चौपड़ा एन्ड एसोसिएट्स 266 कल्याण विहार, दिल्ली-110009	01/10/2004
126.	086101	श्री खडेलवाल जय एफसीए 44, डबल स्टोरी, यूजीएफ न्यू राजीन्दर नगर न्यू दिल्ली-110060	07/01/2005	135.	086847	श्री कपूर संजय एफसीए ए 6/8, कृष्णा नगर दिल्ली-110051	16/11/2004
127.	086116	श्री रंजनी अशोक एसीए 201, नीलकण्ठ पैलेस 190-191, संत नगर इस्ट ऑफ कैलास न्यू दिल्ली-110065	25/01/2005	136.	086872	श्री सुरेश कुमार एफसीए सुरेश के भित्तल एन्ड एसोसिएट्स 7341, प्रेम नगर गली नं. 1 सच्चा मंडी, दिल्ली-110007	01/10/2004
128.	086156	श्री गोस्वामी पद्मश एफसीए हाऊस नं. 235 सैक्टर-28, फरीदबाद-121008	23/12/2004	137.	086961	श्री गुप्ता अजय कुमार एफसीए गुप्ता कुछल एन्ड कं. 1539, सैक्टर 22-बी चंडीगढ़-160017	01/10/2004
129.	086267	श्री कृष्ण गोपाल एसीए 286, भारत अपार्टमेंट सैक्टर-13, रोहिणी दिल्ली-110085	13/12/2004	138.	086979	श्री सेठ संदीप एफसीए 65/42 न्यू रोहतक रोड न्यू दिल्ली-110005	01/10/2004
130.	086330	श्री अग्रवाल मुकेश कुमार एफसीए केयर ऑफ मैसर्स अग्रवाल ज़िंदल एन्ड एसोसिएट्स 10129, इस्ट फार्क रोड करोल बाग (अपे फिलीपस्टन) न्यू दिल्ली-110005	01/10/2004	139.	087022	श्री गुप्ता अनिल कुमार एफसीए ए-1, 37एफ, मयूर विहार फेज-III, दिल्ली-110096	22/11/2004
131.	086446	श्री राधकृष्ण पी आर एसीए रामचन्द्रन राधकृष्ण एन्ड एसोसिएट्स ई-305, ग्रेटर कैलास पार्क-II न्यू दिल्ली-110048	01/10/2004	140.	087031	श्री गुप्ता राजीव एफसीए राजीव स्त भूषण एन्ड एसोसिएट्स एस सी ओ 1, 2, 3, 4 फ्लोर (एकव एस बी आई ट्रेडर) सैक्टर 17 बी, चंडीगढ़	01/10/2004
132.	086757	श्री गुप्ता विजय एसीए 341/16ए फरीदबाद-121002	01/02/2005	141.	087077	श्री समसेन संजीव एफसीए डी-403, सैक्टर-10, एम.एस. अपार्टमेंट्स, निवेदिता कुंज अर. के. फुम, न्यू दिल्ली-110022	12/10/2004
133.	086760	श्री गंधी पंकज एफसीए पंकज गंधी एन्ड एसोसिएट्स ए-64, एन.ए. कार्पोरेट लज्जतानगर-IV, न्यू दिल्ली-110024	01/10/2004	142.	087418	श्री घटनागर पंकज कुमार एफसीए सी 393, योगन विहार दिल्ली-110092	01/10/2004
				143.	087475	श्री मनेज कुमार एफसीए पॉवर प्लानेट कोरप. लि. चन्द्र लोक, 4 फ्लोर 36 जयपथ, न्यू दिल्ली-110001	21/10/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
144.	087585	श्री गुता अतुल एसीए हाऊस नं. 2365 सेक्टर-38सी, चंडीगढ़-160036	30/09/2004	154.	088188	श्री सेठी अनिल एफसीए बीडी/3डी, डीडीए फ्लैट्स मुनिरका, न्यू दिल्ली-110067	14/10/2004
145.	087651	श्री मनीष विमल एसीए केयर ऑफ पार्सट इंडोरोमा सिन्थेटिक्स ग्रह ईरामा, 17 फ्लोर जेएल एच आर एस्टा सैड, ब्लॉक X 1 कव एण्ड 2 पी ओ बक्स 3375 जकसटा-12950, इंडोनेशिया	01/10/2004	155.	088196	श्री रविन्द्र कुमार एफसीए रविन्द्र संगर एण्ड कं. डी-41, गारोन्हा अपार्टमेंट श्रेष्ठ विहार, दिल्ली-110092	01/10/2004
146.	087729	श्री दिओरा अरुण कुमार एसीए एफएफ/3, स्टूड्यो बैंक स्ट्रीट करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005	01/10/2004	156.	088240	श्री भारत बंधु एसीए 4227, सैक्टर-डे फ्लैट-4, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली-110070	01/10/2004
147.	087731	श्री चौखट संजय एफसीए 6ए, एल आई जी फ्लैट्स राजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली-110027	01/10/2004	157.	088259	श्री विजय सिंह एफसीए बी-15, सैक्टर-26 नरेखा-201301	24/09/2004
148.	087739	श्री राजेन्द्र प्रसाद एफसीए 106 सी/1, कृष्णा नगर स्ट्रीट नं. 6, सफदरजां अन्वलेव न्यू दिल्ली-110029	01/10/2004	158.	088381	श्री कृष्णस्वामी एस एसीए सी-601, उम्करी अपार्टमेंट्स फ्लैट नं. 9, सैक्टर-12 झारका, न्यू दिल्ली-110075	17/11/2004
149.	087830	श्री विद्या सुनील एफसीए हाऊस नं. 847, सैक्टर-17, फरीदबाद	01/10/2004	159.	088459	श्री भंडारी नीरज एफसीए नीरज भंडारी एण्ड कं. बी-88, अलोक विहार फेज-1 दिल्ली-110052	01/10/2004
150.	087930	श्री माधुर अमृज एफसीए बी-102, यूनेस्को 55 अर्बा पी. एक्सप्रेसवे दिल्ली-110092	01/10/2004	160.	088612	श्री राधकृष्ण मूर्ति गुर्गम एसीए चीफ एक्ज़िक्यूटिव इन्फो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फार्मिस एण्ड डेवेलपमेंट एडमिन मन्सिंह ऑफ कोर्टस्वान, पीबी 008 मन्सोरे, सऊद अरबिया	19/10/2004
151.	087952	श्री गर्ग अजय कुमार एफसीए 4855-56/24, अंसरी रोड वरिया गंज, न्यू दिल्ली-110002	01/10/2004	161.	088671	श्री कपूर रवि एफसीए फ्लैट नं. 34-सी, फ्लैट-एफ जी टी बी हॉस्पिटल दिल्ली-110093	29/09/2004
152.	087982	श्री मेहत अरुण एफसीए अजय अरुण मेहत एण्ड एसोसिएट्स 103-104 अवध कॉम्प्लेक्स डी-5, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	01/10/2004	162.	088698	श्री प्रकाश कुमार एफसीए के के एण्ड एसोसिएट्स डी 81 प्रउंड फ्लोर लैफ्ट सिंग, कालासानी न्यू दिल्ली-110019	01/10/2004
153.	088126	श्री समर्थ अतुल एफसीए 58 एमनंद विहार विकास मार्ग एक्सप्रेसवे दिल्ली-110092	01/10/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
163.	083770	श्री उपल गुरिन्दर सिंह एफसीए 206, सेक्टर 21-ए चंडीगढ़-160022	01/10/2004	173.	089391	श्री वर्मा विकास 202 ब्लॉक 16 कैलाश धाम, ई 1 सेक्टर 50 नोएडा-201307	01/10/2004
164.	088803	श्री जैन संजीव कुमार एफसीए बी-5/13, फ्लैट फ्लोर राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007	01/10/2004	174.	089537	श्री नरेश कुमार जीएफ-5, हंस भवन विंग-11, बी एस जेड मार्ग न्यू दिल्ली-110002	01/10/2004
165.	088836	श्री महेश चंद एफसीए केयर ऑफ अस्पताल क्लिनिक चक्रवर्त कालोनी बल्लभगढ़-121004	01/10/2004	175.	089585	श्री कोहली रमोन्दर सिंह एफसीए रमिन्दर एस कोहली ए-ड कं. बी-142, स्वास्थ्य विकास विकास मार्ग दिल्ली-110092	01/10/2004
166.	089018	श्री शटिया रजनीव एफसीए 202, ए-20, इन्द्रप्रस्थ भवन मुखर्जी नगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009	01/10/2004	176.	089588	श्री बहल देवेश एसीए वांरुन-प्रेमिडेट (फर्नीचर) जीई कैपिटल सर्विसिंग इंडिया जी ई टॉवर फेज V, गुड्राव	01/10/2004
167.	089032	श्री फलीबल हरीश कुमार एसीए एच नं. 6, फ्लैट नं. 57 रेलवे स्टेशन रोड खेरा कलाँ, दिल्ली-110082	27/12/2004	177.	089830	श्री गुता सतीश कुमार एफसीए न्यू पी टी हाउस बग बजार समस्ती-247776	01/10/2004
168.	089145	श्री हरि नारायणन बी एफसीए 163 रोड सगर 1 डीडीए आरपीएस फ्लैट्स न्यू दिल्ली-110017	01/10/2004	178.	089917	श्री मन्कर गीत पॉल एफसीए जी बी मन्कर एन्ड कं. 11, दयानंद नगर, लॉरेन्स रोड अमृतसर-143001	01/10/2004
169.	089224	श्री भूपेन्द्र कुमार एफसीए भूपेन्द्र अरोड़ा एन्ड एसोसिएट्स डबल्यूरोड 439, एस एस ब्लॉक हरी नगर, न्यू दिल्ली-110064	01/10/2004	179.	089940	श्री सर्व विजय एस एस एसीए दिल्ली एन्ड टवे एलएलपी द कर्ड फर्नीचर सेंटर न्यू यार्क एन. बर्ड-10281 यू.एस.ए.	29/09/2004
170.	089232	श्री सिंह रविन्द्र कुमार एसीए 106, 1 फ्लोर, स्ट्रीट नं. 18, प्रताप नगर मनू विहार फेज-1, दिल्ली-110091	01/10/2004	180.	089945	श्री गुता दीपक एफसीए हाऊस नं. 11, रोड नं 7 फ्रंट पंजाबी बाग न्यू दिल्ली-110026	01/10/2004
171.	089347	श्री जेय मनीव एफसीए ईवी मिल लि., 51 3 फ्लोर ओखला इंड. स्टेट 3 न्यू दिल्ली-110020	01/10/2004	181.	089984	श्री बंसल धर्म प्रकाश एफसीए डी बंसल एन्ड कं. 36 एच नं. 61, स्ट्रीट 6 विहारी कालोनी साइदरा दिल्ली-110032	01/10/2004
172.	089354	श्री मदन सुशील एफसीए सुशील मदन एन्ड एसोसिएट्स डबल्यूरोड-760, रिची नगर दिल्ली-110034	01/10/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
182.	090058	मिस बैनजीया दीपासरी एसीए एचएलटी हाउस, वन ओखला सेंटर ब्लॉक ए, ओखला इस्ट, एरिया न्यू दिल्ली-110025	01/10/2004	192.	090488	श्री अरुण कुमार एफसीए अरुण के. गोयल एन्ड कं. केयर ऑफ हंस आर्ट्स मिल्स 483, राम नगर, लुधियाना-141001	01/10/2004
183.	090108	श्री कपूर संजय एफसीए 414 पोकेट एफ सरिता विहार, न्यू दिल्ली-110044	01/10/2004	193.	090546	श्री वषवा राजीव एफसीए 182, सत्या निवेदन न्यू दिल्ली-110021	01/10/2004
184.	090137	श्री आहूज अरन एफसीए 28 डीएसआईटीसी कॉम्प्लेक्स माता सुंदरी रोड न्यू दिल्ली-110002	01/10/2004	194.	090759	श्री बद्रीनारायणन के एसोए अर्नास्ट एन्ड यंग प्रा. लि. 18, एक्सप्रेस टॉक्स नरिमान पार्क, मुम्बई-400021	12/10/2004
185.	090152	श्री सतीश कुमार एफसीए 252 भीम अन्वलेख पश्चिम विहार न्यू दिल्ली-110087	01/10/2004	195.	090830	श्री गुप्ता संदीप कुमार एसीए 2473, पिच अवेन्यू टोरोन्टो, ओन्टारियो एमएम 2जी कनाडा	04/11/2004
186.	090220	श्री गवध विजय कुमार एफसीए केयर ऑफ एनवीआर एंड एसोसिएट्स 606, न्यू दिल्ली हाउस 27, बाराखम्बा रोड कॉन्ट प्लेस, न्यू दिल्ली-110001	01/10/2004	196.	090957	श्री तेजोवर मन्नावा श्रीनिवास एफसीए केयर ऑफ राजीव सिंह एन्ड कं. 6/85-86, मालविया नगर एलजीएफ, न्यू दिल्ली-110017	01/10/2004
187.	090251	श्री अनिल कुमार एफसीए हाउस नं. 674, सेक्टर 31 गुडगाँव-122001	01/10/2004	197.	090994	श्री चैतन राज कुमार एफसीए एच नं. 3823, ए/7 कन्हैया नगर (त्रि नगर) दिल्ली-110035	26/10/2004
188.	090407	श्री जितेंद्र मनीष एफसीए 1 टोडर मल लेन कॉन्स्टीट्यूट, न्यू दिल्ली-110001	01/10/2004	198.	091008	श्री परवानी हेमंशु एसीए 18227 सानोन रिज प्लेस केन्यन कंट्री सीए 91387, यूएसए	14/12/2004
189.	090434	श्री गोयल विकास एफसीए एफ-185, 2 फ्लोर स्ट्रीट नं. 3, पांडव नगर दिल्ली-110091	01/10/2004	199.	091012	श्री दत्त नीरज एसीए कनेडियन इन्वैस्टर प्रोटेक्शन फंड 79, वेल्सिंग्टन स्ट्रीट वेस्ट स्यूट 610, पी. ओ. बक्स 75 टोरोन्टो, ओन्टारियो एमएमके 1ए7, कनाडा	01/10/2004
190.	090444	श्री जैन संजय एफसीए जी-3 एम सी डी फ्लैट्स, चम्पकाल मर्चेंट कमला नगर, दिल्ली-110007	01/10/2004	200.	091097	श्री मंगो राजेश एफसीए 74, जीएच-14, पश्चिम विहार पी. ओ. सुंदर विहार न्यू दिल्ली-110087	01/10/2004
191.	090454	श्री नंद हेमंत एफसीए 11 संकराचर्य मार्ग, गुरुवदन केसले सिबिला लार्न्स, दिल्ली-110054	01/10/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
201.	091167	श्री मेहता कुलदीप एफसीए 347-348, 12 स्ट्रीट जेबी रोड, करोला बाग न्यू दिल्ली-110005	01/10/2004	212.	091793	श्री यदुव नवल किशोर एफसीए काठमांडू प्रेसिडेंसिबिलिटी वार्ड नं. 8, कुमारीगल पोस्ट बाक्स नं. 12133 काठमांडू, नेपाल	01/10/2004
202.	091182	श्री हरीप्रत सिंह पाहवा एफसीए हाऊस नं. 49-ए मंडल टाऊन एक्सप्रेसवेन लुधियाना	01/10/2004	213.	091819	श्री सेन दीपेन एसीए 634/12, नई आबादी गली नं. 8 अर्जुन नगर, गुडगांव-122001	01/10/2004
203.	091281	श्री मेहरा अंशुल एच 504 मयूर घाट अपार्ट्स 60, अर्धश्री एक्सप्रेसवेन फटपरगंज, दिल्ली-110092	01/10/2004	214.	091958	श्री विस्तारया सुनीत एसीए इलमिया सिमेंट (बी) लि. 11 फ्लोर, हंसलया 15, बाराखम्बा रोड न्यू दिल्ली-110001	01/10/2004
204.	091321	श्री मेहरा मनु एसीए पी. ओ. बक्स 42395 अबू कबीर पुरा	01/10/2004	215.	092009	श्री सिंह गुरदेव एफसीए एस सी ओ 80-81 सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़	01/10/2004
205.	091376	श्री जस्टीस असीम एफसीए डी-1/97, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058	01/10/2004	216.	092053	श्री राज कुमार एफसीए 952 सेक्टर 21-सी फरीदाबाद	01/10/2004
206.	091421	मिस सेन नमनिता एफसीए सी-408, विसरण पार्क, न्यू दिल्ली-110019	01/10/2004	217.	092173	श्री संगीत सांखन एसीए जे-1942, 2 फ्लोर सी. अर. पार्क, न्यू दिल्ली-110019	01/10/2004
207.	091474	श्री भूटानी गिरीश एफसीए जी-30, कॉर्पोरेट नगर न्यू दिल्ली-110015	01/10/2004	218.	092242	मिस कुमारा मंजु एफसीए 72, आदर्श कुंज अपार्टमेंट सेक्टर 13, निगर सचदेव पब्लिक स्कूल छेबी, दिल्ली-110085	03/03/2005
208.	091530	श्री दीपक कुमार महाजन एफसीए जे-38, रिजर्व बैंक अक्वारेम परिक्व निगर, न्यू दिल्ली-110063	01/10/2004	219.	092362	श्री गेयला संजय एफसीए 4ए उज्ज्वल अपार्टमेंट्स एच-ब्लॉक विकासपुरी न्यू दिल्ली-110018	01/10/2004
209.	091642	श्री यशवीर सिंह चौहान एफसीए एच नं. 4830, मोहल मुसली बख्त रेवारी	01/10/2004	220.	092363	श्री जैन मनोज कुमार एफसीए सी-35/147ए, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058	01/10/2004
210.	091741	श्री दिलीप कुमार एफसीए सी-71 फ्लोर, लक्ष्मण नगर-1 न्यू दिल्ली-110024	01/10/2004	221.	092431	श्री अश्वकला प्रदीप कुमार एफसीए 308, सिडिगेट हाऊस, 3, ओल्ड रोड रोड हरदोलेक, दिल्ली-110035	01/10/2004
211.	091757	श्री रवि एफसीए 3, कपटिपुल्टी, फाटं चेन ऑनलाइन, न्यू जेनेसिस	15/12/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
222.	092443	श्री गुता विनय कुमार एफसीए 332, अस्लेक अनक्लेवमेन फरीदबाद	30/12/2004	233.	092914	श्री पंकार धर्मेन्द्र एसीए सिनीयर मैनेजर-कोरपोरेट ऑडिट ग्रुप भारती टेलीकैम्स लि. ए-30, सार्दुल नगर मेहरौली-बदरपुर रोड न्यू दिल्ली-110030	01/10/2004
223.	092464	श्री प्रेवर रमन एसीए जी-18/20, सेक्टर-15 रोहिणी, दिल्ली-110085	11/11/2004	234.	092919	श्री बहल सुनील एफसीए केयर ऑफ सुनील चौधरी बिल्डिंग 387/6, नियर राज मॉडल स्कूल मास्टर कालोनी, दीन नगर तहसील पठनकोट, डीटी. गुरदासपुर गुरदासपुर-143531	01/10/2004
224.	092517	श्री ददु दिवकर एफसीए ई-165, सरिता विहार न्यू दिल्ली-110044	28/02/2005	235.	092946	श्री रमा विनोद कुमार एसीए 3845, सेक्टर 15बी ई. अपार्ट 104, टोरोन्टो एस्टेट 3एस8, कनाडा	01/10/2004
225.	092524	मिस गुता कबीरा एफसीए ए-2/263, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058	01/10/2004	236.	092977	श्री मंगल अखिल एफसीए 23, जीएफ मन्नाक विहार दिल्ली-110092	01/10/2004
226.	092539	श्री कमल अजय एफसीए सी 4/89 बी कोराव पुरम लॉरेन्स रोड, दिल्ली-110035	01/10/2004	237.	092983	श्री संगीव कुमार एफसीए 10/100, लुमिना रोड न्यू सऊथ वेल्स 2560 ऑस्ट्रेलिया	08/02/2005
227.	092642	श्री भुल्लूकरण राहुल एसीए वॉर्स प्रेजिडेंट जे. पी. मेरगान सिविलीटिज इल. 270, पार्क एवेन्यू 5 फ्लोर न्यू यार्क एस्टेड 10017, यू.एस.ए.	01/10/2004	238.	093015	श्री मुकटी अजय एसीए सी 66 सिविलिक नियर मालविया नगर न्यू दिल्ली-110017	01/10/2004
228.	092693	श्री लखविन्दर सिंह एसीए फ्लैट नं. 17, एपार्ट नं. 452-453 सेक्टर-21ए, फरीदबाद	01/10/2004	239.	093101	श्री अग्रवाल धीरज किशोर एसीए फ्लैट नं. 262, सेक्टर-8, पंचकुला-134109	21/02/2005
229.	092713	श्री नरेश कुमार एफसीए इंजनी-1, पुष्प कमलैक्स विहार	01/10/2004	240.	093238	श्री अरोहण रेवित एसीए बी-4/111, परियम विहार न्यू दिल्ली-110063	03/02/2005
230.	092739	मिस चकला सेनियर एफसीए बी-106, मासरोवर गार्डन, न्यू दिल्ली-110015	01/10/2004	241.	093287	श्री डिबोर समीर एसीए 8/39, डब्ल्यू ई.ए. करोल बाग न्यू दिल्ली-110005	01/10/2004
231.	092769	मिस रमा रमविन्दर एसीए 55, सेक्टर प्रोसेट लॉरेन्स रोड, वॉर्स एस्टेट 8 यू.एस.ई.	01/10/2004				
232.	092857	श्री मनेट विवेक एसीए सी-2/143, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058	01/10/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
242.	093300	श्री कर्म अशोक एफसीए अशोक कर्म एंड एसोसिएट्स चैम्बर नं. 304, कैपिटल हाउस 21 वीर सक्कर बल्क सकरपुर, दिल्ली-110092	01/10/2004	252.	093776	श्री अखरोमका सिव दयाल एसीए एचपीसीएल, 50 न्यू फोर्ब्स ग्राउंड, सहेली नगर, उदयपुर-313001	31/12/2004
243.	093326	श्री नरेश कुमार एफसीए 10129 इंट पार्क रोड अपे फिन्सीस्तान सिनेमा करोल बग, न्यू दिल्ली-110005	01/10/2004	253.	093805	श्री गारचा राजेश कुमार एसीए 2575, स्टील्स अवे, ब्रम्पटन ओन्टेरियो, कनाडा	20/12/2004
244.	093360	श्री वी विद्या सगर एसीए 210 एमआईसी फ्लैट्स प्रसाद नगर, न्यू दिल्ली-110005	01/10/2004	254.	093810	श्री मुकेश कुमार एफसीए एच नं. 1701, सैक्टर 8 फरीदाबाद-121002	01/10/2004
245.	093416	श्री गुनारितेश एसीए ए-26, लॉन खस न्यू दिल्ली-110016	01/10/2004	255.	093815	श्री गंगा दिनेश कुमार एफसीए केयर ऑफ श्री आर के कर्म एच नं. -160 जे एक्सप्रेसशन स्ट्रीट नं. 5, लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092	17/12/2004
246.	093519	मिस रम्या मिन्दु सी-504, नगराजुन अपार्टमेंट मयूर कुंज, मयूर विहार फेज एक्स-1 दिल्ली-110091	01/10/2004	256.	093852	श्री रामपाल अमित एफसीए कोठी नं. 2356, सैक्टर 38-सी चंडीगढ़	01/10/2004
247.	093546	श्री महाजन अशोक एफसीए एक्स फर्स्ट फ्लैट कोरियर्स नियर मिट एड्युकेशन सेंटर स्कूल बाजार, हिमाचल प्रदेश मंडी-175001	01/10/2004	257.	093882	श्री एस वैकटारमन एसीए 19-बी/1 न्यू मार्किट न्यू रोहतक रोड, न्यू दिल्ली-110005	13/12/2004
248.	093558	श्री राजीव कुमार एफसीए #1048, सैक्टर 19-बी चंडीगढ़	01/10/2004	258.	094058	श्री मदन भुवन एसीए ए-103, अशोक विहार फेज 3 दिल्ली-110052	18/02/2005
249.	093651	मिस जैन प्रफुल्ल एसीए केपीएमजी इंडिया प्रा. लि. ब्लॉक 4, डीएलएफ कोरपोरेट पार्क डीएलएफ सिटी फेज 3, गुडगांव	01/10/2004	259.	094166	श्री रम्या सुधीर कुमार एसीए 133, गुरु राम दास नगर लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	11/10/2004
250.	093724	श्री रम्या विरेन्द्र कुमार एफसीए 546, फेज-5, मयूर विहार फेज-1 दिल्ली-110091	01/10/2004	260.	094192	श्री जैन अतुल कुमार एफसीए डी-22, पंडव नगर दिल्ली-110092	01/10/2004
251.	093761	श्री मुंशी नयनीता एसीए एच नं. 1176, सैक्टर 22-बी चंडीगढ़-160022	01/10/2004	261.	094308	श्री दीपक कुमार एफसीए मैसर्स सुरेन्द्र कुमार सिंगल एन्ड कं. 104 आनंदलाल फ्लाट्स, फ्लैट नं. एच 7 नेहाजी सुभाष फेज, पीतमपुरा, दिल्ली-34	01/10/2004
				262.	094323	श्री बंसल नयनीता एसीए एफ-41, ग्रीनवुड सिटी (फ्लैट्स) सैक्टर-46, गुडगांव-122001	01/10/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
263.	094360	श्री गुप्ता अरुण एफसीए 4 जेडीए प्लॉट न्यू रेहरी जम्मूतबी-180005	01/10/2004	273.	094834	श्रीमति अरोड़ा सुष्मा एसीए 1961, कटरा खुशाल राय किनारी बाजार, दिल्ली-110006	01/10/2004
264.	094414	श्री सुखविन्दर सिंह एसीए 69/61, डबल्यू ई ए करोल बाग न्यू दिल्ली-110005	02/02/2005	274.	094838	श्री चौधरी धर्मेन्द्र कुमार एफसीए 12/208 कोम्प्यूटि सेंटर प्रोत विहार, दिल्ली-110092	01/10/2004
265.	094452	मिस बज्जल प्रीत एफसीए जे-12, राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली-110027	01/10/2004	275.	094878	श्री दौगदा गगन एसीए कंयर ऑफ रेकिट बेंकॉप्स अरोबिया एफजेडई पी ओ बाक्स 61344 दुबई, यूएई	23/12/2004
266.	094501	श्री कपिल देव एसीए 1619, उलाधानपुर नवीन साहदरा, दिल्ली-110032	01/10/2004	276.	094961	श्री गुलाटी संजीव एसीए 304, प्रेस्टीज चैम्बर्स 15ए/1, डबल्यूई.ए., करोल बाग न्यू दिल्ली-110005	01/10/2004
267.	094574	श्री गोपाल उमा संकर एफसीए 203 श्री गणेश कॉम्प्लैक्स 32-बी वीर सारवर ब्लॉक राकरपुर, विकास मार्ग, दिल्ली-110092	01/10/2004	277.	095014	श्री गोपाल नितिन एसीए 255, नागिन लेक अपार्टमेंट्स आउटर रिंग रोड, पौरागवी, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली-110087	01/10/2004
268.	094606	श्री बंनू जसवंत सिंह एसीए 210, मनमोहन विलेज हैदराबाद-500019	12/10/2004	278.	095030	श्री हीरा राजीव एसीए 241 ड. मुखर्जी नगर दिल्ली-110009	01/10/2004
269.	094613	श्री विनोद कुमार एसीए आर-IV-23, यमुना कालोनी देवरघन-248001	01/10/2004	279.	095090	श्री सूद अनुराग एसीए 801, टॉवर II समवी अपार्टमेंट्स सेक्टर-55 जीएच-85 गुडाम-122003	20/12/2004
270.	094628	श्री जैन नवीन एसीए बीएसआर एन्ड कं. 48, डीएलएफ कोरपोरेट पार्क डीएलएफ सिटी, फेज-III, गुडाम	01/10/2004	280.	095221	मिस नरुला अल्का एसीए एयरलाइन्स एलाइंड सर्विसेज लि. एन.टी.ए. डम डम एनएससीवीआई डेमस्टिक एयरपोर्ट कोलकाता-700052	23/12/2004
271.	094643	श्री कल्याण ललित एसीए महिन्द्रा ब्रिटिश टेलीकोम लि. शारदा सेंटर, ऑफ कन्नू रोड एंड्रयून्स, पुणे-411004	01/10/2004	281.	095243	मिस चवला रितु एसीए रोड नं. 14, हाऊस नं. 9 पंजाबी बाग इस्ट, न्यू दिल्ली-110026	01/10/2004
272.	094790	श्री कर्ण विशम्बर कुमार एफसीए एमबी-बी अंतरिक्ष भवन, 22 के जी मार्ग न्यू दिल्ली-110001	01/10/2004	282.	095262	श्री गिंदल प्रीत एसीए बी-1/166, पश्चिम विहार न्यू दिल्ली-110063	29/09/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
283.	095332	मिस चन्द्र वसुधा एसीए 49, इंजीनियर्स स्टेट 21, आई.पी. एक्सटेंशन फटपर गंज, दिल्ली-110092	01/10/2004	292.	095669	श्री कमल गोल्डी एसीए ए-239, सरीत विहार मथुरा रोड, न्यू दिल्ली-110044	01/10/2004
284.	095400	श्री अभिलषी इंटरजीत एफसीए परम धूषण एन्ड कं. बी-17, मॉडल टाउन रोड नियर इनकम टैक्स ऑफिस जलन्सर-144001	01/10/2004	293.	095690	श्री लखोटिया दिनेश एसीए सी-4/187, दयानंद कालोनी लजपत नगर-IV, न्यू दिल्ली-110024	01/10/2004
285.	095425	श्री मेहता मंजीप एसीए कलदीप रतन एन्ड कं. 347-348, 12 स्ट्रीट जोशी रोड, करोल बाग न्यू दिल्ली-110005	01/10/2004	294.	095765	श्री कमलेश अमित एसीए हाउस नं. 432, सैक्टर-48, पंचसरोवर	29/12/2004
286.	095430	श्री चमन लाल एफसीए बी 18 मॉडल टाउन रोड नियर आईटी ओ अपे. प्रकाश कलर लैब जलन्सर-144001	01/10/2004	295.	095785	श्री बागरी अजय एसीए असिस्ट. मैनेजर नॉर्थ दिल्ली पॉवर लि. ग्रिड सब स्टेशन बिल्डिंग, विजयवाडी, दिल्ली-110009	01/10/2004
287.	095543	श्री प्रेमजित सिंग एसीए ए-113, रिजेन्सी फ्लैट-1 डीएलएफ फेज-IV, हरियाणा गुडगांव-122001	01/10/2004	296.	095804	श्री सम्राट सीता राम एफसीए 68-एएमआईबी फ्लैट सिद्धि अन्वलेष, ब्रिजमिल दिल्ली-110032	01/10/2004
288.	095556	श्री वैभव एसीए सी-2/106, फ्लैट फ्लोर बनारसपुरी, न्यू दिल्ली-110058	01/10/2004	297.	095812	श्री मेहता अनिल एसीए एच-103, एलआईबी फ्लैट्स फेज-I अनोक विहार, दिल्ली-110052	01/10/2004
289.	095593	श्री हरजीत सिंह एसीए ए-167, गुणवत्ता टाउन फ्लैट-1, दिल्ली-110009	01/10/2004	298.	095895	श्री हरदीप सिंह एसीए कोयल ऑफ ए.जी.एस. एसेसिएट्स 7, कैथली, मेन रोड प्रीतमपुर, दिल्ली-110088	01/10/2004
290.	095633	श्री कलदीप सिंह सोखल एफसीए एच.नं. 168, बी.पी. ओ.सां नगर तहसील उनीच, सिता-125075	01/10/2004	299.	096012	श्री कर्मी एकोट एफसीए 217, विजेन्द्र कॉम्प्लेक्स ई-10-12, गजपत पार्क लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	01/10/2004
291.	095647	श्री सिंह विजय देव एसीए कोयल ऑफ मैसर्स प्रॉपर्टी वॉटर हाउस सोनी रोड, न्यू दिल्ली-110080	01/10/2004	300.	096021	श्री चक्र संजय एसीए 49, इंजीनियर्स स्टेट, 21, फटपर गंज, आई.पी.एक्सटेंशन दिल्ली-110092	01/10/2004
				301.	096034	श्री कलदीप एफसीए बी 18, मॉडल टाउन रोड, नियर आईटी ओ अपे.प्रकाश कलर लैब, जलन्सर-144001	01/10/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
302.	096042	श्री रस्तोगी सौरभ एसीए ए 71, मधुवन, सकरपुर दिल्ली-110092	01/10/2004	312.	096532	श्री विनोद कुमार एफसीए कैपी-365, पीतम पुरा दिल्ली-110088	01/10/2004
303.	096063	श्री आचार्य बुद्धि प्रसाद एसीए पोस्ट बक्स नं. 5783, काठमांडू, नेपाल	01/10/2004	313.	096584	श्री उपाध्याय कमलेश कुमार एफसीए 10/133, वैस्ट गुरु अंगद नगर मेन गुरुद्वारा रोड लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	01/10/2004
304.	096104	मिस लक्ष्मी रचना एसीए ई-198, न्यू राजिन्दर नगर न्यू दिल्ली-110060	01/10/2004	314.	096606	श्री पंडे अर्जुन प्रसाद एसीए जे-10ए/एफ, स्ट्रीट-6 लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	01/10/2004
305.	096119	श्री बेदी सपनजीत सिंह एसीए इन्ट माईनिंग, 330, बेस्ट्रीट स्ट्रीट 1000, टोरेन्टो एमएच 258 कनाडा	16/12/2004	315.	096617	श्री सिंह इंद्रजीत एसीए एफ 7, कटवरिय ससय न्यू दिल्ली-110016	01/10/2004
306.	096150	श्री माधवन रोहित एसीए 6-बी नीथि अपार्टमेंट्स 84 आईपी एक्सस्टेंशन पटपरगंज दिल्ली-110092	01/10/2004	316.	096705	श्री वर्मा हेरीयोम एफसीए 430, पारसव विहार 50, आईपी एक्सस्टेंशन दिल्ली-110092	01/10/2004
307.	096210	मिस अग्रवाल कृति एसीए सी-104, फर्स्ट फ्लोर सिक्किम, न्यू दिल्ली-110017	01/10/2004	317.	096721	श्री राजेश कुमार एफसीए डी 83, 2 फ्लोर, अमर कालोनी लक्ष्मी नगर 4, न्यू दिल्ली-110024	01/10/2004
308.	096214	श्री अरोड़ा गौरव एफसीए सी 97, पंचसैल अन्सलेव न्यू दिल्ली-110017	01/10/2004	318.	096770	श्री डेबरीयाले विजय कंठा एसीए आरलेंड 400 बी-2 एन नगर, फलम कालोनी न्यू दिल्ली-110045	04/03/2005
309.	096336	श्री गुप्ता राजेश कुमार एफसीए 49, डेडीए एक्सप्रेस फ्लैट्स गुलमेहर अन्सलेव न्यू दिल्ली-110049	01/10/2004	319.	096774	श्री जैन सविन एसीए जीई कैपिटल इंटरनेशनल सर्विसिज सेक्टर-18, 22ए, उद्योग विहार गुडगाँव	01/10/2004
310.	096337	मिस गारुडा प्रमोद एसीए 2575, स्टैलेस अवे ब्रम्पटन, ओन्टेरियो कनाडा	20/12/2004	320.	096793	श्री सलूज रिषी एसीए बी-1/202, मिशन विहार फ्लैट नं. 72, आईपी एक्सस्टेंशन दिल्ली-110092	01/10/2004
311.	096429	श्री माधुर उदुल एसीए पी. ओ. बक्स 567 जेमेल अलि प्री जेन बी-35, ओर्बल पौन्ड सफरवा दुबई, यू.ए.ई.	18/01/2005	321.	096935	श्री सुनील कुमार एफसीए 71 अलोक नगर, निगर पीनबी बस्ती नऊ, जालंधर सिटी जालंधर	01/10/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
322.	097059	मिस अश्वाल मीनानी एसीए इंडियन आईल कोरप., 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 2 लाधी रोड, न्यू दिल्ली-110003	01/10/2004	332.	097558	श्री जैन सचिन एसीए 302/18, 18, सिविल लाईन्स न्यू हरिद्वार रोड, रुरको, हरिद्वार	01/10/2004
323.	097061	श्री जैन अमित एसीए फ्लैट नं. 902, आर्चवरी कोर्ट 4 केयर ऑफ एसेल एक्सप्रेस प्रोपर्टी पी लि. मेन मेहरोली गुड्राव रोड अपोजे प्रोबिट हॉस्पिटल, गुड्राव	01/10/2004	333.	097643	श्री सिंघल अनुज एसीए असिस्ट. चाईस प्रेजिडेंट बैंक ऑफ अमेरिका, एक्सप्रेस टॉवर, 16 फ्लोर, नरिमान पॉइंट, मुम्बई-400021	01/10/2004
324.	097073	श्री अश्वाल राधकेन्द्र एसीए सी-684, सरीत विहार न्यू दिल्ली-110044	01/10/2004	334.	097789	श्री कालिया आशुतोष एसीए 40, नेनेन प्लेस, ब्रम्पटन, ओन्टेरियो एलएस 5वाइड, कनाडा	01/10/2004
325.	097132	मिस योगेश सुक्मा एफसीए एच नं. 2046 सैक्टर 27 सी चंडीढ़	01/10/2004	335.	097801	श्री अजमेरा अरुण एसीए 1-सी-16, शास्त्री नगर ओरेंज हाउसिंग बोर्ड, भीलवाड़ा	05/10/2004
326.	097142	श्री मेहता शिवानु एम-35, सक्केत न्यू दिल्ली-110017	01/10/2004	336.	097815	श्री बिन्दा हरप्रीत सिंह एसीए बीडी 100 एमआईजी फ्लैट्स जनकपुरी, न्यू दिल्ली-110058	01/10/2004
327.	097258	श्री रमा निरिन एसीए 165-सी, सैक्टर-19 रोहिणी, दिल्ली-110085	01/10/2004	337.	097849	श्री पुरी गगनप्रीत सिंह एसीए के पी एम जी, ब्लॉक 4 बी, डीएलएफ कारोपोरेट पार्क, डीएलएफ सिटी फेज 3, मेहरोली गुड्राव रोड, मेहरोली	01/10/2004
328.	097331	श्री गोयल मेहिति 38/बी-5, सैक्टर 8, रोहिणी, दिल्ली-110085	01/10/2004	338.	097861	श्री डी राख रॉय एसीए सी-1785 फेज-1 सुखंत लोक, गुड्राव-122001	01/11/2004
329.	097340	श्री सहजवल रिपी एफसीए एसजीओ 2924, सैक्टर 22सी चंडीढ़-160022	01/10/2004	339.	097876	मिस मिक्ल विनू एसीए अर्नस्ट एंड यंग, पी ओ बक्स 9267, दुबई यूएई	01/10/2004
330.	097455	श्री कंडमल कमल किशोर एसीए बेनेट कोलमैन एंड कं. लि. मेस 7, बालपुराह जफर मार्ग न्यू दिल्ली-110002	01/10/2004	340.	097957	श्री भूरा समीर एसीए 2343, सैक्टर 13, अरबन स्टेट, वरनाल	01/10/2004
331.	097472	श्री रावल राजुल एसीए 3 फ्लोर, 1 कोयूटी सैक्टर इंस्ट ऑफ कौलस न्यू दिल्ली-110065	01/10/2004	341.	098000	श्री वी मुकुन्दभरन एसीए सी 2 बी/56 बी, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058	01/10/2004
				342.	098042	श्री वैभव कुमार एसीए सी 28, मेमेयर गार्डन न्यू दिल्ली-110016	01/10/2004

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
343.	098096 श्री सूरि रमनदीप सिंह एसीए 35/11ए, डबल स्टोरी, अशोक नगर न्यू दिल्ली-110018	01/10/2004	353.	098456 श्री तुली अंकुश एसीए रैनबैक्सी लैब्स, 10 फ्लोर, देवीका टॉवर्स, 26, नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली-110019	01/10/2004
344.	098102 श्री मोहन कुमार एसीए 21/24-बी, तिलक नगर न्यू दिल्ली-110018	01/10/2004	354.	098495 श्री रूंगटा प्रतीक एसीए ए टी कीरनी लिमिटेड ताज महल होटल, स्ट्रूट 1001 1 मानसिंह रोड, न्यू दिल्ली-110011	01/10/2004
345.	098156 मधु हसनीता एसीए केयर ऑफ मैसर्स एस. आर. बटलीबोर एंड कं., 2 फ्लोर कैपिटल कोर्ट, मुनिरका न्यू दिल्ली-110067	01/10/2004	355.	098636 श्री चंद्रगुप्त अंकुश एसीए सिटी बैंक एन.ए., ग्राउंड फ्लोर, लुथियाना स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग फिरोज गांधी मार्केट, लुथियाना-141001	18/10/2004
346.	098163 श्री गणेश इंदर एसीए 1-2 नव भारत अपार्टमेंट अपार्टमेंट बी-1 मार्केट पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली-110063	01/10/2004	356.	098638 श्री द्वार राजीव एसीए 97-ए ओल्ड गुता कार्लोनी अपे. कल्याण विहार बी-110009	01/10/2004
347.	098218 श्री मारवाह हिमिन्दर सिंह एसीए 305/11 फर्स्ट फ्लोर कुन मंडी, फादर गंज न्यू दिल्ली-110055	01/10/2004	357.	098661 श्री गुप्त अगिषेक मोहन एसीए V-9/8, फर्स्ट फ्लोर, डीएल सिटी फेज-III, गुड्डा-122002	01/10/2004
348.	098258 श्री सम्राट राजेश एसीए 5/1 अशोक चैम्स बी-5, पून रोड न्यू दिल्ली-110005	01/10/2004	358.	098678 मिस कुमार दीप्ति एसीए 117ए, सेंट्रल एवेन्यू सैनिक फार्म, न्यू दिल्ली-110062	01/10/2004
349.	098292 श्री चन्दर प्रकाश एसीए डबल्यू-991, रानी का सकूर बस्ती, दिल्ली-110034	01/10/2004	359.	098740 श्री आनंद सुनीता एसीए मैनेजर, फ्रीक्स डेवलपर्स जेसवन्त सेक्टर, 70, नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली-110019	01/10/2004
350.	098369 श्री मितल जितेन्द्र एसीए ई-222 सखी नगर, सराय रोडिल्ल, दिल्ली-110052	01/10/2004	360.	098776 श्री जयराम राजनीश कुमार एसीए 18बी, पोस्ट-ए एक्सप्रेस फ्लैट्स मनू विहार फेज-III, दिल्ली-110096	01/10/2004
351.	098420 श्री गुप्त महावीर प्रसाद एसीए 120/बी 4, रोहिणी सेक्टर 7 दिल्ली-110085	01/10/2004	361.	098802 श्री अरोड़ा विक्रम जीत सिंह एसीए जी-18, सेक्टर-9, हरि नगर जेल रोड, न्यू दिल्ली-110058	01/10/2004
352.	098433 श्री रानी मनीष कुमार एसीए 251, अरुणेश्वर अपार्टमेंट्स अपे. मन्नाथ मॉडर्न स्कूल एच-ब्लॉक, विजयपुरी न्यू दिल्ली-110018	01/10/2004	362.	098864 श्री रूंगटा अर्पिता एसीए 56-सी ब्लॉक-एन, जनता फ्लैट्स सक्करा, न्यू दिल्ली-110017	01/10/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
363.	098868	श्री सलनी नितीन एसीए 434, सैक्टर-29, नेहरू-201301	11/10/2004	374.	099279	श्री सुरेश कुमार एसीए 1280, सैक्टर 34-सी चंडीगढ़	01/10/2004
364.	098881	श्री गुता मनोज कुमार ए सीए उकल्यू-110, सैक्टर फ्लोर उपग्रह सउद्रेड, सऊथ एक्वेय सेहन रोड, गुडगाँव-122000	01/10/2004	375.	099315	श्री मुकेश कुमार एसीए फ्लॉट नं. 38, सैक्टर-05, कैथली, गब्रियल-201012	28/02/2005
365.	098909	मिस वर्मा मौता एसीए केयर ऑफ सुप्रीम अग्रवाल एंड कं. ए-58, आनंद विहार दिल्ली-110092	01/10/2004	376.	099339	श्री भूतनी पंकज एसीए 153-बी डीडीए फ्लेट्स (एलआईजी) राजौरी गार्डन एक्सटेंशन न्यू दिल्ली-110027	01/10/2004
366.	098915	श्री बम्बर सुनील एसीए 10-बी, हाईवे अपार्टमेंट्स II फ्लोर, गजीपुर दिल्ली-110095	01/10/2004	377.	099373	मिस गेयल मनीष एसीए ए/75 नियर ओल्ड एच.एस.ई.बी. ऑफिस छकल बरनेरी, बल्लभगढ़ डीटी. फरीदाबाद बल्लभगढ़-121004	01/10/2004
367.	098920	श्री गुता विनयक एसीए सी 5/1129, मिलन विहार अपार्ट्स फ्लॉट नं. 72, आई पी एक्स. फटपरगंज, दिल्ली-110092	01/10/2004	378.	099392	श्री सचदेवा पौरव एसीए आर-186, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 न्यू दिल्ली-110048	01/10/2004
368.	098983	श्री गुलाबनी अनुराग एसीए श्रीमती 15, भालावा कालोनी पटियाला-147001	01/10/2004	379.	099511	श्री अश्विनी कुमार एसीए एफसीए नं. 2262 ए, बी ब्लॉक गली नं. 11, संजय गांधी मैमोरियल नगर, फरीदाबाद	01/10/2004
369.	099133	श्री गुता नीरज एसीए हाउस नं. 1996, I फ्लोर सैक्टर-16, फरीदाबाद	01/10/2004	380.	099726	श्री तयारी हर्ष वर्धन एसीए के पी एम जी, पीओ बक्स नं. 493 जीटी सैचरी चार्ज, ग्रेन्ड सेमिन सेमिन अडॉलेक्स	17/11/2004
370.	099154	श्री पटनी निरेश एसीए ई 33, एमआईजी फ्लेट्स मन्दा पुरी, न्यू दिल्ली-110064	01/10/2004	381.	099816	श्री गेयल अजुल एसीए ई-5, सिविली रोड, अदरत नगर एक्स., नियर सिविली रोड, दिल्ली-110033	01/10/2004
371.	099159	श्री जैन सौरभ एसीए 2289, गली पसड़वाली परम पुरा, दिल्ली-110006	01/10/2004	382.	099855	श्री मिलन नितीन एसीए 6805, न्यू जगत नगर, स्ट्रीट नं. 8 खान रोड, रुपिगढ़	01/10/2004
372.	099210	श्री राजकुमार ज्योति एसीए बी 89, सैक्टर 39 नेहरू-201303	01/10/2004	383.	099926	श्री सुंदर अशिता एसीए 801/बी लुन्वा स्ट्रीट सिपिली लार्ड्स, रुपिगढ़	01/03/2005
373.	099266	श्री एस सुभाष्यन एसीए 162, पोस्ट-बी, मधु विहार फेज-2 दिल्ली-110091	01/10/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
384.	099929	श्री अजय कुमार एसीए 16/20, करोल बग, मेन अजमल खौ रोड, न्यू दिल्ली-110005	11/10/2004	393.	402558	मिस टंडन स्वाति एसीए केंसर ऑफ प्रोक्सी बॉटर हाऊस पी-1, अदित्य विहार अपो. डी ब्लॉक, सबेरा सबुल्लुजब, मेहरौली बरपुर रोड न्यू दिल्ली-110080	01/10/2004
385.	099945	मिस जैन फलची एसीए देवरज हाऊस, ए-1, बरी पार्क, नियर मोती महल सिनेमा जयपुर-302016	01/10/2004	394.	500027	श्री अमराल प्रवीण एसीए 259, अमराल प्रवीण सेंटर एलएससी, सी डी ब्लॉक पीतमपुरा, दिल्ली-110088	01/10/2004
386.	099963	श्री वकाल महेस शर्मा एसीए जी पी ओ बक्स नं. 13813 कलकत्ता नेशनल	01/10/2004	395.	500029	श्री सेगनी दीपक एसीए केंसर ऑफ महेस कुमार अमराल एंड एसोसिएट्स 38/2079, II फ्लोर, नई बंगला करोल बग, न्यू दिल्ली-110005	01/10/2004
387.	206344	श्री ठक्कर प्रकाश हरजीवनदास एसीए 14/2, I फ्लोर, बिटवीन 4 एंड 6 मेन 17 फ्रॉन्ट, मल्लेश्वरम बंगलौर-560055	23/12/2004	396.	500033	श्री पुरी अनुज एसीए असिस्ट. मैनेजर ऑडिट एजी, आईटीसी लिमिटेड आईटीसी सेंटर, 4 रस्ता स्ट्रीट कोलकाता-700071	01/10/2004
388.	206374	श्री बेरीय मनेज कुमार एसीए केंसर ऑफ अमिता मिश्र कलकत्ता विन्डो, 75, डिफेंस कॉलेज मल्लेश्वरम नगर, न्यू दिल्ली-110017	01/10/2004	397.	500076	मिस हेरा सिखा एसीए इंटरनेट बैंक, डीबी हाऊस एम. सेगनी मार्ग फ्लैट, मुम्बई	01/10/2004
389.	206638	श्री सुखराग श्रीनिवास एसीए एच नं. 32-2-10/5बी, जी-3, ए बी टॉवर्स जम्पेड सेंटर, मौरावाजपुरम विजयवाड़ा-520010	01/10/2004	398.	500211	श्री खान नसिर इकबाल एसीए 232/5, मयमर मील जम्पेड नगर, न्यू दिल्ली-110025	01/10/2004
390.	211421	श्री सेगिल कुमार डी एसीए पी-152, 8 मेन, 12 सेंटर एलआईसी बिल्डिंग, जीवन बीम नगर, बंगलौर-560075	01/10/2004	399.	500229	श्री बंसल विवेक एसीए बी-43, कलकत्ता स्टेट-4 डीएलएफ सिटी-5 गुड्डैन-122002	22/09/2004
391.	213628	श्री गणेश मल बेरा एसीए 4679/3, अंतरी रोड II फ्लोर, 21ए, परिया गंग न्यू दिल्ली-110002	01/10/2004	400.	500253	श्री अरोड़ा अजय एसीए हाऊस नं. 86, सेंटर 5 मिथुन नगर जम्मू तबी-180005	01/10/2004
392.	400148	श्री श्री निखिल सोनी एसीए 371, प्रकाश मार्ग निखिली कॉलोनी, दिल्ली-110009	01/10/2004	401.	500264	श्री मेहरा मनु एसीए 4083, दुर्गापुर, हरदोवा नगर रुपिबन-141001	01/10/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
402.	500317	मिस अग्रवाल नेहा एसीए 55-सी, पोस्ट-सी सिद्धार्थ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली-110014	01/10/2004	412.	500788	मिस शशी बाला एसीए 2, टी सी जैन कॉम्प्लेक्स 1 पल्लो, दरिया गंज, नेताजी सुभाष मार्ग, न्यू दिल्ली-110002	01/10/2004
403.	500347	श्री जेनेजा समीर एसीए डी 90 सैक्टर 18 गुडगांव	01/10/2004	413.	500926	मिस हरिहरण सुधा एसीए सैक्टर-डी, पोस्ट 2 हाऊस नं. 2245, वसंत कुंज न्यू दिल्ली-110070	01/10/2004
404.	500350	श्री जाकीरजा सुनील एसीए गड्डावर, मध्यपुर थिमी म्यूनिसिपैलिटी 15, भक्तपुर, नेपाल	01/10/2004	414.	500933	श्री मदान मनोज एसीए 396, भोला नाथ नगर अपे गीत भवन, शहरदा दिल्ली-110032	01/10/2004
405.	500464	श्री सिंगला अजय कुमार एसीए 121 आनंद नगर ए एक्स. नियर सिंग डेन, पब्लिक स्कूल फटियल-147003	01/10/2004	415.	500980	श्री कक्कड़ अनिल एसीए चार्टर्ड एकाउंटेंट, राखली रोड बरवाला, पंचकुला डिट., पंचकुला-134118	01/10/2004
406.	500542	मिस सक्सेना सेनाली एसीए केयर ऑफ इन्फेन्स टैकनॉलॉजी वैन्सर्स प्रा. लि. 415, उद्योग विहार फेज-III, गुडगांव	04/10/2004	416.	501110	श्री पी वी एम श्रीधर एसीए एक्सवार्ड-25 सरोगिनीनगर न्यू दिल्ली-110022	01/10/2004
407.	500558	श्री बत्रा अमित एसीए फ्लैट नं. 45, ए.5 बी एसएफएस फ्लैट्स परिव्रम विहार, न्यू दिल्ली-110063	01/10/2004	417.	501128	श्री चिंदल सुनील एसीए नं. 3818, सैक्टर-32 डी चंडीगढ़-160047	01/10/2004
408.	500571	श्री जैन असीम एसीए जी/डी-158, फौजपुरा दिल्ली-110088	01/10/2004	418.	501181	श्री टक्कर सुनील एसीए बी-37, बंदर प्रिन्स सेक्टर अम्बेकर रोड, बंदर (उत्तर) मुम्बई-400050	30/11/2004
409.	500613	श्री गुप्ता संजय एसीए 2010/27, एकेन नगर जगत कालोनी, रोहतक	01/10/2004	419.	501194	श्री बंसल रवि एसीए असिस्टेंट मैनेजर जीई कोर्टल इंटरनेशनल सर्विसिज जी टॉक्स सैक्टर रोड, सैक्टर-53, गुडगांव	01/10/2004
410.	500623	मिस पंडे गीता एसीए केयर ऑफ नेक्ला एलब बेंक बैंक सुरविजन डिपार्टमेंट सैन्ट्रल ऑफिस, बलुआबाद, कठमांडू, नेपाल	01/10/2004	420.	501275	श्री गोविन्द सविन एसीए एच. नं. 459, झील कुलेवा दिल्ली-110051	01/10/2004
411.	500699	श्री जैन सुनील एसीए फ्लैट नं. 96, प्रताप नगर, जेल रोड, न्यू दिल्ली-110064	01/10/2004	421.	501426	श्री अरोड़ा रोहित एसीए बी-198, कैट पटेल नगर न्यू दिल्ली-110088	01/10/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
422.	501645	मिस गुन्ता बबीता एसीए बी-9/117, सेक्टर 3 रेडिपी, दिल्ली-110085	01/10/2004	431.	502134	श्री अश्वलल रितेश एसीए डी-173, 2 फ्लोर सबेरा, न्यू दिल्ली-110017	01/10/2004
423.	501655	मिस क्वात्रा मीनाक्षी एसीए फ्लैट नं. एस-2, फ्लैट नं. सी-4 इकॉन अपार्ट्स, रामप्रसाद कालोनी चन्दर नगर पी. ओ. गवियम्बद-201011	01/10/2004	432.	502168	श्री संजय कुमार एसीए ए-75, चावला कालोनी फरीदबाद, बल्लभपुरा 7121004	01/10/2004
424.	501764	श्री गोपाल अनीष एसीए वर्क-22, हॉम खास न्यू दिल्ली-110016	01/10/2004	433.	502177	श्री नायक गंगा धर एसीए केयर ऑफ डब. राम प्रकाश बिष्टी 9 सी भंगार महल्ला मदनपुर खदर, नियर सरीता विहार न्यू दिल्ली-110044	01/10/2004
425.	501789	मिस अनुराधा बी एस एसीए 4-513, स्टेस अपार्ट्स, गोदवरी ब्लॉक नैशनल गेम्स किलेज कोरुमंगला, बंगलूर-560047	01/10/2004	434.	502183	मिस जैन प्रेरणा एसीए डी 962, न्यू प्रेन्स कालोनी न्यू दिल्ली-110065	01/10/2004
426.	501863	श्री राज कुमार एसीए जीएफ-100, सुभाष व्यापार कोम्प्लेक्स सुभाष लोके-1, गुडगांव	01/10/2004	435.	502191	श्री वर्मा जयशंकर एसीए एबीबी रोड, 32, इंडस्ट्रियल एरिया एन.आई.टी फरीदबाद-121001	01/10/2004
427.	501875	श्री मिरला अश्विनी एसीए जलन सेमिनार पुरिड तेमल XVI हाऊस नं. 3, जलसरटा-10520 इंडोरेसिया	01/10/2004	436.	502210	श्री सहज रणवीर एसीए 43 दीपनी अपार्टमेंट्स रोड नं. 44, पीतम्पुरा दिल्ली-110084	01/10/2004
428.	502027	मिस अरोड़ा रिवु एसीए एस. आर. कटलीयर एन्ड कं. एफ 1, फर्स्ट फ्लोर द मेट्रो फोल्स नियर ब्रोक्स कॉम्प्लेक्स बंद गार्डन, पूने-411001	01/10/2004	437.	502328	श्री प्रदीप प्रवीण बी 40, बी. के.एस. कालोनी बनारस, न्यू दिल्ली-110003	01/10/2004
429.	502066	मिस मनीषा लजु एसीए 2044/6, चूना मंडी फाउंटेन, न्यू दिल्ली-110053	01/10/2004	438.	502397	श्री वीरभान एसीए हॉम नं. 22, न्यू ग्रेन मार्केट एलम्बाम्बद सिरस	01/10/2004
430.	502084	मिस दत्त जय एसीए सिटी बैंक एन.ए. 1 फ्लोर, रामनेरड हाऊस डब. ए. बी. रोड, वर्क मुम्बई-400018	01/10/2004	439.	502419	श्री पंकज कुमार एसीए 730वीं प्रॉड फ्लोर 4 मेन, के. आर. गार्डन मुम्बई, बंगलूर-560017	01/10/2004
				440.	502424	श्री नरेन्द्र निरिन एसीए जी-1405, विजयनगर पार्क सेक्टर फ्लोर, न्यू दिल्ली-110019	01/10/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
441.	502431	श्री दंग मयंक एसीए 307, सत्या मैसन ए-1 ए-2 रंजीत नगर, न्यू दिल्ली-110008	01/10/2004	450.	503016	मिस भगत सविता एसीए 230, भाई परमानंद कालोनी दिल्ली-110009	01/10/2004
442.	502509	श्री विरेन्द्र सिंह एसीए एफ 64, स्ट्रीट नं. 7, मंगला बाजार रोड, लक्ष्मी नगर रोड, दिल्ली-110092	01/10/2004	451.	503067	श्री गुरभीत सिंह एसीए ए/बी, 186ए, मखिम विहार न्यू दिल्ली-110063	01/10/2004
443.	502579	श्री तिवारी आशीष कुमार एसीए 683, सरस्वती विहार गुड्राव-122001	01/10/2004	452.	503131	मिस बिष्ट यशोद कृन्दन सिंह एसीए केयर ऑफ कोल, बी.एस. एलमिया 707, हाईट्स, सऊथ सिटी-1 गुड्राव-122001	01/10/2004
444.	502610	मिस स्मृति एसीए फ्लैट नं. 77, ब्लॉक बीजी-1 पश्चिम विहार न्यू दिल्ली-110063	01/10/2004	453.	503182	श्रीसरीन गौरव 4/66 डबल्यू ई ए सरस्वती मार्ग, करोल बाग न्यू दिल्ली-110005	01/10/2004
445.	502690	श्री अमित कुमार एसीए 860 पोकेट 3, द्वारका, सेक्टर 19, न्यू दिल्ली-110075	01/10/2004	454.	503221	श्री रस्तोगी विशाल एसीए 205/1, श्री राम नगर, सह्याद्र, दिल्ली-110032	01/10/2004
446.	502793	श्री मेहत आदित्या एसीए एस-247, ग्रेटर कैलाश फ्लैट-2 न्यू दिल्ली-110048	01/10/2004	455.	503253	मिस नैयर अर्पिता एसीए ए-49, फ्लैट फ्लोर हैट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली-110065	01/10/2004
447.	502846	श्री श्रेया रावेश्याम एसीए सुपरवेक्टर नेपाल राष्ट्र बैंक बलुसतार, काठमांडू, नेपाल	01/10/2004	456.	503258	श्री वैद दीपक एसीए हाऊस नं. 42, पवन अन्वलेव नियर विवेक विहार, अप्पे. सेप फैक्ट्री फ्लोरी जे एन्ड को जम्मू तबी-180001	01/10/2004
448.	502911	श्री जैन अमित एसीए 81, सूर्य निक्केल (फ्लैट फ्लोर) दिल्ली-110092	01/10/2004	457.	503285	श्री विक्रम सिंह एसीए एच नं. 895, अरबन स्टेट फेज-II, नियर एम जी एस स्कूल जलालपुर	01/10/2004
449.	502983	श्री भरत राकेश एसीए 459 सेक्टर-10, फरीदाबाद	01/10/2004	458.	503307	मिस कपूर सारिनी एसीए 92-एफ, राजपुरी कालोनी पटियाला	01/10/2004

डा. अशोक हल्दिया
सचिव

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3एनसीए(5)/1/2004-2005 : इस इंस्टीट्यूट की अधिसूचना नं. तिथि 3एनसीए(4)/1/1999-2000 तिथि 1 मार्च, 2000 3एनसीए(4)/1/2001-2002 तिथि 21 नवम्बर, 2001, 3एनसीए(4)/1/2002-2003 तिथि 3 दिसम्बर, 2002 और 3एनसीए(4)/1/2003-2004 तिथि 4 फरवरी, 2005 यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम 20 के नियम 1988 के अंतर्गत निर्धारित पॉवर नियम 19 के द्वारा यह इंस्टीट्यूट निम्नलिखित सदस्यों के नाम रजिस्टर में नाम के समक्ष दी हुई तिथि से वापस लेता है ।

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
1.	007091	श्री मिश्रल जगदीश प्रसाद एफसीए 288 सी ए अपार्टमेंट्स पश्चिम ब्रिहार न्यू दिल्ली-110063	22/09/2004	7.	013354	श्री सरावगी बर्म चंद एसीए फ्लैट ऑफ उडयन जैन एण्ड एसोसिएट्स 540, डी ब्लॉक, 5 फ्लोर क्लोवर सेंटर मोलेखेना रोड फ़ोन-411001	16/08/2004
2.	008312	श्री मेहरा विज भोहन एफसीए 371 ईस्ट सोरे रोड क्रिंम पाइंट न्यू यार्क 11024, यू एस ए	03/08/2004	8.	013988	श्री गुलाशन कुमार एफसीए 61-एच, गोविंद मैसन, कनॉट सर्कस न्यू दिल्ली-110001	04/03/2004
3.	009806	श्री वर्मा वेद प्रकाश एफसीए 5, गणपति भवन 4675/21, अन्सारी रोड दरिय गंज, न्यू दिल्ली-110002	22/12/2003	9.	014916	श्री मिश्रल विजयेन्द्र नारायण एफसीए ग्रुप कन्ट्रोलर अलबानिम इंडस्ट्रियज पी ओ बॉक्स 223 सफा 13003, कूचैत	24/08/2004
4.	010129	श्री सेंशन कावका सिंह एफसीए 88 सैक्टर 21ए चंडीगढ़	23/03/2004	10.	015947	श्री सक्सेना सतीश कुमार एसीए यूपी राज्य विद्युत उद्योग निगम लि 8 फ्लोर रश्मि भवन एक्स. अशोक मार्ग, लाइन 226001	22/06/2004
5.	011360	श्री विश्वनाथ समीर एसीए 36/7, सीटीडीकल्चरी बवर्टर्स मेसो नगर कैनाई 600090	28/09/2004	11.	016595	श्री कपूर ओम कुमार एफसीए पी ओ बॉक्स 34967 लुडका, जामिया	03/09/2004
6.	012626	श्री कपूर सुधा चंद एफसीए 112, रश्मि अपार्टमेंट मिहसंड लक्ष्मी बार्ड कॉलेज अशोक विहार, दिल्ली-1100052	14/09/2004	12.	016760	श्री सुनील कुमार एफसीए 3111, सैक्टर-23 गुड्राव-122017	22/12/2003

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
13.	017102 श्री सिंह अमरजीत एफसीए 14/69 डबल्यू ई ए कारेल बाग न्यू दिल्ली-110005	14/06/2004	22.	053955 श्री जसबिंदर सिंह एसोए केयर ऑफ अमनदोष कौर भन एच नं. 3763, कुंदन नगर मॉडल टाउन, लुधियाना	08/09/2004
14.	017223 श्री कपूर राम चन्द्र एफसीए के-125, कीर्ति नगर न्यू दिल्ली-110015	01/04/2004	23.	054982 श्री वीरगन कों आर एसोए हैड-क्विनेस फार्मिस कन्ट्रोलर टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स से. 20 फ्रीट रोड, नंदमवकम चेन्नई-600089	22/12/2004
15.	019062 श्री स्याम सुंदर एस एसोए नं. 1, अलमेल अन्वलेख, फ्लैट नं. 6 सी. पी. रामास्वामी स्ट्रीट अभिरामपुरम, चेन्नई-600018	19/05/2004	24.	058019 श्री दुग्गर मनीष एसोए केयर ऑफ विप्रो स्पेसटूमाइंड 239, ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट फेज-3 न्यू दिल्ली-110020	30/04/2004
16.	022982 श्री सुरेश आर एसोए मेल स्टॉप एसएम 41 स्कूल ऑफ एमजीटी., यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डल्लास 2601, नॉर्थ फ्लाइट रोड बॉक्स 830688, रिचर्ड्सन टेक्सास 75083, यूएसए	22/12/2003	25.	060167 श्री चितलागिया सचिन एसोए कल्ले कैलगाँव डे नं. 424 सैटाक्यूज बेरीविय-साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका	22/04/2004
17.	026585 श्री श्रीकांत अर एसोए डायरेक्टर-फार्मिस एंड अग्नि ब्रिटिश गैस इंडिया प्रा. लि. 3 फ्लोर, टॉवर बी फर्स्ट इंडिया प्लेस सुरांत लेक-1, मेरौली गुडबाय रोड गुडबाय 122002	19/08/2004	26.	072135 श्री अरोड़ा देवेन्द्र कुमार एसोए ई-801, पवित्र अपार्टमेंट्स फ्लैट-12, कंसुवरा अन्वलेख दिल्ली-110092	22/12/2004
18.	034100 श्री गुलाब रिवी कुमार एफसीए मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन इन्सुरेंस सर्विसेज लि. 1005, रोडिया हाउस 3, टॉलस्टॉर्ग मार्ग न्यू दिल्ली-110001	17/06/2004	27.	072434 श्री अरोड़ा अशोक कुमार एफसीए केयर ऑफ कबीर चंद मलिक डी-40, गली नं. 7, नियर गंभी पार्क न्यू गान्धेपुरा दिल्ली-110051	22/12/2004
19.	050100 श्री गौतम हनुम चौधरी एसोए 5/1-बी, देशपिया पार्क (ईस्ट) कोलकाता-700029	20/08/2004	28.	072868 श्री अश्वला फंक्ज एफसीए बी 28, फेनेट बी मयूर विहार 2 दिल्ली-110091	22/12/2004
20.	050905 श्री कैलाश प्रसन्नजीत एसोए एम-174, सलीमन बाग दिल्ली-110088	30/04/2004	29.	072878 श्री भाय यज्ञ राज एसोए फोस्ट बॉक्स 5637 काठमांडू 0 नेपाल	22/12/2004
21.	052073 श्री सिंह मोहनवीर एफसीए 1334, सैक्टर 33-सी चंडीगढ़	06/07/2004	30.	073615 श्री रामकिशोर महेस्वरी एफसीए हेड सदन, फार्मागली, पल्ली बजार, बीआर-305901	24/08/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
31.	074606	श्री अर्जुन प्रसद एफसीए ई-56, सरिता विहार न्यू दिल्ली-110044	22/12/2003	41.	080054	श्री कपूर रंजन एसीए 294, सैक्टर 10ए, चंडीगढ़-160010	22/12/2003
32.	074710	श्री शेखर कंचन एसीए यू 24/6, जी. एफ. पिंक टाउन हाऊस डेल्फा-III, गुड्राव	15/04/2004	42.	080224	श्री चोपड़ा गिरीश चन्द्रा एसीए बी/3बी, 35सी जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058	01/04/2004
33.	075147	श्री जैन पंकज कुमार एफसीए पी. ओ. 5972 दुबई, यू. ए. ई.	10/09/2004	43.	080369	श्री सेठ प्रदीप एफसीए सी-13, मानसरोवर गार्डन न्यू दिल्ली-110015	22/12/2003
34.	075183	श्री किशोरी एस नंदलाल प्रितमदास एफसीए 202/सी-15, आचार्य निवेदन मयूर विहार फेज-I, दिल्ली-110091	08/04/2004	44.	080611	श्री राकेश एसीए ए-41, न्यू सैंडिया अपार्टमेंट फ्लैट नं. 6, सैक्टर-9 रोहिणी, दिल्ली-110085	01/04/2004
35.	075282	श्री गोपाल विवेक कुमार एसीए डी-279, ग्रैंड फ्लोर सुरक्षा लोक-II सैक्टर-56, गुड्राव-122002	27/05/2004	45.	080685	श्री लाल हृदय मोहन एसीए एस.सी.ओ. 7 IIएनएफ फ्लोर, सैक्टर-17सी चंडीगढ़	07/04/2004
36.	076581	श्री टंडन पंकज एसीए 1282, सैक्टर 31 (हरियाणा) गुड्राव	22/12/2003	46.	080989	श्री जैन अनिल कुमार एफसीए 212, गौतम नगर न्यू दिल्ली-110049	22/12/2003
37.	078549	मिस अम्बाला नुर एसीए 115 सिद्धार्थ अक्वलेम, न्यू दिल्ली-110014	22/12/2003	47.	081143	श्री कलानी रमेश कुमार एफसीए हाऊस नं. 772 सैक्टर 2, पंचकुला	22/12/2003
38.	078681	श्री के. स्वामीनथन एसीए 99, कैलाश अपार्टमेंट्स फ्लैट नं. 45 आई. पी. एक्सटेंशन दिल्ली-110092	13/04/2004	48.	081318	श्री रमेश अनूप एफसीए फ्लैट नं. डी-III, गंगा अपार्टमेंट्स, 2 फ्लोर सी-37 सऊन एक्स. फ्लैट-I न्यू दिल्ली-110049	27/05/2004
39.	079241	मिस मल्होत्रा प्रीति एसीए एम-62, प्रेम नगर उत्तम नगर, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058	19/05/2004	49.	081338	श्री पवन कुमार एफसीए अपार्टमेंट यूनिटीड पोलिस एन्स प्र. लि. 208, एस्टेल हाऊस 10, अक्षय अली रोड न्यू दिल्ली-110002	22/12/2003
40.	079938	मिस सक्ती अनुरा एसीए फ्लैट नं. 850 पोट नगर-13, परिवर्तन विहार, न्यू दिल्ली-110063	22/12/2003	50.	081383	श्री अम्बरदर अरुण के एसीए 101, हिमालय एक्वेड लॉ कॉलोनी स्वयंसेवक अमरवती रोड, नंगर-440010	28/05/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
51.	081393	श्री मेहता सतीश चंद एफसीए एम्बेसी ऑफ इंडिया 140, हयवर्कन स्ट्रीट तेल अवीव, इसराएल	14/07/2004	60.	082682	श्री गोयल सुनील कुमार एफसीए 128ए, एसएफएस डेडीए फ्लैट्स गुजराबी बाग दिल्ली-110007	19/05/2004
52.	081417	श्री सिंह बलजीत एफसीए फ्लैट नं. 10 एस-561 ग्रेटर कैलाश फार्ट-II न्यू दिल्ली-110048	16/07/2004	61.	083126	श्री प्रोवर राम प्रकाश एफसीए ए-38 न्यू प्रोन्ट्स कालोनी न्यू दिल्ली-110065	22/12/2003
53.	081581	श्री मल्होत्रा मनमोहन एफसीए जी-23, फ्लैट नं. 149 सेक्टर-7, रोहिणी दिल्ली-110085	22/12/2003	62.	083155	श्री टंडन लव कुमार एफसीए 7-ए मेडीकल अनाक्लेव अमृतसर-143006	13/04/2004
54.	081620	श्री अशोक कुमार एफसीए 27 एडजस्टेड टू रीजन्स पब्लिक स्कूल सुंदर नगर रुपिगन-141001	22/12/2003	63.	083231	श्री अग्रवाल अवनीश कुमार एफसीए सी-451, मल्होत्रा हाउस अर्जुन नगर, अपो. डिफेंस कालोनी न्यू दिल्ली-110003	22/12/2003
55.	081764	श्री वापर राजीव एफसीए राजीव वापर एड कॉ. जे-33, एन डी एस ई-1 न्यू दिल्ली-110049	22/12/2003	64.	083270	श्री जैन अनिल कुमार एफसीए 145-सी, रिची नगर रुपिगन 0	29/03/2004
56.	081869	श्री जैन विपिन कुमार एफसीए बी-4/79, अशोक विहार फेज-2 दिल्ली-110052	25/08/2004	65.	083383	श्री बहा गुरराज दास एफसीए बी-72, 1 फ्लैट विश्वकर्मा कालोनी मेहरोली बरपुर रोड नियर लाल कौन न्यू दिल्ली-110044	02/07/2004
57.	082031	श्री अग्रवाल सुभाष सी एफसीए बी-14/2 हिमाली अपार्टमेंट्स सेक्टर-34, नेहरू	05/04/2004	66.	083430	श्री गोयल राम बबू एफसीए बी-167 लोक विहार प्रीतापुरा, दिल्ली-110034	25/05/2004
58.	082277	श्री ज्योतिष नारायण सिंह एफसीए एनजीएक्टिव कार्पोरेट इंड ऑफ बिजिनेस एनजीएक्टिव ईस्टार् एनएन एसरो बैंक, गुडन मारलान 10 अमरगढ़ 0, मेहरौला	16/04/2004	67.	083477	श्री गोयल कुमुद एफसीए मेनिंग कार्पोरेट फेडरल सिस्टेल लि., यूनिट 3-6, जी फ्लैट, टॉवर ए, यूनिटेक बिजिनेस पार्क एफ बॉक, सऊथ सिटी 1, सेक्टर 41 गुडन-122002	22/12/2003
59.	082550	श्री मेहरा राजेश एफसीए 39-द गैंग बिलांड ओडीमन होटल फेज अमृतसर-143001	22/12/2003	68.	083572	श्री कुलकर्णी कुमार एफसीए बी-18, मंडला टाउन रोड नियर इन्फैन्ट्स ऑफिस अपो. प्रकाश कला लेन जलाल-144001	22/12/2003

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
59.	083650 श्री अग्रवाल नरेश चंद एफसीए डी-8 गली नं. 8, ज्योति कालोनी सहदय, दिल्ली-110032	30/04/2004	79.	084538 श्री अरोड़ा गुरशरण सिंह एफसीए 38/2079, नाईयाला करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005	16/06/2004
70.	083696 श्री विजया कुमार एफसीए 40, विधी अपार्टमेंट फ्लॉट नं. 116, पटपरांज आई. पी. एक्सटेंशन दिल्ली-110092	17/05/2004	80.	084665 श्री मनोच सजीव एफसीए बी-1/16 मियावली नगर न्यू दिल्ली-110087	16/08/2004
71.	083823 श्री ईश्वर चंद एफसीए सी-4/24, राजस्थानी अपार्ट्स पीताम्पुर, दिल्ली-110034	22/12/2003	81.	084702 श्री विनोद कुमार एफसीए रिलाएंस टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज लि. फ्लॉट 6, ब्लॉक ए ओजीबीए इंडस्ट्रियल स्टेट इकेज, पी. ओ. बाक्स 6778, मरीना, लगोस, नाइजीरिया	02/04/2004
72.	084026 श्री भुल्लर गुरजीत सिंह एसीए फ्लैट नं. 206, ब्लॉक 40 हेरीटेज सिटी मेहरोली गुड्राव रोड गुड्राव-122002	16/08/2004	82.	084785 श्री खन्ना राकेश एफसीए एम-115-ए ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, न्यू दिल्ली-110048	22/12/2003
73.	084132 श्री ककारिया असोक कुमार एफसीए 2/34, रूप नगर दिल्ली-110007	03/08/2004	83.	084918 श्री कोहली राजन एफसीए 2705 बेसमेंट बैंक स्ट्रीट करोल बाग न्यू दिल्ली-110005	22/12/2003
74.	084181 श्री टोडर मल एफसीए एस सी ओ नं. 38, 1 फ्लोर सेक्टर 41, चंडीगढ़-160036	14/05/2004	84.	085243 श्री शर्मा मधु दीप एफसीए 403, मनचहत अपार्ट्स सेक्टर 10/42, द्वारका न्यू दिल्ली-110075	05/07/2004
75.	084202 श्री स्वरूप अशोक एफसीए 144, संत नगर ईस्ट अड्डा कैलाश न्यू दिल्ली-110065	29/03/2004	85.	085441 श्री गुप्ता राजेश एफसीए फ्लैट नं. 1, एस एफ अपार्टमेंट्स डी-842, अमित भारद्वाज मार्ग महाविषा नगर राजस्थान, जयपुर-302017	22/12/2003
76.	084457 श्री शर्मा राजन कुमार एसीए ई-94, फर्स्ट फ्लोर लक्ष्मी नगर-II न्यू दिल्ली-110024	01/04/2004	86.	085729 श्री मैनी दिनेश एफसीए डी मैनी एन्ड एसोसिएट्स डी-24 प्रउंड फ्लोर गुलमोहर पार्क, न्यू दिल्ली-110049	22/12/2003
77.	084485 श्री शर्मा सत्यवन एफसीए 7940, रिसोल्व बीएनबीडी # 208 रिसोल्व, कोलंबो रोड-91335, यूएसए	01/04/2004	87.	085957 श्री शरणव संजय एफसीए डी-7/7052, कस्तूर कुंज न्यू दिल्ली-110070	22/12/2003
78.	084508 श्री चंडीओक राजीव कुमार एसीए पॉवर फार्मिस कोरप. लि. 36, चन्द्र लोक बिल्डिंग, जनपथ, न्यू दिल्ली-110001	22/12/2003			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
88.	086083	श्री सोनी मनोज एफसीए 370, फ़र्स्ट फ्लोर सुस नगर मार्किट जलन्धर	02/06/2004	97.	086810	श्री सिंगल संजीव एफसीए जनरल मैनेजर मैनेजमेंट एस्थोरीस सर्विसिज बेनेट कोलमन एन्ड कं. लि. हिराल्ड हाउस, 5-ए, बी एस जेड मार्ग न्यू दिल्ली-110002	22/12/2003
89.	086113	श्री चक्रवर्ती राजेश्वर नारायण एफसीए फ्लैट # 275 एबीनयन प्लॉट # 19 सैक्टर 4 द्वारका, न्यू दिल्ली-1100075	01/06/2004	98.	086855	श्री बन्ना मुकेश एफसीए मुकेश बन्ना एन्ड एसोसिएट्स बी-243 कैप्ट पटेल नगर न्यू दिल्ली-110008	22/12/2003
90.	086125	श्री अश्विनी कुमार एफसीए 21, पारसी मोहल्ला अयो. पंजाब स्पोर्ट्स चौकी मेन रोड, इंदौर	01/04/2004	99.	086872	श्री सुरेश कुमार एफसीए सुरेश के मित्रल एन्ड एसोसिएट्स 734। प्रेम नगर गली नं. 1 सम्मी मंडी, दिल्ली-110007	22/12/2003
91.	086231	श्री खन्ना सुनील कुमार एफसीए सुनील खन्ना एसोसिएट्स 154ए, पॉकेट-ए, मयूर विहार फेज II दिल्ली-110091	22/12/2003	100.	086964	श्री शटिया अमरजीत सिंह एसीए जे-5/131, 2 फ्लोर राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली-110027	22/12/2003
92.	086378	श्री बंसल सुरेन्द्र कुमार एफसीए सैक्टर-1/77, फिरोज़ीन विहार गझियाबाद	18/08/2004	101.	087156	श्री रस्तोगी सुनील कुमार एसीए फ्लैट नं. 001, केसर हरीटेज फ्लैज नं. 258, सैक्टर-28 वस्ती, नवी मुम्बई-400703	22/12/2003
93.	086778	श्री गुप्ता राकेश कुमार एफसीए राकेश हंस राज गुप्ता एन्ड कं. 113, भायलबन्दी अपार्टमेंट्स फ्लैज नं. 24/3, सैक्टर IX, रोहिणी, दिल्ली-110085	22/12/2003	102.	087160	श्री सूद राजीव कुमार एफसीए 4 फिंग क्रॉस रोड, अपार्ट # 1201, कम्पटन ऑन कम्पटन एस्टेट 3XX कानपुर	22/12/2003
94.	086804	श्री मोहोदवी अनुष्म एसीए 174, नेहरू अपार्टमेंट अउटर रिंग रोड, वसन्तवती, न्यू दिल्ली-110019	07/06/2004	103.	087220	श्री बंसल हरीश चंद्र एसीए एच नं. 1429, सैक्टर 21 पंचकुला	23/08/2004
95.	086806	श्री सूद ब्रह्म प्रकाश एसीए बी प्रकाश एन्ड एसोसिएट्स 1/4, फर्स्ट फ्लोर कैप्ट पटेल नगर न्यू दिल्ली-110008	22/12/2003	104.	087241	श्री कलिगुप्ता सी एसीए जी-201 यमुना अपार्टमेंट्स अनन्तपुर, न्यू दिल्ली-110019	17/08/2004
96.	086809	श्री रानी रिपुलन एफसीए 271, ताराना टिग्लू जम्पूतबी-180002	23/03/2004	105.	087447	श्री गुप्तान कुमार एफसीए जी. गुप्त एन्ड एसोसिएट्स 311/1, लक्ष्मिका नगर अयो. लाल नर्सिंग होम, न्यू रोलेट रोड, गुडगाँव-123002	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
106.	087464	श्री संजीव कुमार एफसीए 4648/21, सेधु मल बिल्डिंग वरिया गंज, न्यू दिल्ली-110002	22/12/2003	116.	088299	श्री खुराना प्रीत पाल सिंह एफसीए ए-349, मीरा बाग आउटर रिंग रोड, पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली-110063	22/12/2003
107.	087543	श्री दस देवजीत एसीए जे-373, सरिता बिहार न्यू दिल्ली-110044	22/12/2003	117.	088319	श्री भाटिया संजीव एफसीए एन-22, बी साकेत न्यू दिल्ली-110017	22/04/2004
108.	087558	श्री बहल रजनीश एसीए डी-65, प्रीत बिहार दिल्ली-110092	22/12/2003	118.	088337	श्री मिश्र अशोक कुमार एफसीए एच नं. 1180 सेक्टर-55, हरियाणा, फरीदाबाद-121004	22/12/2003
109.	087656	श्री पवन कुमार एसीए एच. नं. 589, सैक्टर-14 फरीदाबाद-121007	07/04/2004	119.	088382	श्री गुप्ता भरत एफसीए 200-एल मॉडल टाउन रोहतक-124001	30/04/2004
110.	087668	श्री शर्मा अरुण कुमार एसीए सी-98, निर्माण बिहार दिल्ली-110092	22/12/2003	120.	088399	श्री सुमंथा सेन एसीए ए-9, बानगा को-ओप. हा. सोसायटी बी. के. देवशी मार्ग, दीओनार, मुम्बई-400088	13/09/2004
111.	087731	श्री चोपड़ा संजय एफसीए 69, एलआईजी फ्लैट्स राजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली-110027	22/12/2003	121.	088442	श्री वर्मा दिनेश कुमार एफसीए 21-सी, फ्लैट-सी, डीडीए एमआईजी फ्लैट्स सिवम अन्वलेष, दिल्ली-110032	02/07/2004
112.	087860	श्री जैन संदीप एफसीए ए-75, फ्लैट फ्लोर, संकर गार्डन विक्रमपुरी, न्यू दिल्ली-110018	24/08/2004	122.	088501	श्री मोरे हरि राम एफसीए सेमीटेक पेपेस एन्ड टेक्निकोम (पी) लि. एन-17, कन्स्ट फ्लोर न्यू दिल्ली-110001	12/05/2004
113.	087910	श्री कोवर दिलीप राय एफसीए दिलीप राय एन्ड कं. 23, अमर कालोनी मर्चेंट लाजरा नगर-IV, न्यू दिल्ली-110024	22/12/2003	123.	088509	श्री पवन कुमार एसीए 1304, मीनोबी टॉवर गेवला नगर फिल्म सिटी रोड गोरे गौव (स्टेट) मुम्बई-400063	20/04/2004
114.	087938	मिस मोरे अनुष्का एसीए एफ-2/16, अंसारी रोड, वरिया गंज, न्यू दिल्ली-110002	12/05/2004	124.	088516	श्री कपूर सुनील एसीए केयर ऑफ टाय दे मोरमिक्स एलडीए सीएआईएसए पोस्टल 758 मोफ्टो गिर्योन्ली रोड मेरठ-203001	18/05/2004
115.	088211	श्री अग्रवाल नवीन एफसीए 11/111, 2 फ्लोर सुभाष नगर न्यू दिल्ली-110027	22/12/2003				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
125.	088813	श्री तलवार विनय एफसीए ई-4, बल्लू नगर II फ्लोर, न्यू दिल्ली-110015	20/09/2004	134.	089301	श्री जैन संजय कुमार एसीए 9/6701 देव नगर न्यू दिल्ली-110005	06/04/2004
126.	088869	श्री चक्रवर्ती अनन्ध एसीए मर्सर हस्पिटल रिसेस कन्सल्टिंग प्राइवेट लि. 4ए, अदचौली, ग्रैंड फ्लोर कांतीमनी कॉम्प्लेक्स, श्री ओरेकिंगुमर्ग न्यू दिल्ली-110017	25/05/2004	135.	089437	श्री ओबेरॉय विक्रम कुमार एसीए बी-801, लागून अपार्टमेंट्स अम्बिसेस आईलैंड एनएच-8, गुडगाँव	26/03/2004
127.	088889	श्री नरेश कुमार एसीए डी. चीफ एक्जक्यूटिव ऑफिसर गुरु हरगोबिंद कर्नाल फ्लॉट लेहर मोड्युलर डि. भटीख (पंजाब) भटीख-151111	22/12/2003	136.	089451	श्री मुरली आर एसीए पी. ओ. बाक्स 2195 दुर्ग, यू. ई. ए.	20/05/2004
128.	089060	श्री दुर्गा नसीत एसीए बी-3/397, परिसर विश्व न्यू दिल्ली-110063	22/12/2003	137.	089547	श्री शर्मा विजय कुमार एसीए 65-ए कृष्णा कालोनी आई टी आई रोड यमुननगर-135001	22/12/2003
129.	089091	श्री स्याल संजय एसीए फ्लैट नं. 4, 2 फ्लोर 308, भावती सदन ब्लिंड टेलेफोन एक्सचेंज दिल्ली रोड, गुडगाँव-122001	22/12/2003	138.	089705	श्री जुनेजा नीरज एसीए ईसी-378, ग्रैंड फ्लोर एस.एफ.एस. फ्लैट्स, माया अनक्लेव न्यू दिल्ली-110064	22/12/2003
130.	089102	श्री स्नेही सुनील कुमार एफसीए एच-3/155 विकासपुरी, न्यू दिल्ली-1100018	25/06/2004	139.	089833	श्री खन्ना राजेश एफसीए 1/10492-ए सिव मंदिर मार्ग मोहन पार्क, नवीन सह्यद्र दिल्ली-110082	22/12/2003
131.	089106	श्री अग्रवाल संजय एसीए V-12/32, डीएलएफ फेज-III गुडगाँव-122002	22/12/2003	140.	089836	श्री मनोज कुमार एफसीए 92, गंधी गंज हनुम	09/06/2004
132.	089116	श्री जैन राजीव एफसीए 120, परिसर विश्व अम्बाला सिटी, अम्बाला-134003	06/05/2004	141.	089904	श्री शर्मा सुरेश एफसीए 1944-ए, एस. ओवेर्ड एसटी अम्बाला, अम्बाला हल्लीब्रस अर्ब-61801 यू. एस.ए.	19/08/2004
133.	089204	श्री विजय कुमार एफसीए दुर्गा प्रभु निवास स्ट्रीट नं. 11, सविता नगर जमुताबा-181001	07/07/2004	142.	090015	श्री गोपाल विनय कुमार एफसीए एस-46, सलीम नगर दिल्ली-110088	22/12/2003
				143.	090139	श्री अश्वय कुमार एफसीए अश्वय मल्लेश एन्ड एसोसिएट्स फेज-142 मैक्स अनक्लेव (फैताम पुरा), दिल्ली-110088	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
144.	090146	मिस गोयल नम्रता एसीए एफ-133 प्रशांत बिहार दिल्ली-110085	11/05/2004	153.	090831	मिस नंदा मधु एसीए 41, गोलफ लिंकस न्यू दिल्ली-110003	05/05/2004
145.	090370	श्री अग्रवाल राजीव एसीए केंयर ऑफ राजीव शर्मा एन्ड कं. 155/8, गली ओ. 2, बाबू राम गली मॉडल टाउन, नरवाना-126116	30/07/2004	154.	091060	श्री शर्मा सुधीर कुमार एफसीए 38, सैक्टर-16 फरीदकोट	19/07/2004
146.	090517	श्री अग्रवाल अभिषेक एफसीए फ्लैट नं. 15, दयदेवन रोड नेर्थ इंडस्ट्रियल एरिया पी. ओ. बॉक्स 9840 क्रिया एसीसीआरए, कना	14/05/2004	155.	091091	श्री रूपीन्द्र कुमार एफसीए हाउस नं. 2742, ग्रैंड फ्लोर एमआईजी (सुपर), सैक्टर-70 (पंजाब), मोहाली	22/12/2003
147.	090536	श्री गोयल संजय एसीए एफ-133, प्रशांत बिहार दिल्ली-110085	11/05/2004	156.	091187	श्री अग्रवाल ललित कुमार एफसीए फ्लैट नं. 38, यूसीओ अपार्टमेंट सैक्टर-9, रोहिणी दिल्ली-110085	22/12/2003
148.	090544	श्री जैन सशांक एसीए कन्सल्टेंट - सेम डिजीकन साईमन्स इनफर्मेसन सिस्टम्स लि. टॉवर-बी, फ्लैट-6ए, सैक्टर-18 हुड्डा एरिया, गुडगांव-122015	27/04/2004	157.	091217	श्री अनुराग एफसीए एच नं. -156, सैक्टर-4 फक्कल	02/08/2004
149.	090585	श्री मलिक विजयंत एसीए टॉवर सी-108, पूर्वा हार्बर्स बैनरगुहा मेन रोड, केलकवाहाली क्लोज केएल हुक्ली, बंगलौर-560076	12/05/2004	158.	091308	मिस महिन्दु सीमा एसीए महिन्दु एन्ड एसोसिएट्स एच. नं. 612, फेज 3बी-1 डिस्ट. रोपर, (पंजाब) मोहाली, एस ए एस नगर-160059	22/12/2003
150.	090590	श्री घुा आलोक एसीए केंयर ऑफ अर्नेस्ट एन्ड यंग पी. ओ. बॉक्स 74 सफत 13001, कुवैत	12/08/2004	159.	091347	श्री रविन्द्रनाथ एसीए 312, अभियान को-ओपर ग्रुप हा. सेक्टर-टी फ्लैट नं. 15, सैक्टर-12, हरक, न्यू दिल्ली-110075	07/06/2004
151.	090665	श्री चेल्बानी चंद्र प्रकाश एसीए 39/11, रमेश नगर, न्यू दिल्ली-110015	02/08/2004	160.	091355	श्री गुलाब मुकेश कुमार एफसीए 34-सी एमआईजी फ्लैट्स बी-ब्लॉक सिविक बिहार फेज-II, दिल्ली-110085	06/05/2004
152.	090745	श्री जैन मोहित कुमार एसीए बी-307, वर्कन अपार्टमेंट्स मयूर विहार फेज-I एक्सटेंशन दिल्ली-110091	15/06/2004	161.	091421	मिस सेन नमनित एफसीए सी-408, चित्तलन पार्क, न्यू दिल्ली-110019	22/12/2003
				162.	091512	श्री मारवाड नीरज एफसीए ए-46, मीरा बाग, अक्टर सिंग रोड, न्यू दिल्ली-110087	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
163.	091694	मिस सागर डोली एसीए एफ-302, अनुम अपार्टमेंट्स इस्ट अर्जुन नगर दिल्ली-110032	22/12/2003	173.	092465	श्री मंडल रोहित एसीए डी-62, मालवा मार्ग चण्डीपुरी न्यू दिल्ली-110021	22/12/2003
164.	091755	श्री राम रतन एफसीए फंकर मार्किट नियर ओबीसी बैंक, ओवरलॉक रोड, मिलरगंज, लुधियाना-141003	22/12/2003	174.	092606	श्री गुप्ता पवन एमोए 18-सो नव सेना अपार्टमेंट्स फ्लैट नं. 9, फेस्ट अनक्लेव पौतमपुरा, दिल्ली-110034	22/12/2003
165.	091764	श्री सुनील कुमार एसीए एडी-19बी सालीमार बाग दिल्ली-110088	22/12/2003	175.	092651	श्री राज कुमार एसीए सन ऑफ श्री बजरंग दास (क्लॉथ मर्चेट नियर पंजाब नेशनल बैंक डिस्ट. मनसा (पंजाब) बुद्धलाख-151502	22/07/2004
166.	091819	श्री सेन दीपेन एसीए 634/12, नईअम्बादी गली नं. 8 अर्जुन नगर गुडगांव-122001	22/12/2003	176.	092829	श्री गुप्ता अरुण एसीए सी-57, अशोक अनक्लेव-11 सैक्टर-37, फरीदाबाद-121003	22/12/2003
167.	091862	श्री गुप्ता रीषी एसीए क्यूडी-64, विराट अनक्लेव पौतमपुरा, दिल्ली-110088	22/12/2003	177.	093117	श्री नारंग राजीव एसीए 38-डी डोडौर फ्लैट्स गुलाबी बाग, दिल्ली-110007	02/09/2004
168.	091959	श्री नरेश कुमार एसीए 1717, सैक्टर-4, अरबन स्टेट गुडगांव-122001	29/04/2004	178.	093146	श्री बिल्लन एसीए वेनेद्रजीत सिंह एससीओ-808, फस्ट फ्लोर एनएसी, मनीमाजरा, चंडीगढ़	26/04/2004
169.	092182	श्री अश्वला नवीन एसीए जी. एम. मर्चेंट्स बेन्ट कोलमेन एच कं. लि. टर्म्स ऑफ इंडिया लिमिटेड डीएन रोड, मुम्बई-400001	02/07/2004	179.	093200	मिस गोशला रोना एसीए कोयी-45, मेर्या अनक्लेव पौतमपुरा, दिल्ली-110034	22/12/2003
170.	092350	श्री दुकराल संजय एसीए 10, स्टेट बैंक कार्लोनी जी. टी. कान्हाला रोड दिल्ली-110033	22/12/2003	180.	093201	श्री सिंह राजेश कुमार एसीए सीडी-237, विराट अनक्लेव पौतमपुरा, दिल्ली-110034	22/12/2003
171.	092352	श्री सुजन राजेश एसीए 5/28, II फ्लोर, विरम विहार, राजपूत नगर, न्यू दिल्ली-110024	27/07/2004	181.	093231	श्री सिव कुमार एसीए सन ऑफ श्री बलमुकंद रामा टेपेर मार्ग, महिम रोड विद्यनगर, गिवाही-125021	22/12/2003
172.	092385	श्री जमल सावर एफसीए 764 एडिबड विलेज कॉम्प्लेक्स मखन सिंह ब्लॉक, न्यू दिल्ली-110049	27/04/2004	182.	093241	श्री राहु विनोद कुमार एसीए डी-15/6 जी, प्रेजीडेन्सी फ्लैट्स अरडी सिटी, सैक्टर-52, गुडगांव	06/09/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
183.	093367	श्री वर्मा ललित कुमार एसीए 21 सतनाम पार्क चन्द्र पार्क दिल्ली-110051	31/08/2004	193.	094025	श्री गुप्ता संजय एसीए 194, करिष्मा अपार्टमेंट्स फ्लॉट नं. 27 फटफगंज, दिल्ली-110092	09/06/2004
184.	093398	श्री रमार् नीरज एफसीए बी-पी-137 (डबल्यू)। फ्लोर शहीनार बाग न्यू दिल्ली-110088	22/12/2003	194.	094034	श्री अग्रवाल एसीए अनुरा कृष्ण, एच-32 सकुन्य एक्सप्रेस फ्लॉट-1, न्यू दिल्ली-110049	22/12/2003
185.	093434	श्री संजय कुमार एसीए 429, तिलक नगर और ख-20622	09/08/2004	195.	094355	श्री खुशना संजीव एफसीए डी-5, न्यू भारत अपार्टमेंट्स ए-4पश्चिम विहार न्यू दिल्ली-110063	22/12/2003
186.	093629	श्री धन श्याम एसीए डी. फार्मस मैनेजर फार्मस डिपार्ट. मधुग रिफार्मरी मधुग-281005	17/06/2004	196.	094454	श्री सेठ आलोक एसीए 8ए/19, डबल्यूई, करोल बाग पूरा रोड, न्यू दिल्ली-110005	22/12/2003
187.	093703	श्री गंग अमित कुमार एसीए 115, सिद्धार्थ अन्वलेख न्यू दिल्ली-110014	22/12/2003	197.	094517	श्री फौल कुलदीप एसीए 93, कैलाश पीताम्पुर, दिल्ली-110034	22/12/2003
188.	093731	श्री जिन्दल संजीव कुमार एफसीए एस. सी. एफ. 22, ए बी एन्ड सी मंडी अप्टे. स्टेट बैंक ऑफ़ पंजाब सिरसा-125055	21/05/2004	198.	094544	श्री हरप्रीत सिंह एफसीए 152 ग्रीन फील्ड पारोवतल रोड लुधियाना-141001	22/12/2003
189.	093768	श्री स्वप्नेश अनुराग एफसीए ए-303, हिम रिट कोम्पे. सेक्टर-2 सेक्टर-22, फ्लॉट नं. 8 हरद्वार, न्यू दिल्ली-110075	22/12/2003	199.	094583	श्री अग्रवाल नवीन कुमार एसीए 104, सैक्टर-17ए गुड्डाइन-122001	20/09/2004
190.	093786	श्री अर्जुन एच रवि एसीए ए-11 सरवेय अन्वलेख न्यू दिल्ली-110017	14/06/2004	200.	094590	श्री पौडेल उच्चम राज एफसीए केयर ऑफ़ सुनार श्रीवस्तव यू-6/25, डीएलएफ, फेज-III गुड्डाइन-122002	06/08/2004
191.	093861	श्री सुधीर कुमार एफसीए पीएनबी बिल्डिंग, सिविल लाईन्स लुधियाना 141001	26/08/2004	201.	094742	श्री सरवजित सिंह एसीए बी-26, कृताव स्ट्रीट यूनान एरिया न्यू दिल्ली-110016	20/04/2004
192.	093970	श्री मोहन राजीव एसीए फ्लॉट नं. 1 (बी फ्लॉट) 1 रानी बस्ती रोड, मोहिया खान, न्यू दिल्ली-110055	22/12/2003	202.	094744	श्री ओमप्रकाश एफसीए जीपी-1, 138-बी विजयपुरी न्यू दिल्ली-110018	26/05/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
203.	094797	श्री चूा राजेश एफसीए एच. नं. 721, सैक्टर-29 फरीदाबाद	05/07/2004	213.	095400	श्री अभिलाषी इन्दरजीत एफसीए परम ध्रुव एन्ड कं. बी 17, मॉडल टाऊन रोड नियर इनकम टैक्स ऑफिस जलन्धर-144001	22/12/2003
204.	094804	श्री विपिन कुमार एसीए 446, सैक्टर-15ए चंडीगढ़-150017	31/03/2004	214.	095425	श्री मेहता मन्दीप एसीए कुन्ददीप रतन एन्ड कं. 347-348, 12 स्ट्रीट जोशी रोड, करोल बाग न्यू दिल्ली-110005	22/12/2003
205.	094806	श्री गुन्दी विमल एसीए हाऊस नं. 227, स्ट्रीट नं.-4, राम नगर, दिल्ली-110051	22/12/2003	215.	095468	श्री गुता मनीष एसीए 318, पोकेट-ई फ्यूर विश्व-II दिल्ली-110091	09/09/2004
206.	094816	श्री गर्ग सुरिन्दर कुमार एफसीए केयर ऑफ गर्ग जनरल स्टोर सदर बक्कर, पटिंडा-0	22/12/2003	216.	095503	श्री आशीष कुमार एसीए 51, विमान विहार दिल्ली-110092	22/12/2003
207.	094877	श्री दुर्गाधर तरेष एसीए फार्मिस मैनेजर जीई कॉम्पैटल सर्विसेज सैक्टर रोड, सैक्टर-33 डीएलएफ फेज-1, गुडगांव-122022	22/12/2003	217.	095613	श्री संदीप कुमार एसीए एफ-18/55, सैक्टर-8 रेडिगे, दिल्ली-110085	22/12/2003
208.	095045	श्री रणवीर कुमार एफसीए बी-17, मॉडल टाऊन रोड, नियर इनकम टैक्स ऑफिस जलन्धर-144001	22/12/2003	218.	095617	श्री सुद विक्रम एसीए कोई-45, मोहं अन्तराल फैतामपुरा, दिल्ली-110088	22/12/2003
209.	095089	श्री बालू रंजित एसीए केयर केंद्र चंडीगढ़ एन्ड कं. एल-41, कन्टै सर्विस न्यू दिल्ली-110001	05/05/2004	219.	095839	श्री रमन वीरज एसीए बी-बी-137 (कैट) खलीम बाग, दिल्ली-110088	22/12/2003
210.	095100	श्री कौर सतिन्दर एफसीए सी-811, सुभाष लोड-1 हरियाना, गुडगांव	07/04/2004	220.	095865	श्री विजय कुमार एसीए कोई-84, मिताज अन्तराल फैतामपुरा, दिल्ली-110088	13/05/2004
211.	095216	श्री रसिक सिंह एसीए 46, हॉली रोड लंदन उल्हास टीएस युके	29/04/2004	221.	095888	श्री छातेर अमिता एसीए फ्लैट नं. 8, मनम विहार सोल्डरी फ्लैट नं. 6, सैक्टर-15 रेडिगे, दिल्ली-110085	22/12/2003
212.	095378	श्री कल्याण दास एसीए 4056सी नव बक्कर दिल्ली-110006	26/04/2004	222.	095894	श्री गुलाब मनीष एसीए केयर ऑफ डी. बी. के गुलाब 5356/8 सिव निवास गंधी मेमोरल अन्तराल कैंट, अन्तराल	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
223.	095927	श्री जेव सदीप एसीए 101, जनकी अपार्टमेंट सेक्टर-22, द्वारका न्यू दिल्ली-110045	14/05/2004	233.	096382	श्री खुशना तजीन्दर एफसीए 216-बी पोकेट सी मयूर विहार फेज-11 दिल्ली-110091	22/12/2003
224.	095932	श्री गुप्ता संजीव एसीए डी-14, सत्यवती कालोनी असोक विहार, फेज-III दिल्ली-110052	22/12/2003	234.	096391	मिस अग्रवाल चंकरन एफसीए नं. 595, सेक्टर-5 गुडगाँव-122001	22/12/2003
225.	095935	श्री सक्देवा हर्ष एसीए बी-59/एफ-1, दिलीपद कालोनी दिल्ली-110095	13/04/2004	235.	096392	श्री संजीव कुमार एसीए रु 1732/2, नवीन गली शेरन वाला गेट पंजाब, अमृतसर-143001	22/12/2003
226.	096016	श्री मदन राजेश एसीए 18/24/13 ओल्ड गोविंदपुरा दिल्ली-110051	22/12/2003	236.	096408	मिस आहुजा निशा एसीए 33, वन विक रोड लेक हियवाथा न्यू जर्सी-07034 यूएसए	22/12/2003
227.	096034	श्री खन्ना नीरज एफसीए बी 18, मॉडल टाउन रोड नियर आईटी ओ अपे. प्रकाश कलर लैब जलन्सर-144001	22/12/2003	237.	096503	श्री सेतिया अमित एसीए भारत नगर खाई रोड, फिरोजपुर सिटी फिरोजपुर-152002	22/12/2003
228.	096074	श्री सहायन योगेश एसीए फ्लैट नं. 2267, सेक्टर बी, पोकेट II, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली-110070	22/12/2003	238.	096523	श्री जैन रजनीश एसीए सैमू-114 विशाखा अनक्लेव पीताम्पुर, दिल्ली-110088	22/12/2003
229.	096115	श्री सेठी विक्रम एसीए बी-68, विवेक विहार दिल्ली-110095	22/12/2003	239.	096581	श्री रमेश देवक कुमार एसीए जी-32, सेक्टर-7, जसोराब डेडोर फ्लैट्स अपे. सरिता विहार न्यू दिल्ली-110044	22/12/2003
230.	096266	श्री रमेश राकेश एसीए ई-2/85ए, खारवी नगर दिल्ली-110052	22/12/2003	240.	096583	श्री भन्तर संजीव एसीए ब्लॉक V-16 काठमांडू नेपाल	23/04/2004
231.	096297	मिस अग्रवाल सविता एसीए फ्लैट नं. 15, एडेन रोड एनआईए पी. ओ. बक्स 9840 केजरी, एसीसीआर घन	14/05/2004	241.	096616	श्री रत्नम श्रीराम एसीए बी-90, सक्देवा अनक्लेव न्यू दिल्ली-110017	19/08/2004
232.	096367	श्री चहोराज राहुल एसीए जी-1268, विजयनगर न्यू दिल्ली-110019	22/12/2003	242.	096774	श्री जैन सचिन एसीए जीई कोर्टल इंटरनेशनल सर्विसिज सेक्टर-18, 22ए, उद्योग विहार गुडगाँव	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
243.	096871	श्री साहु विजेन्द्र कुमार एसीए फ्लैट नं. 1, सुखवानी घर प्लॉट नं. 30 विवेक नगर अक्वटी, बॉम्बे पूने हाईवे पूने-411035	22/12/2003
244.	096935	श्री सुमीत कुमार एफसीए 71 अशोक नगर नियर पीएनबी, बस्ती नै जालंजर सिटी, जालंजर	22/12/2003
245.	096978	श्री सिंह जसविन्दर एसीए एसी-प्रवी सार्वभौम बग दिल्ली-110088	22/12/2003
246.	097132	मिस योगेश सुक्मा एफसीए एच. नं. 2046, सैक्टर 27 सी चंडीगढ़	22/12/2003
247.	097157	श्री बंधारी अदित एसीए 109, अनुसम गार्डन नियर कन्द्री क्लब न्यू दिल्ली-110068	11/06/2004
248.	097206	श्री जैन अभिषेक एसीए एजीएंट टैक्स-ऑफिस 90बी, सैक्टर-18, ब्रह्म विहार गुडगांव	18/05/2004
249.	097302	श्री नराम रेडित एसीए एन-11/47-बी, बी डी ए फ्लैट्स कालवानी, न्यू दिल्ली-110019	22/12/2003
250.	097480	मिस अरोड़ा अरती एसीए 391/6, जयम पूरा विशाल वैड ऑफ इंडिया ओल्ड सेल्स रोड, गुडगांव-122001	22/12/2003
251.	097547	श्री अग्रवाल वैभव एसीए सी-68, इंदरपुरी, न्यू दिल्ली-110012	25/03/2004
252.	097592	मिस अरोड़ा तनु एसीए इ-162, इंदरपुरी न्यू दिल्ली-110012	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
253.	097616	श्री मुरगई सुनील कुमार एसीए एजी-136, सार्वभौम बग, दिल्ली-110088	03/09/2004
254.	097618	श्री मधु धीरज एसीए के-32, जलधायु विहार पोच्चाई मुम्बई-400076	22/12/2003
255.	097651	श्री कपूर विनीत एसीए मैनेजर, रिस्क एन्ड बिजीनेस सेल्युलर अर्नास्ट एन्ड यंग, बी-26 कुतब इन्स्टीट्यूट ऑफ एरिया न्यू दिल्ली-110016	22/12/2003
256.	097679	श्रीमती दीपन दीपती एसीए 33/28, ओल्ड राजेन्द्र नगर न्यू दिल्ली-110060	28/05/2004
257.	097728	मिस वक्ता सिता एसीए मैनेजर, जीई कॉपीटल इंटरनेशनल सर्विसेज जीई टॉक्स, सैक्टर-53, डीएलएफ सिटी फेज-V, गुडगांव-122015	22/12/2003
258.	097927	श्री किनय कुमार एसीए अमेरिकन एक्सप्रेस (आई) प्रा. लि. ए-37, मोहन को-ओप. इंड. स्टेट मकुरा रोड, न्यू दिल्ली-1100044	22/12/2003
259.	098026	श्री सिंह गुरविन्दर एसीए कंवर अंश मोहिन्दर सिंह सिन्धु पंजाबी कालोनी वर्करी, बडौली-243639	29/04/2004
260.	098050	मिस गुला पृथ्वी एसीए ए-113, न्यू प्रोटेक्स कालोनी न्यू दिल्ली-110065	22/12/2003
261.	098230	श्री अग्रवाल अरवि एसीए फ्लैट 34, फॉर्म 78, मैन अग्रवाल आईपीएस टैक्निकल नियर फटपरांग बस स्टॉप दिल्ली-110092	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
262.	098250	श्री संतोष कुमार एसीए फ्लैट नं. # 139, पोस्ट-2 डीडीए फ्लैट्स सैक्टर-11 द्वारका, न्यू दिल्ली-110045	22/12/2003	273.	099366	श्री महाजन रमन एसीए 40/22, लोअर प्रिंड फ्लैट इस्ट पटेल नगर न्यू दिल्ली-110008	22/12/2003
263.	098292	श्री चन्दर प्रकाश एसीए डबल्यू-991, रानी बाग शकूर बास्ती, दिल्ली-110034	22/12/2003	274.	099626	श्री सिक्ल अजुज एसीए फार्डैस एन्ड एकाउंट्स ऑफिसर आएल एन्ड नेचुरल गैस कोरप. लि. ट्रेनागिरी भवन डीटी. रायगढ़, उरान-400702	20/05/2004
264.	098452	श्री पाहुण्ड विक्रम एसीए डीके-304, सुभाष नगर (अपो.सिव मंदिर) गुड्राँव-122001	22/12/2003	275.	099659	श्री सचदेव अरुण कुमार एसीए एडवी/1838 जनक पुरी न्यू दिल्ली-110058	21/04/2004
265.	098633	श्री रमार् विजय कुमार एसीए 639, पाकेट 1, पश्चिम पुरी न्यू दिल्ली-110063	22/12/2003	276.	099709	मिस देवा मेवना एसीए 48/1, चैमियर्स रोड आर. ए. पुरम चैन्नई-600028	03/08/2004
266.	098795	श्री मिश्र अचनीश एसीए एच-10, जल वायु विहार सैक्टर-25, नेएच-201301	27/08/2004	277.	099793	श्री गुप्त अमित एसीए रिलायंस एनर्जी लिमिटेड रिलायंस एनर्जी सेंटर सेंट्रल (डी), मुम्बई-400055	22/12/2003
267.	098821	श्री वर्मा नीरज एसीए 46/211 (स्ट्रीट नं. 17) इस्ट अजमद नगर दिल्ली-110051	11/05/2004	278.	099832	श्री चधवानी संतुष जी एसीए प्राईस वॉटर हाउस क्यूर्स (पी) लि. सससुचेता भवन गेट नं. 2 2 फ्लोर, 11-ए विष्णु दिगम्बर मार्ग न्यू दिल्ली-110002	22/12/2003
268.	098901	मिस सिंह राधिका एसीए 4069, पोकेट बी-5/6, कस्तूर कुंज, न्यू दिल्ली-110070	02/07/2004	279.	099905	मिस रीना एसीए 3973, न्यू पावोपुरी-I गली नं. 9, लुक्काना-141007	07/07/2004
269.	099050	श्री गुप्त करील एसीए 317, सुन्दरी बाग अपार्टमेंट्स सैक्टर-13, दिल्ली-110085	22/12/2003	280.	099959	श्री सिंह अभिषेक कुमार एसीए 167, विद्य विहार, कैट अनसलेव पीएमए दिल्ली-110034	22/12/2003
270.	099224	मिस अर्चना मीनानी एसीए 241-सी, पोकेट-I मयू विहार फेज-I, दिल्ली-110091	13/05/2004	281.	105433	श्री जैन नवीन चन्द एसीए फ्लैट फ्लोर, सी-82, अलेक्स अनसलेव-II सैक्टर-37 फरीदाबाद	22/12/2003
271.	099325	श्री जैन अभिषेक ई-50, सैक्टर-39, नेएच-201303	14/05/2004				
272.	099345	मिस सिंगल परस एसीए सिनीयर फार्मिस अनसलेव फोर्सेल्टी टेक्नॉलॉजी इंडिया (पी) लि. 9 फ्लोर, डीएलएफ स्कवेयर जकरांड मार्ग, डीएलएफ फेज-II गुड्राँव-122002	19/05/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिस्टोर ता.
282.	210714	श्री मनीष अश्वन एसीए 67, सुंदर नगर फैदाबाद-38	24/05/2004	288.	500614	श्री पारजुली राजेश एसीए क्टर्ड एकाउंटेंट वेटेरोनरी रोड विराटनगर-17, मोनांग नेपाल	05/05/2004
283.	500071	श्री बंका अमिता एसीए हाउस नं. 872 सेक्टर-10ए, गुडगाँव-122001	30/06/2004	289.	500738	श्री समी एरिक एसीए टाटा-एआईजी लिमिटेड इन्फोर्स कं. लि. नितोरी कोरपोरेशन 75, एनी बेसंत रोड वर्ल्ड मॉडर्न-400018	22/12/2003
284.	500084	श्री गोपाल मनीष एसीए 808, रिषी नगर रानी बाग दिल्ली-110034	22/12/2003	290.	501210	श्री समी विवेक एसीए एम-98, 3 फ्लोर नियर जगत राम पार्क लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	22/12/2003
285.	500181	श्री नेपाल विवेक एसीए 119, रोल्ही रोड विराटनगर-11 काठमांडू नेपाल	05/05/2004	291.	501616	श्री चंदन नीरज एसीए मैसर्स नीरज चंदन एंड एसोसिएट्स 285, राज गार्डन फार्मलोन कपूर थल रोड 120 फीट रोड (पैन्थी) जलेश्वर	22/12/2003
286.	500311	मिस गर्ग सुजाता एसीए केयर ऑफ गवर्नमेंटल स्टोर सदर ब्लाक, पटिया	22/12/2003	292.	501808	श्री मंगाली नीरज एसीए ब्रच एकाउंटेंट एलजीईआईएसएल, 20ए, सिविकी मार्ग, मोती नगर न्यू दिल्ली-110015	21/06/2004
287.	500613	श्री गुरव संजय एसीए 2010/27, राकेश नगर जनता फार्मलोन, हरियाणा रोहतक	22/12/2003				

डा. अशोक हल्लिया
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

संख्या: यू.16/53/2000चि.2 (म.प्र.) : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त, मध्य प्रदेश द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

<u>डॉक्टर का नाम</u>	<u>अवधि</u>	<u>केन्द्र का नाम</u>
डॉ. के.पी. शुक्ला	1.9.2006 से 31.8.2007	भोपाल, सागर, मंडीदीप, इटारसी

डा. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर 2006

संख्या: एन-15/13/1/13/2005-यो.एंव.वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

“आन्ध्र प्रदेश राज्य के रंगारेड्डी जिले के राजेन्द्रनगर मण्डल में स्थित पीरमचेरु, बैरागीगुडा, गंधगुडा, नेकनामपूर, पोप्पलगुडा, अलिज्जापूर, पन्जाषाबौला, पोकलवाडा, जनिबेगुन, मणिकोण्डा जागीर तथा मणिकोण्डा रकबा के सीमा के अंतर्गत आनेवाले सभी क्षेत्र ।”

एम. सुन्दररामन
निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 19 अक्तूबर 2006

संख्या: एन-15/13/8/1/1996-यो.एंव.वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 16 अक्तूबर, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

“जिला-धार, तहसील- पीथमपुर में पीथमपुर नगर पालिका की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 3 एवं 4 सहित, उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहाँ उक्त प्रावधान पहले ही प्रवृत्त किए जा चुके हैं।”

एम. सुन्दररामन
निदेशक (यो. एवं वि.)

SYNDICATE BANK

Manipal, the 18th October 2006

No.2151/0089/PD:IRD(O)/Reg.5 : In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980* (5 of 1970/40 of 1980*), the Board of Directors of Syndicate Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend Syndicate Bank (Officers') Service Regulations, 1979 namely:

1. (1) These regulations may be called Syndicate Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2006.

(2) These regulations shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Syndicate Bank (Officers') Service Regulations, 1979 in regulation 5 -

(a) in sub-regulation (1), under clause (c), after the proviso and before the Note the following proviso shall be inserted, namely

"Provided further that such increment/s in the next higher scale/stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered"

(b) in sub-regulation (2) in clause (d) of the Explanation, after Note (ii), the following Note shall be inserted, namely

"(iii) An Officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay, as above, if he refuses to accept promotion when offered"



B. PRAMOD
GENERAL MANAGER (P)

Foot Note: Earlier amendments to the Syndicate Bank (Officers') Service Regulations, 1979 were published in the Gazette as per details given below:

Sl.No.	Particulars	Date
1.	FDO/PD-34/88-GSR dt.02.03.1988	Issue No.11 dt.12.03.1988
2.	2719/S/0089/PD:IRD(O) dt.02.11.1996	Issue No.2 dt.11.01.1997
3.	2275/0089/PD:IRD(O) dt.06.07.2000	Issue No.34 dt.19.08.2000
4.	2334/0089/PD:IRD(O)/Reg.38 dt.30.10.2002	Issue No.47 dt.23.11.2002

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 14th August 2006

(Chartered Accountants)

No. 3NCA(5)/2/2004-2005: With reference to this Institute's Notification Nos. dated 3NCA(4)/1/1999-2000 dated 01 March, 2000, 3NCA(4)/1/2001-2002 dated 21 November, 2001, 3NCA(4)/1/2002-2003 dated 03 December, 2002 and 3NCA(4)/1/2003-2004 dated 04 February, 2005, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members:

S.No.	MRN	Name & Address	Restore Date	S.No.	MRN	Name & Address	Restore Date
1	001829	Mr. HARIHARAN PERUVEMBA RAMASWAMIE C/O. KOTHARI 71, G.C. AVENUE KOLKATA 700013	ACA 11/10/2004	8	013991	Mr. KINRA ASHOK KUMAR FINANCE DIRECTOR J.K. INDUSTRIES LTD., LINK HOUSE, 3, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG NEW DELHI 110002	FCA 01/10/2004
2	009260	Mr. IYER V SUBRAMONIA INTERNAL AUDITOR CAL STATE 9 CU 2300, CLAYTON ROAD, SUITE 220 CONCORD CA 94520 U.S.A.	FCA 25/11/2004	9	014343	Mr. CHOPRA DALIP KUMAR R-804, NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI 110060	ACA 01/10/2004
3	009549	Mr. KAPOOR RAMESH CHANDER 305 EMCA HOUSE 23/23-B DARYAGANJ ANSARI ROAD NEW DELHI 110002	FCA 01/10/2004	10	014560	MR. VIJ ASHOK KUMAR 19, N.D.S.E. PART-1 NEW DELHI 110049	ACA 18/10/2004
4	009569	Mr. JAIN KISHAN CHAND D-162 PRASHANT VIHAR SECTOR - XIV DELHI 110085	FCA 28/01/2005	11	015091	Mr. AGARWAL ASHOK KUMAR 1900, SECTOR - 8, FARIDABAD	FCA 01/10/2004
5	011387	Mr. RAWAL DHARAM PAL 350 POCET-A, SARITA VIHAR NEW DELHI 110044	FCA 01/10/2004	12	015452	Mr. SINGH BALBIR B-3/353 PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110063	FCA 01/10/2004
6	011409	Mr. BAMBA KRISHAN LAL 18, NEW PRAGTISHEEL APARTMENT VASUNDRA ENCLAVE DELHI 110096	FCA 01/10/2004	13	015654	Mr. SAMIR KUMAR SEN 104, NATIONAL MEDIA CENTRE SHANKAR CHOWK, GURGAON 122002	ACA 01/10/2004
7	011795	Mr. GOEL SUSHIL KUMAR C 8/8282 VASANT KUNJ NEW DELHI 110070	FCA 01/10/2004	14	016282	Mr. MEHTA ASHOK CHAND ASHOK MEHTA & ASSOCIATES 4 COMMUNITY CENTRE EAST OF KAILASH, NEW DELHI 110065	FCA 01/10/2004
				15	016472	Mr. GUPTA ARUN PEARL ENGINEERING POLYMERS LTD B-59, GREATER KAILASH PART-1 NEW DELHI 110048	ACA 01/10/2004
				16	016510	Mr. SHARMA MAHAVIR PRASAD H.NO. 295/2 OLD DELHI ROAD GURGAON	FCA 01/10/2004

17	016651 Mr. SAPRA DALBIR S H NO. 1281 SECTOR 37 -B CHANDIGARH	ACA 01/10/2004	27	052277 Mr. MALHOTRA HEMANT KUMAR C/O. SANTOSH DIXIT & CD A-24, MAIN MARKET MADHU VIHAR DELHI 110092	ACA 01/10/2004
18	016933 Mr. SARAF PAWAN KUMAR J K CEMENT WORKS GHALIB BHAWAN MATA SUNDRI ROAD NEW DELHI 110002	FCA 01/10/2004	28	052849 Mr. SONI PAWAN KUMAR P K SONI & CO CC-29, NEHRU ENCLAVE, KALKAJI NEW DELHI 110019	FCA 01/10/2004
19	017530 Mr. MITTAL SUDERSHAN KUMAR 1896, APPA LOOSA DRIVE NAPERVILLE, I.L. 60565 U.S.A.	FCA 01/10/2004	29	054544 Mr. AGARWAL DINESH KUMAR M/S DINESH AGARWAL & ASSOCIATES 1405, BAZAAR SITARAM DELHI 110006	FCA 01/10/2004
20	024055 Mr. HARIHARAN K V 82, JALAN DAUD # 07-04, WINDY HEIGHTS SINGAPORE 419592	ACA 09/12/2004	30	055691 Mr. ARORA RAMAN C 79, UPKAR CO-OP HOUSING SOCIETY MAYUR VIHAR 1 EXTN DELHI 110091	ACA 01/10/2004
21	024963 Mr. VEMULAPALLI RANGA RAO MANAGER (F&A) N H P C LTD. OMKARESHWAR PROJECT URJA VIHAR, SIDDHWARKUT DISTT KHANDWA (MP) KHANDWA 450 554	FCA 11/11/2004	31	057426 Mr. SAHOO SUBHAJIT C/O S SAHOO & CO E-108/1 BABA GANGANATH MARKET MUNIRKA NEW DELHI 110067	FCA 01/10/2004
22	025787 Mr. KUMAR L N SURESH 1-C, KALINGA COLONY P.T. RAJAN SALAI K.K. NAGAR, CHENNAI 600078	ACA 24/11/2004	32	058119 Mr. UDAY PRAKASH FLAT # 502, PEARL AKSHITA APARTMENTS A-36, TILAK MARG, NEAR L B S COLLEGE JAIPUR 302004	ACA 01/10/2004
23	026016 Mr. AURORA SHASHANK 26 SFS GULMOHAR ENCLAVE NEW DELHI 110049	FCA 29/12/2004	33	058443 Mr. DOKANIA PRABIN KUMAR INDIAN OIL CORPDRATION LTD (MARKETING DIVISION) 2ND FLOOR, WORLD TRADE CENTRE BABAR ROAD NEW DELHI 110001	FCA 01/10/2004
24	026700 Mr. SURESH S P.O. BOX 2567 ABN AMRO BANK DUBAI, U.E.A.	FCA 23/11/2004	34	058483 Mr. PANDEY ALOK NARAYAN ORIENT CRAFT LTD F-8, OKHLA INDUSTRIAL AREA PHASE-1 NEW DELHI 110020	ACA 01/10/2004
25	032188 Mr. SINGH ANURANJAN 475, MODEL TOWN NEAR LIC OFFICE KARNAL 132001	ACA 27/09/2004	35	058856 Mr. SINGHA CHAYAN KUMAR S 505 SCHOOL BLOCK 2ND SHAKARPUR (FLAT 2.A/3.F), DELHI 110092	ACA 01/10/2004
26	045405 Mr. CHOUDHARY RAKESH H NO 161, 2ND FLOOR POCKET C 4 ROHINI SECTOR 6 DELHI 110085	FCA 01/10/2004	36	059706 Mr. MISRA ANIL KUMAR C/O M/S N D KAPUR & CO 2A SHANKAR MARKET CONNAUGHT CIRCUS NEW DELHI 110001	ACA 01/10/2004

37	059712 Mr. SARAOGI SANJAY FINANCIAL ANALYST HEWLETT PACKARD INDIA SALES PVT LTD. 24, SALARPURIA ARENA HOSUR MAIN ROAD, ADUGODI BANGALORE 560030	ACA 08/02/2005	47	072756 Mr. GUPTA RAKESH APOLLO INTERNATIONAL LTD APOLLO HOUSE PLOT NO. 7, SECTOR-32 INSTITUTIONAL AREA GURGAON	FCA 19/11/2004
38	060321 Mrs. AGARWAL MEENU 88/92, NAGDEVI CROSS LANE GHARIWALA BUILDING 2ND FLOOR MUMBAI 400003	ACA 01/10/2004	48	072925 Mr. SANJAY SACHETI OLAM EXPORTS (I) LTD 2ND FLOOR 48, TODAR MAL ROAD BENGALI MARKET NEW DELHI 110001	ACA 01/10/2004
39	060480 Mr. BHALOTIA SANDEEP KUMAR 27/174 VIKRAM VIHAR 3RD FLOOR LAJPAT NAGAR-4 NEW DELHI 110024	ACA 01/10/2004	49	073079 Mr. BANERJEE ALOK C/O KUMAR KHANNA CHARTERED ACCOUNTANTS BAZPUR ROAD KASHIPUR(US NAGAR)	FCA 31/01/2005
40	060492 Mr. YADAV RAM CHANDRA PRASAD C/O SCM ASSOCIATES WZ-139B/1, NARAINA RING ROAD 2ND FLOOR, NEW DELHI 110028	ACA 01/10/2004	50	073333 Ms. SINGHI SUVIGYA C-14/3, SAKET NEW DELHI 110017	FCA 01/10/2004
41	070329 Mr. RAKESH CHANDRA ADD.DIRECTOR GENERAL MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS A-46/12, DLF CITY, PHASE-I GURGAON 122002	FCA 01/10/2004	51	074990 Mr. SHUKLA AMBUJ 1/4969, BALBIR NAGAR EXT SHAHNARA DELHI 110032	FCA 01/10/2004
42	070550 Mr. KHANNA RAJENDRA MAWANA SUGARS LTD. 6H FLOOR, KIRTI MAHAL 19, RAJENDRA PLACE NEW DELHI 110008	ACA 01/10/2004	52	076575 Mr. ARORA RAJESH 6/490 OLD MAHAVIR COLONY SONEPAT 131001	ACA 01/10/2004
43	070751 Mr. SINHA NAVIN 11577, MARISSA WAY GOLD RIVER CA, USA 95670	FCA 01/10/2004	53	077805 Mr. KAKKAR ASHWINI KUMAR 202 ANARKALI COMPLEX JHANDEWALAN EXTN NEW DELHI 110055	ACA 01/10/2004
44	071153 Ms. SINHA IRA 11577, MARISSA WAY GOLD RIVER, C.A, U.S.A. 95670	FCA 01/10/2004	54	077958 Mr. AGARWAL PRAMOD C/O CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FI- NANCE CO L OFFICE NO 506 IVTH FLOOR DELTA CHAMBERS G T ROAD JALANDHAR	ACA 06/12/2004
45	072135 Mr. ARORA DEVENDRA KUMAR E-801, PAWITTRA APPARTMENTS PLOT -12, VASUNDARA ENCLAVE DELHI 110096	ACA 01/10/2004	55	079692 Mr. GARG CHANDRA KANT PP-11 J EXTN (NEAR CHURCH) LAXMI NAGAR, DELHI 110092	ACA 01/10/2004
46	072274 Mr. MOHANANEY JITENDRA GENERAL MANAGER-FINANCE INDRAPRASTHAA GAS LTD 14TH FLOOR, DR. GOPALDAS BLDG 28, BARAKHAMBA ROAD NEW DELHI 110001	ACA 01/10/2004	56	079737 Ms. JAIN EKTA C/O SH. RAVI JAIN 101-A, OFFICERS' CIRCLE JAGADHRI WORKSHOP YAMUNA NAGAR	ACA 07/12/2004

57	080099 Mr. KHURANA PRAVEEN CONSULTANT N-91 PANCHSHILA PARK NEW DELHI 110017	FCA 01/10/2004	68	081454 Mr. LUGANI BAHUSHRUT KUMAR B.LUGANI & ASSOCIATES 105, RAKESH DEEP 11, COMMERCIAL COMPLEX GULMOHAR ENCLAVE NEW DELHI 110049	FCA 01/10/2004
58	080220 Mr. DEVENDRA KUMAR D KAPOOR & CO. 4228 TEL MANDI CHOWK PAHAR GANJ (OPP. NEW DELHI RAILWAY STATION) NEW DELHI 110055	FCA 01/10/2004	69	081760 Mr. MANGAL RAJESH KUMAR 8/9, ROOP NAGAR, FIRST FLOOR DELHI 110007	FCA 01/10/2004
59	080343 Mr. VINOD KUMAR H-58, GROUND FLOOR RESIDENCY GREENS GREENWOODS CITY SECTOR-46 GURGAON 122003	FCA 01/10/2004	70	081896 Mr. SHARMA RAVINDER KUMAR 43 C SHIVAM ENCLAVE POCKET C JHILMIL PHASE -II DELHI 110032	FCA 30/12/2004
60	080616 Mr. SHARMA CHANDER MOHAN 1/2406 BHAGWATI KUTTIR STREET NO 1 EAST RAM NAGAR SHAH DARA DELHI 110032	FCA 01/10/2004	71	081905 Mr. VIJAY KUMAR CHANDER LOK COLONY STREET NO.3 BEHIND ARORA CLINIC MANDI GOBINDGARH 147301	FCA 01/10/2004
61	080652 Mr. ATUL CHANDRA A2/139, SAFDARJUNG ENCLAVE NEW DELHI 110029	FCA 04/01/2005	72	082102 Mr. CHADHA NAVEEN E-372, GREATER KAILASH-I NEW DELHI 110048	FCA 01/10/2004
62	080758 Mr. BIRLA PAWAN KUMAR JALAN CEMPAKA PUTIH TENGAH XVI/3 JAKARTA 10520 INDONESIA	FCA 01/10/2004	73	082181 Mr. THAPAR ATUL B-7 EXTENSION 14-A SAFDARJUNG ENCLAVE NEW DELHI 110029	FCA 29/09/2004
63	080856 Mr. CHOUDHARY HARSH KUMAR H K CHOUDHARY & ASSOCIATES C-530 SARASVATI VIHAR DELHI 110034	FCA 01/10/2004	74	082273 Mr. MITTAL RAJINDER PARSHAD 6/52, WEST PUNJABI BAGH NEW DELHI 110026	FCA 01/10/2004
64	081003 Mr. JHUNJHUNWALA AMITABH R-18, SOUTH EXTN.PART-II, NEW DELHI 110049	FCA 01/10/2004	75	082370 Mr. RAKESH KUMAR M/S RAKESH DANG & CO. 307, SATYA MANSION, A-1, A-2, RANJIT NAGAR COMPLEX NEW DELHI 110008	FCA 01/10/2004
65	081119 Mr. SHARMA SHIV NANDAN 129, NAVJEEVAN VIHAR NEW DELHI 110017	FCA 01/10/2004	76	082410 Mr. HARISH CHANDER 37/44, WEST PUNJABI BAGH NEW DELHI 110026	FCA 01/10/2004
66	081143 Mr. KALANI RAMESH KUMAR HOUSE NO.772 SECTOR 2, PANCHKULA	FCA 01/10/2004	77	082670 Mr. JUNEJA PARVIN E 47, GREATER KAILASH 2 NEW DELHI 110048	FCA 01/10/2004
67	081362 Mr. MANOHAR LAL C/O. N. KUMAR CHHABRA & CO SCO 109, SECTOR-22B CHANDIGARH 160022	FCA 03/03/2005	78	082672 Mr. AJMANI RAKESH KUMAR 143-B, LIG FLATS RAJOURI GARDEN NEW DELHI-110027	FCA 01/10/2004

79	082695 Mr. AGGARWAL ASHOK KUMAR ASHOK KUMAR AGGARWAL & CO., 3288, PEEPAL MAHADEV, HAUZ QAZI DELHI 110006	FCA 01/10/2004	89	083264 Mr. BHASIN SANJIV SCO 183-184-185 SECTOR 17-C CHANDIGARH	FCA 30/12/2004
80	082787 Mr. AHUJA MANOJ KUMAR HOUSE NO. 1430 SECTOR-15 PANCHKULA 134113	FCA 01/10/2004	90	083397 Mr. CHOPRA PREM PRAKASH D-29, GREATER KAILASH ENCLAVE-2 NEW DELHI 110048	FCA 03/12/2004
81	082840 Mr. SINGH RAJINDER PAL 8, IIND FLOOR MAIN ROAD CHIRAG DELHI NEW DELHI 110017	FCA 01/10/2004	91	083405 Mr. BANSAL DAYA PRASAD SFS DDA FLAT NO 154 DR MUKHERJI NAGAR DELHI 110009	FCA 01/10/2004
82	082893 Mr. BHUTANI PARVEEN # 316 ARUNACHAL BHAWAN BARAKHAMBHA ROAD NEW DELHI 110001	FCA 27/12/2004	92	083413 Mr. GUPTA NARENDRA MOHAN C-28 MAYFAIR GARDEN NEW DELHI 110016	FCA 01/10/2004
83	083000 Mr. DANDONNA SANJIV 202, F/5, SHANKARDHAM BLDG SUNDERVAN COMPLEX OFF SWAMI SAMARTH NAGARA ANDHERI(W) MUMBAI 400053	FCA 28/09/2004	93	083422 Mr. SOOD AMRESH FINANCE & ACCOUNTS ALCATEL INDIA LTD PLOT NO. 25, ELECTRONIC CITY SECTOR 18, GURGAON 122015	ACA 01/10/2004
84	083020 Mr. MALIK VIJAY SINGH 10-B NETAJI SUBASH MARG DARYA GANJ NEW DELHI 110002	FCA 01/10/2004	94	083459 Mr. SHARMA UMESH KUMAR E-73, DDA MIG FLATS SAKET, NEW DELHI 110017	FCA 01/10/2004
85	083071 Mr. SURI MANINDER PAL SINGH 405, SOUTH EX PLAZA-II N.D.S.E. PART-II NEW DELHI 110049	FCA 01/10/2004	95	083477 Mr. GOEL KUMUD MANAGING DIRECTOR KLG SYSTEL LTD, UNIT 3-6, G FLOOR TOWER A, UNITECH BUSINESS PARK F BLOCK, SOUTH CITY 1, SECTOR 41 GURGAON 122002	FCA 01/10/2004
86	083125 Mr. ARORA SUDARSHAN M/S S ARORA & CO 187, SATYA NIKETAN IIND FLOOR NEW DELHI 110021	FCA 01/10/2004	96	083572 Mr. KULBHUSHAN KUMAR B-18, MODEL TOWN ROAD NEAR INCOME TAX OFFICE OPP PARKASH COLOR LAB JALANDHAR 144001	FCA 01/10/2004
87	083187 Mr. CHANDNA JOGINDER M/S. J CHANDNA & CO 303, SEWAK BHAWAN 16/2, W.E.A., KAROL BAGH NEW DELHI 110005	FCA 01/10/2004	97	083625 Mr. DADU MAHENDRA M DADU & ASSOCIATES C-13 MANSAROVER GARDEN NEW DELHI 110015	FCA 01/10/2004
88	083201 Mr. BHASIN BRIJ MOHAN DY GEN MANAGER H D F C LTD CAPITAL COURT OLOF PALME MARG, MUNIRKA NEW DELHI 110067	FCA 01/10/2004	98	083719 Mr. SATISH KUMAR SATISH JAIN & ASSOCIATES 47 BALBINDER APARTMENTS A-6 PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110063	FCA 01/10/2004
			99	083803 Mr. KUMAR KAMAL 137, GARG PLAZA SANT NAGAR ROAD COMMUNITY CENTRE PITAMPURA, DELHI 110034	FCA 01/10/2004

100	083827 Mr. MURALI N 181-14 SRIWANGSARIA CONDOMINIUM JALAN ARA BANGSAR BARU KUALA LUMPUR 59100 MALASIA	FCA 29/10/2004	112	085125 Mr. GARG ROSHAN LAL GOHANA ROAD OPP MALIK HOSPITAL NEAR GAUSHALA MANDI GATE PANIPAT	FCA 01/10/2004
101	084096 Mr. JAIN AJAY C-14, C.C. COLONY DELHI 110007	FCA 01/10/2004	113	085174 Mr. CHOPRA MOHINDER PARTAP SCO 13-14, SECTOR 16-D CHANDIGARH	FCA 28/12/2004
102	084122 Mr. ASHOK KUMAR 5-A/10972, W.E.A. SANT NAGAR KAROL BAGH NEW DELHI 110005	FCA 01/10/2004	114	085196 Mr. GUPTA PRAKASH CHANDRA PRAKASH C GUPTA & CO E-45 N D S E PART I NEW DELHI 110049	FCA 01/10/2004
103	084151 Mr. JOHAR MANINDER SINGH 405 SOUTH EX PLAZA-II SOUTH EXTENSION-II NEW DELHI-110049	FCA 01/10/2004	115	085238 Mr. NARESH KUMAR 2044/6, CHUNA MANDI PAHARGANJ NEW DELHI 110055	FCA 01/10/2004
104	084276 Mr. GUPTA SURESH KUMAR SCO 44 HUDA COMPLEX ROHTAK 124001	FCA 01/10/2004	116	085276 Mr. SETH PRAVEEN SCO 183-184-185 SECTOR 17C CHANDIGARH 160017	FCA 01/10/2004
105	084452 Mr. KAPOOR SANJAI 7A, PKT -D, SFS FLATS MAYUR VIHAR PHASE-III DELHI 110096	FCA 01/10/2004	117	085350 Mr. AGRAWAL MANOJ KUMAR BA/48-C, ASHOK VIHAR PHASE-1 DELHI 110052	FCA 01/10/2004
106	084507 Mr. SHARMA VIVEK KRISHNA C-67, NIZAMUDDIN EAST NEW DELHI 110013	FCA 01/10/2004	118	085481 Mr. SIKRI KRISHAN K SIKRI & CO 6/79 W.E.A GURUDWARA ROAD KAROL BAGH NEW DELHI 110005	FCA 01/10/2004
107	084685 Mr. BAWA AJAY 50/8, FIRST FLOOR TOLSTOY LANE JANPATH NEW DELHI 110001	ACA 01/10/2004	119	085518 Mr. AHUJA HARINDER PAL SINGH 595, MODEL TOWN JAI SINGH COMPLEX, 2ND FLOOR NEAR NILGIRI HOTEL LUDHIANA 141002	FCA 01/10/2004
108	084785 Mr. KHANNA RAKESH M-115-A GREATER KAILASH PART I NEW DELHI 110048	FCA 01/10/2004	120	085521 Mr. KUNDRA ASHISH KUMAR A KUNDRA & CO 44-B TAGORE NAGAR CIVIL LINES LUDHIANA 141001	FCA 01/10/2004
109	084796 Ms. KHURANA URMILA D-3/3, VASANT VIHAR NEW DELHI 110057	ACA 01/10/2004	121	085550 Mr. DUTTA RAJORSHI WIPRO SPECTRAMIND 239, OKHLA IND ESTATE PH 3 NEW DELHI 110020	ACA 01/10/2004
110	085091 Mr. DAVINDER KUMAR D-1/116, JANAKPURI NEW DELHI 110058	ACA 01/10/2004			
111	085109 Mr. KANWAR SATISH KUMAR 262 SECTOR 17 FARIDABAD 121001	ACA 01/10/2004			

122	085694 Mr. BALBIR SINGH 1418, SECTOR-61 CHANDIGARH	FCA 01/10/2004	133	086760 Mr. GANDHI PANKAJ PANKAJ GANDHI & ASSOCIATES A-64 DAYANAND COLONY LAJPAT NAGAR-IV NEW DELHI 110024	FCA 01/10/2004
123	085964 Mr. SETH RAMAN 7042 MANDI GHAS PAHARI DHIRAJ DELHI 110006	FCA 01/10/2004	134	086843 Mr. CHOPRA SUNIL SUNIL PAUL CHOPRA & ASSOCIATES 266 KALYAN VIHAR DELHI 110009	FCA 01/10/2004
124	085979 Mr. PRASAD RAJENDRA B/2D, SIDDH CHHAKRA APPT NEAR SARGAM SHOPPING CENTRE PARLE POINT SURAT	ACA 18/11/2004	135	086847 Mr. KAPOOR SANJAY A 6/8 KRISHNA NAGAR DELHI 110051	FCA 16/11/2004
125	085984 Mr. SOOD RAJEEVE HOUSE NO 596 SECTOR 16 D CHANDIGARH	FCA 01/10/2004	136	086872 Mr. SURESH KUMAR SURESH K MITTAL & ASSOCIATES 7341 PREM NAGAR GALI NO 1 SUBZI MANDI DELHI 110007	FCA 01/10/2004
126	086101 Mr. KHADELWAL JAI 44, DOUBLE STOREY, UGF NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI 110060	FCA 07/01/2005	137	086961 Mr. GUPTA AJAY KUMAR GUPTA KUCHHAL & CO 1539 SECTOR 22-B CHANDIGARH 160017	FCA 01/10/2004
127	086116 Mr. SONDHI ASHISH 201, NEELKANTH PALACE 190-191, SANT NAGAR EAST OF KAILASH NEW DELHI 110065	ACA 25/01/2005	138	086979 Mr. SETH SANDEEP 65/42 NEW ROHTAK ROAD NEW DELHI 110005	FCA 01/10/2004
128	086156 Mr. GOSWAMI PALASH HOUSE NO. 235 SECTOR-28, FARIDABAD 121008	FCA 23/12/2004	139	087022 Mr. GUPTA ANIL KUMAR A-1, 37F, MAYUR VIHAR PHASE-III DELHI 110096	FCA 22/11/2004
129	086267 Mr. KRISHAN GOPAL 286, BHARAT APARTMENT SECTOR-13, ROHINI DELHI 110085	ACA 13/12/2004	140	087031 Mr. GUPTA RAJIV RAJIV SAT BHUSHAN & ASSOCIATES S C O 1,2,3, 4TH FLOOR (ABOVE SBI TREASURY) SECTOR 17 B CHANDIGARH	FCA 01/10/2004
130	086330 Mr. AGGARWAL MUKESH KUMAR C/O M/S AGARWAL JINDAL & ASSOCIATES 10129, EAST PARK ROAD KAROL BAGH (OPP. FILMISTAN) NEW DELHI 110005	FCA 01/10/2004	141	087077 Mr. SAXENA SANJIV D-403, SECTOR-10 M.S. APARTMENTS, NIVEDITA KUNJ R.K. PURAM NEW DELHI 110022	FCA 12/10/2004
131	086446 Mr. RADHAKRISHNAN P R RAMACHANDRAN RADHAKRISHNAN & ASSO- CIATES E-305, GREATER KAILASH PART -II NEW DELHI 110048	ACA 01/10/2004	142	087418 Mr. BHATNAGAR PANKAJ KUMAR C 393, YOJANA VIHAR DELHI 110092	FCA 01/10/2004
132	086757 Mr. GUPTA VIJAY 341/16A FARIDABAD 121002	ACA 31/02/2005	143	087475 Mr. MANOJ KUMAR POWER FINANCE CORPN.LTD CHANDRA LOK, 4TH FLOOR 36, JANPATH NEW DELHI 110001	FCA 21/10/2004

144	087585 Mr. GUPTA ATUL HOUSE NO. 2365 SECTOR-38C CHANDIGARH 160036	ACA 30/09/2004	155	088196 Mr. RAVINDER KUMAR RAVINDER SUNGER & CO D-41 GARONDHA APPARTMENT SHRESTHA VIHAR DELHI 110092	FCA 01/10/2004
145	087651 Mr. MANISH VIMAL C/O PT INDORAMA SYNTHETICS GRAHA IRAMA, 17TH FLOOR JL H R RASUNA SAID, BLOK X 1 KAV 1 & 2, P O BOX 3375 JAKARTA 12950 INDONESIA	ACA 01/10/2004	156	088240 Mr. BHARAT BANDHU 4227, SECTOR-D POCKET-4, VASANT KUNJ NEW DELHI 110070	ACA 01/10/2004
146	087729 Mr. DEORA ARUN KUMAR FF/3, STUTEE BANK STREET KAROL BAGH NEW DELHI 110005	ACA 01/10/2004	157	088259 Mr. VIKRAM SINGH B-15, SECTOR-26 NOIDA 201301	FCA 24/09/2004
147	087731 Mr. CHOPRA SANJAY 6A, LIG FLATS, RAJOURI GARDEN, NEW DELHI 110027	FCA 01/10/2004	158	088381 Mr. KRISHNASWAMY S C-601, UPKARI APARTMENTS PLOT NO.9, SECTOR-12 DWARAKA NEW DELHI 110075	ACA 17/11/2004
148	087739 Mr. RAJENDRA PRASAD 106 C/1, KRISHNA NAGAR ST NO 6, SAFDARJUNG ENCLAVE NEW DELHI 110029	FCA 01/10/2004	159	088459 Mr. BHANDARI NEERAJ NEERAJ BHANDARI & CO. B-88, ASHOK VIHAR PHASE - I DELHI 110052	FCA 01/10/2004
149	087830 Mr. GHIYA SUNIL HOUSE NO. 847 SECTOR-17 FARIDABAD	FCA 01/10/2004	160	088612 Mr. RADHAKRISHNA MURTHY GURRAM CHIEF ACCOUNTANT, EMP DIVISION OF ECONOMIC AFFAIRS MINISTRY OF FINANCE & DEVELOPMENT PLANNING GOVT OF BOTSWANA, P/B 008 GABORONE, SOUTH AFRICA	ACA 19/10/2004
150	087930 Mr. MATHUR ANUJ B-102 UNESCO 55 I.P EXTENSION DELHI 110092	FCA 01/10/2004	161	088671 Mr. KAPOOR RAVI FLAT NO.34-C, POCKET-F G.T.B.ENCLAVE NR.G.T.B.HOSPITAL DELHI 110093	FCA 29/09/2004
151	087952 Mr. GARG AJAY KUMAR 4855-56/24, ANSARI ROAD DARYA GANJ NEW DELHI 110002	FCA 01/10/2004	162	088698 Mr. JHA KAMLESH KUMAR K K JHA & ASSOCIATES D 81 GROUND FLOOR LEFT WING KALKAJI NEW DELHI 110019	FCA 01/10/2004
152	087983 Mr. MEHTA ARUN AJAY ARUN MEHTA & ASSOCIATES 103-104 AWADH COMPLEX D-5 LAXMI NAGAR DELHI 110092	FCA 01/10/2004	163	088770 Mr. UPPAL GURINDER SINGH 206, SECTOR 21-A CHANDIGARH 160022	FCA 01/10/2004
153	088126 Mr. SHARMA ATUL 58 DAYANAND VIHAR VIKAS MARG EXTENSION DELHI 110092	FCA 01/10/2004	164	088803 Mr. JAIN SANJIVE KUMAR B-5/13, FIRST FLODR RANA PRATAP BAGH DELHI 110007	FCA 01/10/2004
154	088188 Mr. SETHI ANIL BD/3D, DDA FLATS MUNIRKA, NEW DELHI 110067	FCA 14/10/2004			

- 165 088836 Mr. MAHESH CHAND FCA 01/10/2004
C/O AGGARWAL CLINIC
CHAWLA COLONY
BALLABGARH 121004
- 166 089018 Mr. BHATIA RAJEEV FCA 01/10/2004
202, A-20, INDRAPRASTHA BHAWAN
MUKHERJI NAGAR COMMERCIAL COMPLEX
MUKHERJI NAGAR
DELHI 110009
- 167 089032 Mr. PALIWAL HARISH KUMAR ACA 27/12/2004
H NO-6 PLOT NO 57
RAILWAY STATION ROAD
KHERA KALAN
DELHI 110082
- 168 089145 Mr. HARI NARAYANAN B FCA 01/10/2004
165 SHEIKH SARAI 1
DDA RPS FLATS
NEW DELHI 110017
- 169 089224 Mr. BHUPENDAR KUMAR FCA 01/10/2004
BHUPENDAR ARORA & ASSOCIATES
WZ 439, M S BLOCK
HARI NAGAR
NEW DELHI 110064
- 170 089232 Mr. SINGH RAVINDER KUMAR ACA 01/10/2004
106, 1ST FLOOR
STREET NO. 18
PARTAP NAGAR
MAYUR VIHAR PHASE-1
DELHI 110091
- 171 089347 Mr. JERATH MANISH FCA 01/10/2004
EASY BILL LTD
51, 3RD FLOOR
OKHLA IND ESTATE 3
NEW DELHI 110020
- 172 089354 Mr. MADAN SUSHIL FCA 01/10/2004
SUSHIL MADAN & ASSOCIATES
WZ-760 RISHI NAGAR
DELHI 110034
- 173 089391 Mr. VARMA VIKAS FCA 01/10/2004
202 BLOCK 16
KAILASH DHAM
E 1 SECTOR 50
NOIDA 201307
- 174 089537 Mr. NARESH KUMAR FCA 01/10/2004
GF-5, HANS BHAWAN
WING-II, B S Z MARG
NEW DELHI 110002
- 175 089585 Mr. KOHLI RAMINDER SINGH FCA 01/10/2004
RAMINDER S KOHLI & CO
B-142 SWASTHYA VIHAR
VIKAS MARG
DELHI 110092
- 176 089588 Mr. BAHL DEVESH ACA 01/10/2004
VICE-PRESIDENT (FINANCE)
GE CAPITAL SERVICES INDIA
GE TOWER
PHASE V
GURGAON
- 177 089830 Mr. GUPTA SATISH KUMAR FCA 01/10/2004
NEW P T HOUSE
BARA BVAZAR
SHAMLI 247776
- 178 089917 Mr. MAKAR GEET PAUL FCA 01/10/2004
G P MAKAR & CO
11, DAYANAND NAGAR
LAWRENCE ROAD
AMRITSAR 143001
- 179 089940 Mr. SAI VIJAY M S ACA 29/09/2004
DELOITTE & TOUCHE LLP
TWO WORLD FINANCIAL CENTER
NEW YORK N.Y.10281
U.S.A.
- 180 089946 Mr. GUPTA DEEPAK FCA 01/10/2004
HOUSE NO. 11, ROAD NO. 7
EAST PUNJABI BAGH
NEW DELHI 110026
- 181 089984 Mr. BANSAL FCA 01/10/2004
DHARAM PRAKASH
D BANSAL & CO
36 H NO 61 STREET 6
BIHARI COLDNY SHAHDRA
DELHI 110032
- 182 090058 Ms. BANERJEA DIPASRI ACA 01/10/2004
HLT HOUSE
ONE OKHLA CENTRE
BLOCK A, OKHLA INSTL. AREA
NEW DELHI 110025
- 183 090108 Mr. KAPUR SANJAY FCA 01/10/2004
414 POCKET F
SARITHA VIHAR
NEW DELHI 110044
- 184 090137 Mr. AHUJA ARAN FCA 01/10/2004
28 DSIDC COMPLEX
MATA SUNDARI RAOD
NEW DELHI 110002

185	090152 Mr. SATISH KUMAR 252 BHERA ENCLAVE PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110087	FCA 01/10/2004	195	090830 Mr. GUPTA SANDEEP KUMAR 2473, FINCH AVE WEST TORONTO ONTARIO M9M 2G1 CANADA	ACA 04/11/2004
186	090220 Mr. GABA VIJAY KUMAR C/O NVR & ASSOCIATES 606, NEW DELHI HOUSE 27, BARAKHAMBA ROAD CONNAUGHT PLACE NEW DELHI 110001	FCA 01/10/2004	196	090957 Mr. TEJODHAR MANNAVA SRINIVASA C/O. RAJINDER SINGH & CO 6/85-86, MALVIYA NAGAR LGF, NEW DELHI-110017 NEW DELHI 110017	ACA 10/10/2004
187	090251 Mr. ANIL KUMAR HOUSE NO-674 SECTOR 31 GURGAON 122001	FCA 01/10/2004	197	090994 Mr. CHAUHAN RAJ KUMAR H NO 3823 A/7 KANHAIYA NAGAR (TRI NAGAR) DELHI 110035	FCA 26/10/2004
188	090407 Mr. JINDAL MANISH 1 TODAR MAL LANE BENGALI MARKET NEW DELHI 110001	FCA 01/10/2004	198	091008 Mr. PARWANI HEMANSHU 18227 SHANNON RIDGE PLACE CANYON COUNTRY CA 91387, USA	ACA 14/12/2004
189	090434 Mr. GOEL VIKAS F-185, 2ND FLOOR STREET NO.3 PANDAV NAGAR DELHI 110091	FCA 01/10/2004	199	091012 Mr. DATTA NEERAJ CANADIAN INVESTOR PROTECTION FUND 79, WELLINGTON ST, WEST SUITE 610, P.O. BOX 75 TORONTO ONTARIO M5K 1E7 CANADA	ACA 01/10/2004
190	090444 Mr. JAIN SANJAY G-3 M C D FLATS BHAMASHAH MARKET KAMLA NAGAR DELHI 110007	FCA 01/10/2004	200	091097 Mr. MAGOW RAJESH 74, GH-14, PASCHIM VIHAR P.O. SUNDER VIHAR NEW DELHI 110087	FCA 01/10/2004
191	090454 Mr. NANDA HEMANT 11 SHANKARACHARYA MARG GURBACHAN CASTLE CIVIL LINES DELHI 110054	FCA 01/10/2004	201	091167 Mr. MEHTA KULDEEP 347-348, 12TH STREET JOSHI ROAD KAROL BAGH NEW DELHI 110005	FCA 01/10/2004
192	090488 Mr. ARUN KUMAR ARUN K. GOYAL & CO. C/O HANS OIL MILLS 483, SHAM NAGAR LUDHIANA 141001	FCA 01/10/2004	202	091182 Mr. HARPREET SINGH PAHWAFCA HOUSE NO. 49-A MODEL TOWN EXTENSION LUDHIANA	ACA 01/10/2004
193	090546 Mr. WADHWA RAJIV 182 SATYA NIKETAN NEW DELHI 110021	FCA 01/10/2004	203	091281 Mr. MEHRA ANSHUL H 504 MAYUR DHWAJ APTS 60, I P EXTENSION PATPARGANJ DELHI 110092	ACA 01/10/2004
194	090759 Mr. BADRINARAYANAN K ERNST & YOUNG PVT LTD 18, EXPRESS TOWERS NARIMAN POINT MUMBAI 400021	ACA 12/10/2004	204	091321 Mr. MEHRA MANU P.O. BOX 42395 ABU DHABI U A E	ACA 01/10/2004

205	091376	Mr. JASORIA ASHISH D-1/97, JANAKPURI NEW DELHI 110058	FCA 01/10/2004	216	092053	Mr. RAJ KUMAR 952 SECTOR 21-C FARIDABAD	FCA 01/10/2004
206	091421	Ms. SEN NABANITA C-408 CHITTARANJAN PARK NEW DELHI 110019	FCA 01/10/2004	217	092173	Mr. SANJIV SANGWAN J-1942 2ND FLOOR C. R. PARK NEW DELHI 110019	ACA 01/10/2004
207	091474	Mr. BHUTANI GIRISH G-30, KIRTI NAGAR NEW DELHI 110015	FCA 01/10/2004	218	092242	Ms. KUCHHAL MANJU 72, ADARSH KUNJ APPARTMENT SECTOR 13 NEAR SACHDEVA PUBLIC SCHOOL ROHINI DELHI 110085	FCA 03/03/2005
208	091530	Mr. DEEPAK KUMAR MAHAJAN J-38 RESERVE BANK ENCLAVE PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110063	FCA 01/10/2004	219	092362	Mr. GOYAL SANJAY 4A UJJWAL APARTMENTS H-BLOCK VIKAS PURI NEW DELHI 110018	FCA 01/10/2004
209	091642	Mr. YASHVEER SINGH CHAUHAN H NO 4830 MOHALA MUFTI WADA REWARI	FCA 01/10/2004	220	092363	Mr. JAIN MANOJ KUMAR C-3A/147A, JANAKPURI NEW DELHI 110058	FCA 01/10/2004
210	091741	Mr. DINESH KUMAR C-7 1ST FLOOR LAJPAT NAGAR-I NEW DELHI 110024	FCA 01/10/2004	221	092431	Mr. AGGARWAL PARDEEP KUMAR 308, SYNDICATE HOUSE 3, OLD ROHTAK ROAD INDERLOK DELHI 110035	FCA 01/10/2004
211	091757	Mr. RAVI 3, WAKATIPU ST PT. CHEV AUCKLAND NEW ZEALAND	FCA 15/12/2004	222	092443	Mr. GUPTA VINAY KUMAR 332, ASHOK ENCLAVE MAIN FARIDABAD	FCA 30/12/2004
212	091793	Mr. YADAV NAWAL KISHOR KATHMANDU MUNICIPALITY WARD NO 8, KUMARIGAL POST BOX NO 12133 KATHMANDU, NEPAL	FCA 01/10/2004	223	092464	Mr. GROVER RAMAN G-18/20, SECTOR-15 ROHINI, DELHI 110085	ACA 11/11/2004
213	091819	Mr. SEN DIPEN 634/12 NAI ABADI GALI NO. 8 ARJUN NAGAR GURGAON 122001	ACA 01/10/2004	224	092517	Mr. DADOO DIWAKAR E-165, SARITA VIHAR NEW DELHI 110044	FCA 28/02/2005
214	091958	Mr. BISARYA SUMEET DALMIA CEMENT (B) LTD 11TH FLOOR, HANSALAYA 15, BARAKHAMBHA ROAD NEW DELHI 110001	ACA 01/10/2004	225	092524	Ms. GUPTA VANITA A-2/263, JANAKPURI NEW DELHI 110058	FCA 01/10/2004
215	092009	Mr. SINGH GURDEV S C O 80-81 SECTOR 17.C CHANDIGARH	FCA 01/10/2004	226	092539	Mr. KAMBOJ AJAY C 4/89 B KESHAV PURAM LAWRENCE ROAD, DELHI 110035	FCA 01/10/2004
				227	092642	Mr. MURLIDHARAN RAHUL VICE PRESIDENT J.P.MORGAN SECURITIES INL 270, PARK AVENUE, 5TH FLOOR NEW YORK NYL0017, U.S.A.	ACA 01/10/2004

228	092693	Mr. LAKHBINDER SINGH FLAT NO.17, PLOT NO. 452-453 SACTOR-21A, FARIDABAD	ACA 01/10/2004	239	093101	Mr. AGGARWAL DHEERAJ KISHORE HOUSE NO. 262, SECTOR-8 PANCHKULA 134109	ACA 21/02/2005
229	092713	Mr. NARESH KUMAR ELG-1, PUSHPA COMPLEX HISAR	FCA 01/10/2004	240	093238	Mr. ARORA ROHIT B-4/111, PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110063	ACA 03/02/2005
230	092739	Ms. CHAWLA SONIA B-106, MANSAROVER GARDEN NEW DELHI 110015	FCA 01/10/2004	241	093287	Mr. CHHIBBER SAMEER 8/39 WEA KAROL BAGH NEW DELHI 110005	ACA 01/10/2004
231	092769	Ms. SHARMA RAJWINDER 55, SEVEN CRESCENT LANGLEY, SLOUGH BERKS SL3 8UU ENGLAND	ACA 01/10/2004	242	093300	Mr. VERMA ASHOK ASHOK VERMA & ASSOCIATES CHAMBER NO 304 WEGMANS HOUSE 21 VEER SAVARKAR BLOCK SHAKARPUR DELHI 110092	FCA 01/10/2004
232	092857	Mr. BHANOT VIVEK C-2/143, JANAKPURI NEW DELHI 110058	ACA 01/10/2004	243	093326	Mr. NARESH KUMAR 10129 EAST PARK ROAD OPP. FILMISTAN CINEMA KAROL BAGH NEW DELHI 110005	FCA 01/10/2004
233	092914	Mr. PANWAR DHARMENDRA SENIOR MANAGER- CORPORATE AUDIT GROUP BHARTI TELEVENTURES LTD A-30, SAIDULAJAB MEHRAULI-BADARPUR ROAD NEW DELHI 110030	ACA 01/10/2004	244	093360	Mr. V VIDYA SAGAR 210 MIG FLATS PRASAD NAGAR NEW DELHI 110005	ACA 01/10/2004
234	092919	Mr. BEHL SUMEET C/O SUNIL CHAUDHRY BUILDING 387/6, NEAR RAJ MODEL SCHOOL MASTER COLONY, DINA NAGAR TEHSIL PATHANKOT, DT. GURDASPUR GURDASPUR 143531	FCA 01/10/2004	245	093416	Mr. GUPTA RITESH A-26 HAUZ KHAS NEW DELHI 110016	ACA 01/10/2004
235	092946	Mr. SHARMA VINOD KUMAR 3845, SHEPPARD AV.E. APT 104 TORONTO M2T 3S8, CANADA	ACA 01/10/2004	246	093519	Ms. SHARMA BINDU C-504, NAGARJUNA APARTMENT MAYUR KUNJ MAYUR VIHAR PHASE EXTN-1 DELHI 110091	FCA 01/10/2004
236	092977	Mr. MANGLA AKHIL 23, GF MANAK VIHAR DELHI 110092	FCA 01/10/2004	247	093546	Mr. MAHAJAN ASHISH ABDVE FIRST FLIGHT COURIERS NEAR NIIT EDUCATION CENTRE SCHOOL BAZAR HIMACHAL PRADESH MANDI 175001	FCA 01/10/2004
237	092983	Mr. SANJEEV KUMAR 10/100, LEUMEAH ROAD LEUMEAH NEW SOUTH WALES 2560 AUSTRALIA	FCA 08/02/2005	248	093558	Mr. RAJIV KUMAR # 1048, SECTOR 19-B CHANDIGARH	FCA 01/10/2004
238	093015	Mr. GULATI AJAY C 66 SHIVALIK NEAR MALVIYA NAGAR NEW DELHI 110017	ACA 01/10/2004	249	093651	Ms. JAIN PARUL KPMG INDIA PVT LTD BLOCK 4., DLF CORPORATE PARK DLF CITY PH 3, GURGAON	ACA 01/10/2004

250	093724 Mr. SHARMA VIRENDRA KUMAR 546, POCKET-5 MAYUR VIHAR PHASE-I DELHI 110091	FCA 01/10/2004	262	094323 Mr. BANSAL NAVNEET F-41, GREENWOOD CITY (UNITECH) SECTOR-46, GURGAON 122001	ACA 01/10/2004
251	093761 Mr. MUNJAL NAVNEET H NO-1176 SECTOR 22-B CHANDIGARH 160022	ACA 01/10/2004	263	094360 Mr. GUPTA ARUN 4 JDA PLOT NEW REHARI JAMMU TAWI 180005	FCA 01/10/2004
252	093776 Mr. AKHAREMKA SHIV DAYAL HPCL, 50 NEW POLO GROUND SAHELI NAGAR UDAIPUR 313001	ACA 31/12/2004	264	094414 Mr. SUKHVINDER SINGH 6A/61, WE A KAROL BAGH NEW DELHI 110005	ACA 02/02/2005
253	093805 Mr. GARCHA RAJESH KUMAR 2575, STEELES AVE BRAMPTON ONTARIO, CANADA	ACA 20/12/2004	265	094452 Ms. BAJAJ PREET J-12 RAJOURI GARDEN NEW DELHI 110027	FCA 01/10/2004
254	093810 Mr. MUKESH KUMAR H NO 1701, SECTOR 8 FARIDABAD 121002	FCA 01/10/2004	266	094501 Mr. KAPIL DEV 1619 ULDHANPUR NAVEEN SHAHDARA DELHI 110032	ACA 01/10/2004
255	093815 Mr. GARG DINESH KUMAR C/O SH R K VERMA H NO-160 J EXTENSION STREET NO-5 LAXMI NAGAR DELHI 110092	FCA 17/12/2004	267	094574 Mr. GOEL UMA SHANKER 203 SHREE GANESH COMPLEX 32-B VEER SAVARKAR BLOCK SHAKARPUR VIKASH MARG DELHI 110092	FCA 01/10/2004
256	093852 Mr. RAMPAL AMIT KOTHI NO 2356 SECTOR 38-C CHANDIGARH	FCA 01/10/2004	268	094606 Mr. BANGA JASWANT SINGH 210, MANKONDA VILLAGE HYDERABAD 500019	ACA 12/10/2004
257	093882 Mr. S VENKATARAMAN 19-B/1 NEW MARKET NEW ROHTAK ROAD NEW DELHI 110005	ACA 13/12/2004	269	094613 Mr. VINOD KUMAR R-IV-23, YAMUNA COLONY DEHRADUN 248001	ACA 01/10/2004
258	094058 Mr. MADAN BHUVAN A-103, ASHOK VIHAR PHASE 3 DELHI 110052	ACA 18/02/2005	270	094628 Mr. JAIN NAVIN BSR & CO 48, DLF CORPORATE PARK DLF CITY, PHASE-III GURGAON	ACA 01/10/2004
259	094166 Mr. SHARMA SUDHIR KUMAR 133, GURU RAM DAS NAGAR LAXMI NAGAR, DELHI 110092	ACA 11/10/2004	271	094643 Mr. KATYAL LALIT MAHINDRA BRITISH TELECOM LTD SHARDA CENTRE OFF. KARVE ROAD ERANDWANE PUNE 411004	ACA 01/10/2004
260	094192 Mr. JAIN ATUL KUMAR D-22, PANDAV NAGAR DELHI 110092	FCA 01/10/2004	272	094790 Mr. KARN BISHAMVER KUMAR MB-B ANTRIKSH BHAWAN 22 K G MARG NEW DELHI 110001	FCA 01/10/2004
261	094308 Mr. DEEPAK KUMAR M/S SURENDER KUMAR SINGHAL & CO 104 AGGARWAL PLAZA PLOT NO H-7 NETAJI SUBHASH PALACE PITAM PURA, DELHI 110 034	FCA 01/10/2004			

273	094834 Ms. ARORA SUSHMA 1961, KATRA KHUSHAL RAI KINARI BAZAR DELHI 110006	ACA 01/10/2004	284	095400 Mr. ABHILASHI INDERJIT PARAM BHUSHAN & CO B 17, MODEL TOWN ROAD NEAR INCOME TAX OFFICE JALANDHAR 144001	FCA 01/10/2004
274	094838 Mr. CHOUDHARY DHARMENDRA KUMAR 12/208 COMMUNITY CENTRE PREET VIHAR DELHI 110092	FCA 01/10/2004	285	095425 Mr. MEHTA MANDEEP KULDEEP RATTAN & CO 347-348, 12TH STREET JOSHI ROAD, KAROL BAGH NEW DELHI 110005	ACA 01/10/2004
275	094878 Mr. DHINGRA GAGAN C/O RECKITT BENCKISER ARABIA FZE P.O. BOX 61344 DUBAI, U.A.E.	ACA 23/12/2004	286	095430 Mr. CHAMAN LAL B 18 MODEL TOWN ROAD NEAR I T O OPP PARKASH COLOR LAB JALANDHAR 144001	FCA 01/10/2004
276	094961 Mr. GULATI SANJEEV 304, PRESTIGE CHAMBERS 15A/1, W.E.A., KAROL BAG NEW DELHI 110005	ACA 01/10/2004	287	095543 Mr. GROVER JETENDRA A-113, REGENCY PART-1 DLF PHASE-IV HARYANA GURGAON 122001	ACA 01/10/2004
277	095014 Mr. GOPAL NITIN 255, NAGIN LAKE APARTMENTS OUTER RING ROAD PEERAGARHI PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110087	ACA 01/10/2004	288	095556 Mr. VAIBHAV C-2/106, FIRST FLOOR JANAKPURI NEW DELHI 110058	ACA 01/10/2004
278	095030 Mr. HIRA RAJIV 241 DR MUKHERJEE NAGAR DELHI 110009	ACA 01/10/2004	289	095593 Mr. HARJIT SINGH A-167, GUJRANWALA TOWN PART-1 DELHI 110009	ACA 01/10/2004
279	095090 Mr. SOOD ANURAG 801, TOWER II SAGAVI APARTMENTS SECTOR-55, GH-85 GURGAON 122003	ACA 20/12/2004	290	095633 Mr. KASHMIR SINGH SOKHAL H. NO 168 V P O SANT NAGAR TEHSIL RANIA SIRSA 125075	FCA 01/10/2004
280	095221 Ms. NARULA ALKA AIRLINE ALLIED SERVICES LTD N.T.A. DUM DUM-NSCBI DOMESTIC AIRPORT KOLKATA 700052	ACA 23/12/2004	291	095647 Mr. SINGH VIJAY DEEP C/O M/S PRICE WATERHOUSECOOPERS (P) LTD PWC CENTRE SAIDULAJAB, MB ROAD OPP. D BLOCK SAKET NEW DELHI 110030	ACA 01/10/2004
281	095243 Ms. CHAWLA RITU ROAD NO. 14, HOUSE NO. 9 PUNJABI BAGH EAST NEW DELHI 110026	ACA 01/10/2004	292	095669 Mr. DHAMA GOLDIE A-239, SARITA VIHAR MATHURA ROAD NEW DELHI 110044	ACA 01/10/2004
282	095262 Mr. JINDAL PUNEET B-1/166, PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110063	ACA 29/09/2004	293	095690 Mr. LAKHOTIA DINESH C-4/187 DAYANAND COLONY LAJPAT NAGAR -IV, NEW DELHI 110024	ACA 01/10/2004
283	095332 Ms. CHADHA VASUDHA 49, ENGINEERS ESTATE 21, I.P. EXTENSION PATPAR GANJ DELHI 110092	ACA 01/10/2004			

294	095765 Mr. VASDEV AMIT HOUSE NO. 432 SECTOR-48A CHANDIGARH	ACA 29/12/2004	304	096104 Ms LUTHRA RACHNA E-198, NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI 110060	ACA 01/10/2004
295	095785 Mr. BAGRI AJAY ASST MANAGER NORTH DELHI POWER LTD GRID SUB STATION BUILDING KINGSWAY CAMP DELHI 110009	ACA 01/10/2004	305	096119 Mr BEDI SAPANJIT SINGH INNET MINING 330, BAY STREET, SUITE 1000 TORONTO M5H 258 CANADA	ACA 16/12/2004
296	095804 Mr. SHARMA SITA RAM 68-A MIG DDA FLAT SHIVAM ENCLAVE JHILMIL DELHI 110032	FCA 01/10/2004	306	096150 Mr MADHAVAN ROHIT 6-B NEETHI APARTMENTS 84 IP EXTENSION PATPARGANJ DELHI 110092	ACA 01/10/2004
297	095812 Mr. MEHTA ANIL H-103 LIG FLATS PHASE -I ASHOK VIHAR DELHI 110052	ACA 01/10/2004	307	096210 Ms AGARWAL KRITI C-104, FIRST FLOOR SHIVALIK NEW DELHI 110017	ACA 01/10/2004
298	095895 Mr INDERDEEP SINGH C/O A.G.S. ASSOCIATES 7, VAISHALI, MAIN ROAD PITAMPURA DELHI 110088	ACA 01/10/2004	308	096214 Mr ARORA GAURAV C 97 PANCHSHEEL ENCLAVE NEW DELHI 110017	FCA 01/10/2004
299	096012 Mr VARSHNEY RAKESH 217, TRIVENI COMPLEX E-10-12, JAWAHAR PARK LAXMI NAGAR DELHI 110092	FCA 01/10/2004	309	096336 Mr GUPTA RAJESH KUMAR 49, DDA SFS FLATS GULMOHAR ENCLAVE NEW DELHI 110049	FCA 01/10/2004
300	096021 Mr CHADHA SANJAY 49, ENGINEERS ESTATE 21, PATPAR GANJ I.P. EXTENSION DELHI 110092	ACA 01/10/2004	310	096337 Ms GARCHA PRAGATI 2575, STEELES AVE BRAMPTON ONTARIO CANADA	ACA 20/12/2004
301	096034 Mr KHANNA NEERAJ B 18, MODEL TOWN ROAD NEAR I T O OPP PARKASH COLOR LAB JALANDHAR 144001	FCA 01/10/2004	311	096429 Mr MATHUR RAHUL P.O. BOX 567 JEBEL ALI FREE ZONE B-35, OIL FIELD SUPPLY DUBAI U.A.E.	ACA 18/01/2005
302	096042 Mr RASTOGI SAURABH A 71 MADHUBAN SHAKARPUR DELHI 110092	ACA 01/10/2004	312	096532 Mr VINOD KUMAR KP-365, PITAM PURA DELHI 110088	FCA 01/10/2004
303	096063 Mr ACHARYA BUDDHI PRASAD POST BOX NO. 5783 KATHMANDU NEPAL	ACA 01/10/2004	313	096584 Mr UPADHYAY KAMLESH KUMAR 10/133 WEST GURU ANGAD NAGAR MAIN GURUDAWARA ROAD LAXMI NAGAR DELHI 110092	FCA 01/10/2004
			314	096606 Mr PANDEYA ARJUN PRASAD J-10A/F, STREET-6 LAXMI NAGAR DELHI 110092	ACA 01/10/2004

315	096617 Mr SINGH INDERJIT F 7 KATWARIA SARAI NEW DELHI 110016	ACA 01/10/2004	325	097132 Ms MOGLA SUSHMA H NO 2046 SECTOR 27 C CHANOIGARH	FCA 01/10/2004
316	096705 Mr. VERMA HERRY YOM 430, PARSHAV VIHAR 50, I.P. EXTENSION DELHI 110092	FCA 01/10/2004	326	097142 Mr MEHTA HIMANSHU M-35 SAKET NEW DELHI 110017	ACA 01/10/2004
317	096721 Mr RAJESH KUMAR D 83 2ND FLOOR AMAR COLONY LAJPAT NAGAR 4 NEW DELHI 110024	FCA 01/10/2004	327	097258 Mr SHARMA NITIN 165-C SECTOR -19 ROHINI, DELHI 110085	ACA 01/10/2004
318	096770 Mr DOBRIYALE VIJAY KANT RZ 400 B-2 RAJ NAGAR PALAM COLONY NEW DELHI 110045	ACA 04/03/2005	328	097331 Mr GOYAL MOHIT 38/B-5, SECTOR 8 ROHINI DELHI 110085	ACA 01/10/2004
319	096774 Mr JAIN SACHIN GE CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES SECTOR-18 22A, UOYOG VIHAR GURGAON	ACA 01/10/2004	329	097340 Mr SEHJPAL RISHI SCO 2924 SECTOR 22C CHANOIGARH 160022	FCA 01/10/2004
320	096793 Mr SALUJA RISHI B-1/202, MILAN VIHAR PLOT NO. 72, I P EXTENTION DELHI 110092	ACA 01/10/2004	330	097455 Mr KANDPAL KAMAL KISHORE BENNETT COLEMAN & CO LTD, MAS 7, BAHADURSHAH ZAFAR MARG NEW DELHI 110002	ACA 01/10/2004
321	096935 Mr SUMIT KUMAR 71 ASHOK NAGAR NEAR PNB BASTI NAU JALANDHAR CITY JALANDHAR	FCA 01/10/2004	331	097472 Mr RAWAL RAHUL 3RD FLOOR 1, COMMUNITY CENTER EAST OF KAILASH NEW DELHI 110065	ACA 01/10/2004
322	097059 Ms AGGARWAL MEENAKSHI INDIAN OIL CORPN 7 INSTITUTIONAL AREA SCOPE COMPLEX, CORE 2 LODHI ROAD NEW DELHI 110003	ACA 01/10/2004	332	097558 Mr JAIN SACHIN 302/18, 18, CIVIL LINES NEW HARIDWAR ROAD ROORKEE HARIOWAR	ACA 01/10/2004
323	097061 Mr JAIN AMIT FLAT NO. 902, IVORY COURT 4 C/O ESSEL HSG PROJECTS P LTD MAIN MEHRAULI GURGAON ROAD OPP. PRIVAT HOSPITAL GURGAON	ACA 01/10/2004	333	097643 Mr SINGHAL ANUJ ASSTT VICE PRESIDENT BANK OF AMERICA EXPRESS TOWER, 16TH FLOOR NARIMAN POINT MUMBAI 400021	ACA 01/10/2004
324	097073 Mr AGARWAL RAGHAVENORA C-684, SARITA VIHAR NEW DELHI 110044	ACA 01/10/2004	334	097789 Mr KALIA AASHUTOSH 40, NEPEN PLACE BRAMPTON ONTARIO L6S 5Y8 CANADA	ACA 01/10/2004
			335	097801 Mr. AJMERA ARUN 1-C-16, SHASTRI NAGAR OLD HOUSING BOARD BHILWARA	ACA 05/10/2004

336	097815 Mr BINDRA HARPREET SINGH	ACA 01/10/2004	347	098218 Mr MARWAH	ACA 01/10/2004
	BD 100 MIG FLATS			NIRPINDER SINGH	
	JANAKPURI			3051/1 FIRST FLOOR	
	NEW DELHI 110058			CHUNA MANDI	
				PAHAR GANJ	
				NEW DELHI 110055	
337	097849 Mr PURI GAGANPREET SINGH	ACA 01/10/2004	348	098258 Mr SHARMA RAJESH	ACA 01/10/2004
	K P M G			5/1 ASHOKA CHAMBERS	
	BLOCK 4.B, DLF CORPORATE PARK			B-5 PUSA ROAD	
	DLF CITY PHASE 3			NEW DELHI 110005	
	MEHRAULI GURGAON ROAD				
	GURGAON				
338	097861 Mr D RAGHAV RAO	ACA 01/11/2004	349	098292 Mr CHANDAR PRAKASH	ACA 01/10/2004
	C-1786 PHASE -1			WZ-991, RANI BAGH	
	SUSHANT LOK			SHAKUR BASTI	
	GURGAON 122001			DELHI 110034	
339	097876 Ms MITTAL VEENU	ACA 01/10/2004	350	098369 Mr MITTAL JITENDER	ACA 01/10/2004
	ERNST & YOUNG			E-222 SHASTRI NAGAR	
	P O BOX 9267			SARAI ROHILLA	
	DUBAI, U A E			DELHI 110052	
340	097957 Mr BHUGRA SAMEER	ACA 01/10/2004	351	098420 Mr GUPTA MAHAVIR PARSAD	ACA 01/10/2004
	2343, SECTOR 13,			120/B 4	
	URBAN ESTATE			ROHINI SECTOR 7	
	KARNAL			DELHI 110085	
341	098000 Mr V MUTHUKUMARAN	ACA 01/10/2004	352	098433 Mr SAHI MANISH KUMAR	ACA 01/10/2004
	C 2 B/56.B			251, ARUNODAYA APARTMENTS	
	JANAKPURI			OPP. MAMTA MODERN SCHOOL	
	NEW DELHI 110058			H-BLOCK, VIKASPURI	
				NEW DELHI 110018	
342	098042 Mr VAIBHAV KUMAR	ACA 01/10/2004	353	098456 Mr TULI ANKUSH	ACA 01/10/2004
	C 28, MAYFAIR GARDEN			RANBAXY LABS	
	NEW DELHI 110016			10TH FLOOR, DEVIKA TOWERS	
343	098096 Mr SURI RAMANDEEP SINGH	ACA 01/10/2004		26, NEHRU PLACE	
	35/1A, DOUBLE STOREY			NEW DELHI 110019	
	ASHOK NAGAR				
	NEW DELHI 110018				
344	098102 Mr MOHAN KUMAR	ACA 01/10/2004	354	098495 Mr ROONGTA PRATEEK	ACA 01/10/2004
	21/24 - B, TILAK NAGAR			A T KEARNEY LIMITED	
	NEW DELHI 110018			TAJ MAHAL HOTEL	
				SUITE 1001	
				1 MANSINGH ROAD	
				NEW DELHI 110011	
345	098156 Ms MATTA HASNEETA	ACA 01/10/2004	355	098636 Mr CHANDGOTHIA ANKUSH	ACA 18/10/2004
	C/O. M/S. S.R. BATLIBOI & CO			CITI BANK N.A	
	2ND FLOOR			GROUND FLOOR, LUDHIANA STOCK EX-	
	CAPITAL COURT			CHANGE BLDG	
	MUNIRKA			FEROZE GANDHI MARKET	
	NEW DELHI 110067			LUDHIANA 141001	
346	098163 Mr GABA INDRESH	ACA 01/10/2004	356	098638 Mr DAWAR RAJEEV	ACA 01/10/2004
	I-2 NAV BHARAT APARTMENT			97-A OLD GUPTA COLONY	
	OPPOSITE B-1 MARKET			OPP KALYAN VIHAR	
	PASCHIM VIHAR			DELHI 110009	
	NEW DELHI 110063				

357	098661 Mr GUPTA ABHISHEK MOHAN	ACA 01/10/2004	367	098920 Mr GUPTA VINAYAK	ACA 01/10/2004
	V-9/8, FIRST FLOOR			C 5/129, MILAN VIHAR APTS	
	DLF CITY PHASE-III			PLOT NO 72, I P EXTN	
	GURGAON 122002			PATPARGANJ	
				DELHI 110092	
358	098678 Ms KUMAR DEEPTI	ACA 01/10/2004	368	098983 Mr. GUGLANI ANURAG	ACA 01/10/2004
	117A, CENTRAL AVENUE			DREAMLAND	
	SAINIK FARMS			15, MALWA COLONY	
	NEW DELHI 110062			PATIALA 147001	
359	098740 Mr ANAND SUMCHIT	ACA 01/10/2004	369	099133 Mr GUPTA NEERAJ	ACA 01/10/2004
	MANAGER			HOUSE NO. 1996	
	ERIX ADVISORS			IST FLOOR	
	GESCO CENTRE			SECTOR - 16	
	70, NEHRU PLACE			FARIDABAD	
	NEW DELHI 110019				
360	098776 Mr JAIRATH	ACA 01/10/2004	370	099154 Mr PATNI NITESH	ACA 01/10/2004
	RAJNEESH KUMAR			E 33.B, MIG FLATS	
	18 B, POCKET - A, SFS FLATS			MAYA PURI	
	MAYUR VIHAR PHASE-III			NEW DELHI 110064	
	DELHI 110096				
361	098802 Mr ARORA VIKRAM JIT SINGH	ACA 01/10/2004	371	099159 Mr JAIN SAURABH	ACA 01/10/2004
	G-18, SECTOR-9,			2289 GALI PAHAR WALI	
	HARI NAGAR,			DHARAM PURA	
	JAIL ROAD			DELHI 110006	
	NEW DELHI 110058				
362	098864 Mr RUNGTA ADARSH	ACA 01/10/2004	372	099210 Mr. RAJPUT JATIN	ACA 01/10/2004
	56-C BLOCK- L			B 89 SECTOR 39	
	JANTA FLATS			NOIDA 201303	
	SAKET				
	NEW DELHI 110017		373	099266 Mr S SUBRAMANIAN	ACA 01/10/2004
				162, POCKET-D	
				MAYUR VIHAR PHASE-2	
				DELHI 110091	
363	098868 Mr SAHNI NITIN	ACA 11/10/2004	374	099279 Mr. SURESH KUMAR	ACA 01/10/2004
	434, SECTOR-29			1280, SECTOR 34-C	
	NOIDA 201301			CHANDIGARH	
364	098881 Mr GUPTA MANOJ KUMAR	ACA 01/10/2004	375	099315 Mr. MUKESH KUMAR	ACA 28/02/2005
	W-110, SECOND FLOOR			PLOT NO. 38	
	UPPAL'S SOUTHEND			SECTOR-05, VAISHALI	
	SOUTH AVENUE			GHAZIABAD 201012	
	SOHNA ROAD				
	GURGAON 122000		376	099339 Mr BHUTANI PANKAJ	ACA 01/10/2004
				153-B DDA FLATS (LIG)	
365	098909 Ms. VERMA MEETA	ACA 01/10/2004		RAJOURI GARDEN EXTENSION	
	C/O. SUMANT AGARWAL & CO			NEW DELHI 110027	
	A-58, ANAND VIHAR				
	DELHI 110092				
366	098915 Mr BABBAR SUNIL	ACA 01/10/2004	377	099373 Ms GOYAL MANISHA	ACA 01/10/2004
	10-B, HIGHWAY APARTMENTS,			A/75 NEAR OLD H.S.E.B OFFICE	
	IIND FLOOR,			CHAWLA COLONY	
	GAJIPUR			BALLABGARH	
	DELHI 110096			OT. FARIDABAD	
				BALLABGARH 121004	

- 378 099392 Mr SACHDEVA GAURAV ACA 01/10/2004
R-186, GREATER KAILASH PART-1
NEW DELHI 110048
- 379 099511 Mr ANIL KUMAR ACA 01/10/2004
FCA NO 2262 A, B BLOCK
GALI NO 11 SANJAY GANDHI
MEMORIAL NAGAR
FARIDABAD
- 380 099726 Mr TYAGI HARSH VARDHAN ACA 17/11/2004
K P M G
PO BOX NO 493 GT
CENTURY YARD
GRAND CAYMAN,
CAYMAN ISLANDS
- 381 099816 Mr. GOEL ATUL ACA 01/10/2004
E-5, SHIVAJI ROAD
ADARASH NAGAR EXTN.
NEAR SHIV MANDIR
DELHI 110033
- 382 099855 Mr MITTAL NITIN ACA 01/10/2004
6805, NEW JANTA NAGAR
ST NO 8
DABA ROAD
LUDHIANA
- 383 099926 Mr SUND AMIT ACA 01/03/2005
801/B LOOMBA STREET
CIVIL LINES
LUDHIANA
- 384 099929 Mr AJAY KUMAR ACA 01/10/2004
16.A/20 KAROL BAGH
MAIN AJMAL KHAN ROAD
NEW DELHI 110005
- 385 099945 Ms JAIN PALLAVI ACA 01/10/2004
DEVRAJ HOUSE
A-1, BARI PARK
NEAR MOTI MAHAL CINEMA
JAIPUR 302016
- 386 099963 Mr DHAKAL MAHESH SHARMA ACA 01/10/2004
G P O BOX NO. 13813
KATHMANDU
NEPAL
- 387 206344 Mr. THAKRAR PRAKASH ACA 23/12/2004
HARJIVANDAS
14/2, 1ST FLOOR,
BETWEEN 4TH & 6TH MAIN
17TH CROSS
MALLESWARAM
BANGALDRE 560055
- 388 206374 Mr. BEHERA MONOJ KUMAR ACA 01/10/2004
C/O ANIL MISHRA
WORLDS WINDOW
75 KHIRKI VILLAGE
MALVIYA NAGAR
NEW DELHI 110017
- 389 206638 Mr. SURAVARAPU SRINIVAS FCA 01/10/2004
H.NO. 32-2-10/5B, G-3, A B TOWERS
JAMMICHETTU CENTRE
MOGALRAJAPURAM
VIJAYAWADA 520010
- 390 211421 Mr. SENTHIL KUMAR D ACA 01/10/2004
P-152, 8TH MAIN, 12TH SECTOR
LIC COLONY, JEVA BEMA NAGAR
BANGLORE 560075
- 391 213628 Mr. GANESH MAL BOTHRA ACA 01/10/2004
4697/3, ANSARI ROAD
IIND FLOOR,
21A, DARYA GANJ
NEW DELHI 110002
- 392 400148 Mrs. MITTAL SANGEETA ACA 01/10/2004
371 PARDHAN MARG
NIRANKARI COLONY
DELHI 110009
- 393 402558 Ms. TANDON SWATI ACA 01/10/2004
C/O PRICE WATERHOUSE
P-1, ADITYA VIHAR
OPP. D BLOCK, SAKET
SAIDULAJAB, MEHRAULI -BADARPUR ROAD
NEW DELHI 110030
- 394 500027 Mr AGGARWAL PARVEEN ACA 01/10/2004
259, AGGARWAL SHOPPING CENTRE
LSC, C D BLOCK
PITAMPURA
DELHI 110088
- 395 500029 Mr SOGANI DEEPAK ACA 01/10/2004
C/O MAHESH KUMAR AGARWAL & ASSOCI-
ATES
38/2079, IIND FLOOR
NAIWALA
KAROL BAGH
NEW DELHI 110005
- 396 500033 Mr. PURI ANUJ ACA 01/10/2004
ASST. MANAGER
AUDIT AG, ITC LIMITED
ITC CENTRE
4, RUSSELL STREET
KOLKATA 700071

397	500076 Ms HORA SHIKHA DEUTSCHE BANK DB HOUSE M.SOMANI MARG FORT, MUMBAI	ACA 01/10/2004	408	500571 Mr JAIN ASHISH G/D-158 PITAMPURA DELHI 110088	ACA 01/10/2004
398	500211 Mr KHAN NASIR IQBAL 232/5, GHAFAR MANZIL JAMIA NAGAR NEW DELHI 110025	ACA 01/10/2004	409	500613 Mr GUPTA SANJAY 2010/27, RAKESH NAGAR JANTA COLONY ROHTAK	ACA 01/10/2004
399	500229 Mr. BANSAL VIVEK B-43, CARLTON ESTATE-4 DLF CITY-5 GURGAON 122002	ACA 22/09/2004	410	500623 Ms PANDEY MEENA C/O NEPAL RASTRA BANK BANK SUPERVISION DEPARTMENT CENTRAL OFFICE BALUWATAR KATHMANDU NEPAL	ACA 01/10/2004
400	500253 Mr. ARORA AJAY HOUSE NO 86 SECTOR 5 TRIKUTA NAGAR JAMMU TAWI 180005	ACA 01/10/2004	411	500699 Mr JAIN SUMIT PLOT NO. 96 PRATAP NAGAR JAIL ROAD NEW DELHI 110064	ACA 01/10/2004
401	500264 Mr MEHTA MANU 4083 DURGAPURI HAIBOWAL KALAN LUDHIANA 141001	ACA 01/10/2004	412	500788 Ms. SHASHI BALA 2, T C JAINA COMPLEX 1ST FLOOR DARYAGANJ NETAJI SUBHASH MARG NEW DELHI 110002	ACA 01/10/2004
402	500317 Ms. AGGARWAL NEHA 55-C, POCKET-C SIDDHARTHA EXTENSION NEW DELHI 110014	ACA 01/10/2004	413	500926 Ms HARIHARAN SUDHA SECTOR-D, POCKET 2 HOUSE NO. 2245 VASANT KUNJ NEW DELHI 110070	ACA 01/10/2004
403	500347 Mr JONEJA SAMEER D 90 SECTOR 18 GURGAON	ACA 01/10/2004	414	500933 Mr. MADAAN MANOJ 396 BHOLA NATH NAGAR OPP GEETA BHAWAN SHAHNARA DELHI 110032	ACA 01/10/2004
404	500350 Mr JAKIBANJA SUNIL GATTHAGHAR MADHYAPUR THIMI MUNICIPALITY 15 BHAKTAPUR, NEPAL	ACA 01/10/2004	415	500980 Mr KAKKAR ANIL CHARTERED ACCOUNTANT RAIWALI ROAD, BARWALA PANCHKULA DIST PANCHKULA 134118	ACA 01/10/2004
405	500464 Mr. SINGLA AJAY KUMAR 121 ANAND NAGAR A EXT NEAR SPRING DALE PUBLIC SCHOOL PATIALA 147003	ACA 01/10/2004	416	501110 Mr P V M SRIDHARAN XY-25 SAROJINI NAGAR NEW DELHI 110022	ACA 01/10/2004
406	500542 Ms SAXENA SONALI C/O EMR TECHNOLOGY VENTURES PVT LTD 415, UDYOG VIHAR PHASE-III, GURGAON	ACA 04/10/2004	417	501128 Mr JINDAL SUMIT NO. 3818 SECTOR -32 D CHANDIGARH 160047	ACA 01/10/2004
407	500558 Mr BATRA AMIT FLAT NO 45 A.5.B SFS FLATS PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110063	ACA 01/10/2004			

418	501181 Mr. TAKKAR SUMIT B-37, BANDRA TRILOK SOCIETY AMBEDKAR ROAD BANDRA(W) MUMBAI 400050	ACA 30/11/2004	429	502066 Ms. BHASIN TANU 2044/6, CHUNA MANDI PAHARGANJ NEW DELHI 110055	ACA 01/10/2004
419	501194 Mr. BANSAL RAVI ASSISTANT MANAGER GE CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES GE TOWERS, SECTOR ROAD SECTOR-53 GURGAON	ACA 01/10/2004	430	502084 Ms. DUTT JAYA CITI BANK N.A 1ST FLOOR RAMNORD HOUSE DR. A.B. ROAD, WORLI MUMBAI 400018	ACA 01/10/2004
420	501275 Mr GOGIA SACHIN H.NO 459 JHEEL KURENJA DELHI 110051	ACA 01/10/2004	431	502134 Mr. AGARWAL RITESH D-173, 2ND FLOOR SAKET NEW DELHI 110017	ACA 01/10/2004
421	501426 Mr ARORA ROHIT B-198 WEST PATEL NAGAR NEW DELHI 110008	ACA 01/10/2004	432	502168 Mr SANJAY KUMAR A-75, CHAWLA COLONY FARIDABAD BALLABGARH 121004	ACA 01/10/2004
422	501645 Ms. GUPTA BABITA B-9/117, SECTOR 3 ROHINI, DELHI 110085	ACA 01/10/2004	433	502177 Mr. NAYAK GANGA DHAR C/O DR RAM PRAKASH BIDHURI 9 C BHANGAR MAHALLA MADANPUR KHADAR NEAR SARITA VIHAR NEW DELHI 110044	ACA 01/10/2004
423	501655 Ms KWATRA MEENAKSHI FLAT NO. S-2, PLOT NO C-4 ECON APTS RAMPRASTHA COLONY CHANDER NAGAR P.O. GHAZIABAD 201011	ACA 01/10/2004	434	502183 Ms. JAIN PRERANA D 962 NEW FRIENDS COLONY NEW DELHI 110065	ACA 01/10/2004
424	501764 Mr. GOEL ANISH Y-22 HAUZ KHAS NEW DELHI 110016	ACA 01/10/2004	435	502191 Mr. Y JAYSHANKAR ABB LTD 32, INDUSTRIAL ARE N.I.T. FARIDABAD 121001	ACA 01/10/2004
425	501789 Ms. ANURADHA B S A4-513, SNEHA APTS GODAVARI BLOCK NATIONAL GAMES VILLAGE KORAMANGALA BANGALORE 560047	ACA 01/10/2004	436	502210 Mr SHAH RAJEEV 43 DIPNI APPARTMENTS ROAD NO 44 PITAM PURA, DELHI 110034	ACA 01/10/2004
426	501863 Mr RAJ KUMAR GF-100, SUSHANT VYAPAR KENDRA SUSHANT LOK-1 GURGAON	ACA 01/10/2004	437	502328 Mr PANDEY PRAVIN B 40 B.K.DUTT COLONY KARBLA, NEW DELHI 110003	ACA 01/10/2004
427	501875 Mr. BIRLA ASHWINI JALAN CEMPAKA PUTIH TENGAH XVI HOUSE NO.3, JAKARTA 10520 INDONESIA	ACA 01/10/2004	438	502397 Mr BIRBHAN SHOP NO. 22, NEW GRAIN MARKET ELLANABAD SIRSA	ACA 01/10/2004
428	502027 Ms. ARORA RINKU S.R. BATLIBOI & CO F1, FIRST FLOOR THE METRO POLE NEAR INOX COMPLEX, BUND GARDEN PUNE 411001	ACA 01/10/2004	439	502419 Mr. PANKAJ KUMAR 730G, GROUND FLOOR 4TH MAIN, K.R. GARDEN MURUGESPALYA BANGALORE 560017	ACA 01/10/2004

440	502424 Mr. NAREDI NITIN G-1405, CHITTARANJAN PARK SECOND FLOOR NEW DELHI 110019	ACA 01/10/2004	452	503131 Ms. BISHT YASHODA KUNDAN SINGH C/O COL. B.S. ALMIYA 707, HEIGHTS, SOUTH CITY - I GURGAON 122001	ACA 01/10/2004
441	502431 Mr. DANG MAYANK 307 SATYA MANSION A-1 A--2 RANJIT NAGAR NEW DELHI 110008	ACA 01/10/2004	453	503182 Mr. SARIN GAURAV 4/66 W E A SARASWATI MARG KAROL BAGH NEW DELHI 110005	ACA 01/10/2004
442	502509 Mr. VIRENDRA SINGH F 64, STREET NO. 7 MANGAL BAZAR ROAD LAXMI NAGAR DELHI 110092	ACA 01/10/2004	454	503221 Mr. RASTOGI VISHAL 205/1, SRI RAM NAGAR SHAHNARA DELHI 110032	ACA 01/10/2004
443	502579 Mr. TIWARI ASHISH KUMAR 683, SARASWATI VIHAR GURGAON 122001	ACA 01/10/2004	455	503253 Ms. NAYYAR AVANTIKA A-49, FIRST FLOOR EAST OF KAILASH NEW DELHI 110065	ACA 01/10/2004
444	502610 Ms. SMRITI FLAT NO 77 BLOCK BG -1 PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110063	ACA 01/10/2004	456	503258 Mr. VAID DEEPAK HOUSE NO. 42, PAWAN ENCLAVE NEAR VIVEK VIHAR OPP.SOAP FACTORY, FLORA J & K JAMMU TAWI 180001	ACA 01/10/2004
445	502690 Mr. AMIT KUMAR 860 POCKET 3 DWARKA, SECTOR 19 NEW DELHI 110075	ACA 01/10/2004	457	503285 Mr. VIKRAM SINGH H.NO. 895, URBAN ESTATE PHASE-II NEAR M G N SCHOOL JALANDHAR	ACA 01/10/2004
446	502793 Mr. MEHTA ADITYA S-247, GREATER KAILASH PART-2 NEW DELHI 110048	ACA 01/10/2004	458	503307 Ms. KAPOOR SHALINI 92-F, RAJPUKSHI COLONY PATIALA	ACA 01/10/2004
447	502846 Mr. SHRESTHA RADHESHYAM DIRECTOR NEPAL RASTRA BANK BALUWATAR KATHMANDU, NEPAL	ACA 01/10/2004			
448	502911 Mr. JAIN AMIT 81, SURYA NIKETAN (FIRST FLOOR) DELHI 110092	ACA 01/10/2004			
449	502983 Mr. BHALLA RAKESH 459, SECTOR-10 FARIDABAD	ACA 01/10/2004			
450	503016 Ms. BHAGAT SAVITA 230, BHAI PARMANAND COLONY DELHI 110009	ACA 01/10/2004			
451	503067 Mr. GURPREET SINGH A2B, 186A, PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110063	ACA 01/10/2004			

Dr. ASHOK HALDIA
Secy.

(Chartered Accountants)

3NCA(5)/1/2004-2005: With reference to this Institute's Notification Nos. dated 3NCA(4)/1/1999-2000 dated 01 March, 2000, 3NCA(4)/1/2001-2002 dated 21 November, 2001, 3NCA(4)/1/2002-2003 dated 03 December, 2002 and 3NCA(4)/1/2003-2004 dated 04 February, 2005, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1980 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members:

S.No.	MRN	Name & Address	Restore Date	S.No.	MRN	Name & Address	Restore Date
1	007091	Mr. MITTAL JAGDISH PRASAD 288 C A APARTMENTS PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110063	FCA 22/09/2004	8	013928	Mr. GULSHAN KUMAR 61-H, GOBIND MANSION, CONNAUGHT CIRCUS NEW DELHI 110001	FCA 04/03/2004
2	008312	Mr. MEHRA BRIJ MOHAN 371 EAST SHORE ROAD KINGS POINT NEW YORK 11024, U S A	FCA 03/08/2004	9	014916	Mr. MITTAL VIJAYENDER NARAIN GROUP CONTROLLER ALGHANIM INDUSTRIES P.O BOX 223 SAFAT 13003, KUWAIT	FCA 24/08/2004
3	009806	Mr. VERMA VED PRAKASH 5, GANPATI BHAWAN 4675/21, ANSARI ROAD DARYAGANJ, NEW DELHI 110002	FCA 22/12/2003	10	015947	MR. SAXENA SATISH KUMAR UP RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD 8TH FLOOR SHAKTI BHAWAN EXT ASHOK MARG, LUCKNOW 226001	ACA 22/06/2004
4	010129	MR. SEKHON BHAGWANT SINGH 88 SECTOR 21A CHANDIGARH	ACA 23/03/2004	11	016595	Mr. KAPOOR OM KUMAR P O BOX 34967 LUSAKA, ZAMBIA	FCA 03/09/2004
5	011360	Mr. BISWAS SAMIR 36/7, CPWD QUARTERS BESANT NAGAR CHENNAI 600090	ACA 28/09/2004	12	016760	Mr. SUSHIL KUMAR 3111 SECTOR-23 GURGAON 122017	FCA 22/12/2003
6	012626	Mr. KAPOOR SUBHASH CHAND 112, SHAKTI APARTMENT BEHIND LAXMI BAI COLLEGE ASHOK VIHAR, DELHI 110052	FCA 14/09/2004	13	017102	Mr. SINGH AMAR JIT 14A/69 W E A KAROL BAGH NEW DELHI 110005	FCA 14/06/2004
7	013354	Mr. SARAWAGI DHARM CHAND C/O UDYEN JAIN & ASSOCIATES 540, D WING, 5TH FLOOR CLOVER CENTRE MOLEDONA ROAD PUNE 411001	ACA 16/08/2004	14	017223	Mr. KAPOOR RAM CHANDER K-125, KIRTI NAGAR NEW DELHI 110015	FCA 01/04/2004
				15	019062	Mr. SYAM SUNDAR S NO.1, ALAMEL ENCLAVE, FLAT NO.6 C.P. RAMASWAMY STREET ABHIRAMAPURAM CHENNAI 600018	ACA 19/05/2004

16	022982 Mr. SURESH R MAIL STOP SM 41 SCHOOL OF MGT., UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS 2601, NORTH FLOYD ROAD BOX 830688, RICHARDSON TEXAS 75083 U S A	ACA 22/12/2003	26	072135 Mr. ARORA DEVENDRA KUMAR E-801, PAWITTRA APPARTMENTS PLOT -12, VASUNDARA ENCLAVE DELHI 110096	ACA 22/12/2003
17	026585 Mr. SRIKANTH R DIRECTOR- FINANCE & AMIN BRITISH GAS INDIA PVT LTD 3RO FLOOR, TOWER B, FIRST INDIA PLACE SUSHANT LCK-I, MEHRAULI GURGAON ROAD GURGAON 122002	ACA 19/08/2004	27	072434 Mr. ARORA ASHOK KUMAR C/O WAZIR CHAND MALIK D-40 GALI NO-7 NEAR GANDHI PARK NEW GOBIND PURA DELHI 110051	FCA 22/12/2003
18	034100 Mr. GUPTA RISHI KUMAR MANAGING DIRECTOR INOCOM INVESTMENT SERVICES LTO 1005, ROHIT HOUSE 3, TOLSTOY MARG NEW DELHI 110001	FCA 17/06/2004	28	072868 Mr. AGARWAL PANKAJ B 28,POCKET B MAYUR VIHAR 2 DELHI 110091	FCA 22/12/2003
19	050100 Mr. GAUTAM HAZRA CHAUDHURY 5/1-B, DESHAPRIYA PARK (EAST) KOLKATA 700029	ACA 20/08/2004	29	072878 Mr. BHATTA YAGYA RAJ POST BOX 5637 KATHMANOU 0 NEPAL	ACA 22/12/2003
20	050905 Mr. BANERJEE PRASENJIT AM-174, SHALIMAR BAGH DELHI 110088	ACA 30/04/2004	30	073615 Mr. RAM KISHORE MAHESHWARI HEDA SADAN, FARSH GALI PALI BAZAR BEAWAR 305901	FCA 24/08/2004
21	052073 Mr. SINGH MOHANBIR 1334, SECTOR 33-C CHANDIGARH	FCA 06/07/2004	31	074606 Mr. ARJUN PRASAD E-56, SARITA VIHAR NEW DELHI 110044	FCA 22/12/2003
22	053955 Mr. JASBINOER SINGH C/O AMAN DEEP KAUR MANN H NO. 3763, KUNOAN NAGAR MOOEL TOWN LUDHIANA	ACA 08/09/2004	32	074710 Mr. SHEKHAR KANCHAN U 24/6, G.F. PINK TOWN HOUSE DLF-III GURGAON	ACA 15/04/2004
23	054982 Mr. VEERAPPAN KR HEAD-BUSINESS FINANCE CONTROL TVS ELECTRONICS LTD 20, FEET ROAD, NANDAMBAKKAM CHENNAI 600089	ACA 22/12/2003	33	075147 Mr. JAIN PANKAJ KUMAR P.O. 5972 DUBAI U.A.E.	FCA 10/09/2004
24	058019 Mr. DUGAR MANISH C/O WIPRO SPECTRAMIND 239, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE PHASE-3 NEW DELHI 110020	ACA 30/04/2004	34	075183 Mr. KISHNANI S NANDLAL PRITAMDA 202/C-15, ACHARYA NIKETAN MAYUR VIHAR PHASE-I DELHI 110091	FCA 08/04/2004
25	060167 Mr CHITLANGIA SACHIN CALLE VALLERGRAU DE NO. 424 SANTA CRUZ BOLIVIA-SOUTH AMERICA SOUTH AMERICA	ACA 22/04/2004	35	075282 Mr. GOEL VIVEK KUMAR D-279, GROUND FLOOR SUSHANT LOK-II SECTOR-56 GURGAON 122002	ACA 27/05/2004

36.	076581 Mr. TANDDN PANKAJ 1282, SECTOR 31 (HARYANA) GURGADN	ACA 22/12/2003	48	081318 Mr. SHARMA ANDOP FLAT ND. D-III, GANGA APARTMENTS 2ND FLOOR C-37 SDUTH EXTN PART-I NEW DELHI 110049	FCA 27/05/2004
37	078549 Ms. AGRAWAL NUPUR 115 SIDHARTH ENCLAVE NEW DELHI 110014	ACA 22/12/2003	49	081338 Mr. PAWAN KUMAR DIRECTDR UNITED PDLYGYNOUS PVT LTD 208, ESSEL HOUSE 10, ASAF ALI RDAD NEW DELHI 110002	FCA 22/12/2003
38	078681 Mr. K SWAMINATHAN 99, KAILASH APARTMENTS PLDT ND. 45 I.P. EXTENSIDN DELHI 110092.	ACA 13/04/2004	50	081383 Mr. AMBARDAR R K 101, HIMALAYA ACCDRD LAW COLLEGE SQUARE AMARAVATI RDAD NAGPUR 440010	ACA 28/05/2004
39	079241 Ms. MALHDTRA PREETI M-62 PREM NAGAR UTTAM NAGAR JANAKPURI NEW DELHI 110058	ACA 19/05/2004	51	081393 Mr. MEHTA SATISH CHAND EMBASSY DF INDIA 140, HAYARKDN STREET TEL AVIV ISRAEL	ACA 14/07/2004
40	079938 Ms. SAWHNEY ANUBHA FLAT ND 850 PKT GH-13 PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110063	ACA 22/12/2003	52	081417 Mr. SINGH BALJIT FLAT ND 10 S-561 GREATER KAILASH PART -II NEW DELHI 110048	FCA 16/07/2004
41	080054 Mr. KAPDDR RANJAN 294, SECTOR-10 A, CHANDIGARH 160010	ACA 22/12/2003	53	081581 Mr. MALHDTRA MAN MOHAN G-23, PLDT ND. 149 SECTDR-7 RDHINI DELHI 110085	FCA 22/12/2003
42	080224 Mr. CHDPRA GIRISH CHANDRA B/3B, 35C JANAKPURI NEW DELHI 110058	ACA 01/04/2004	54	081620 Mr. ASHDK KUMAR 27 ADJACENT TD RITAMBHRA PUBLIC SCHDDL SUNDER NAGAR LUDHIANA 141001	FCA 22/12/2003
43	080369 Mr. SETH PRADEEP C-13, MANSARDVER GARDEN NEW DELHI 110015	FCA 22/12/2003	55	081764 Mr. THAPAR RAJIV RAJIV THAPAR & CO J-33 ND SE-I NEW DELHI 110049	FCA 22/12/2003
44	080611 Mr. RAKESH A-41, NEW INDIA APARTMENT PLDT ND.6, SECTDR-9 RDHINI DELHI 110085	ACA 01/04/2004	56	081869 Mr. JAIN VIPIN KUMAR B-4/79, ASHDK VIHAR PHASE-2 DELHI 110052	FCA 25/08/2004
45	080685 Mr. LAL HRADEY MOHAN S.C.D. 7, IINF FLOOR SECTDR-17C CHANDIGARH	ACA 07/04/2004	57	082031 Mr. AGARWAL SUBASH C B-14/2 HIMGIRI APPARTMENTS SECTDR-34 NDIDA	FCA 05/04/2004
46	080989 Mr. JAIN ANIL KUMAR 212, GAUTAM NAGAR NEW DELHI 110049	FCA 22/12/2003			
47	081143 Mr. KALANI RAMESH KUMAR HDOUSE ND 772 SECTDR 2 PANCHKULA	FCA 22/12/2003			

58	082277 Mr. UBERAI BHAVTARAN SINGH EXECUTIVE DIRECTOR HEAD OF BUSINESS MGMT EMEA ABN AMRD BANK GUSTAN MAHERLAAN 10 AMSTERDOM 0 NETHERLANDS	ACA 16/04/2004	68	083572 Mr. KULBHUSHAN KUMAR B-18, MODEL TOWN ROAD NEAR INCOME TAX OFFICE OPP PARKASH CDLOR LAB JALANDHAR 144001	FCA 22/12/2003
59	082550 Mr. MEHRA RAJESH 39- THE MALL BEHIND ODEAN HOSTEL PUNJAB AMRITSAR 143001	FCA 22/12/2003	69	083650 Mr. AGGRWAL NARESH CHAND D-8 GALI NO. 8 JYOTI COLONY SHAHADRA, DELHI 110032	FCA 30/04/2004
60	082682 Mr. GOYAL SUNIL KUMAR 128A, SFS DDA FLATS GULABI BAGH DELHI 110007	FCA 19/05/2004	70	083696 Mr. VIJAY KUMAR 40, VIDHI APARTMENT PLOT NO. 116, PATPARGANJ I.P. EXTENSION DELHI 110092	FCA 17/05/2004
61	083126 Mr. GROVER RAM PRAKASH A-38 NEW FRIENDS COLONY NEW DELHI 110065	FCA 22/12/2003	71	083823 Mr. ISHWAR CHAND C-4/24, RAJASTHALI APPTS PITAMPURA DELHI 110034	FCA 22/12/2003
62	083155 Mr. TANDON LAV KUMAR 7-A MEDICAL ENCLAVE AMRITSAR 143006	FCA 13/04/2004	72	084026 Mr. BHULLAR GURJIT SINGH FLAT NO 206 BLOCK 40 HERITAGE CITY MEHRAULI GURGAON ROAD GURGAON 122002	ACA 16/08/2004
63	083231 Mr. AGGARWAL AWANISH KUMAR C-451, MALHOTRA HOUSE ARJUN NAGAR OPP. DEFENCE COLONY NEW DELHI 110003	FCA 22/12/2003	73	084132 Mr. KAKARIA ASHOK KUMAR 2/34, ROOP NAGAR DELHI 110007	FCA 03/08/2004
64	083270 Mr. JAIN ANIL KUMAR 145-C, RISHI NAGAR LUDHIANA 0	FCA 29/03/2004	74	084181 Mr. TODAR MAL S C O NO. 38 1ST FLOOR SECTOR 41 CHANDIGARH 160036	FCA 14/05/2004
65	083383 Mr. BATTA GURSHARAN DASS B-72 1ST FLOOR VISHWAKARMA COLONY MEHRAULI BADARPUR ROAD NEAR LAL KUAN NEW DELHI 110044	FCA 02/07/2004	75	084202 Mr. SWARUP ALOK 144, SANT NAGAR EAST OF KAILASH NEW DELHI 110065	FCA 29/03/2004
66	083430 Mr. GOYAL RAM BABU B-167 LOK VIHAR PITAM PURA DELHI 110034	FCA 25/05/2004	76	084457 Mr. SHARMA RAJAN KUMAR E-94, FIRST FLOOR LAJPAT NAGAR-II NEW DELHI 110024	ACA 01/04/2004
67	083477 Mr. GOEL KUMUD MANAGING DIRECTOR KLG SYSTEL LTD, UNIT 3-6, G FLOOR TOWER A. UNITECH BUSINESS PARK F BLOCK, SOUTH CITY 1, SECTOR 41 GURGAON 122002	FCA 22/12/2003	77	084485 Mr. SHARMA SATYAVAN 7940, RESEDA BLVD # 208 RESEDA CALIFORNIA 91335 U S A	FCA 01/04/2004
			78	084508 Mr. CHANDIOK RAJIV KUMAR POWER FINANCE CORP. LTD 36, CHANDRA LOK BUILDING JANPATH NEW DELHI 110001	ACA 22/12/2003

79	084538 Mr. ARORA GURSHARAN SINGH 38/2079, NAIWALA KAROL BAGH NEW DELHI 110005	FCA 16/06/2004	89	086113 Mr. CHAKRAVARTY RAJESHWAR NARAYAN FLAT # 275 DAKSHINAYAN PLOT # 19 SECTOR 4 DWARKA NEW DELHI 110075	FCA 01/06/2004
80	084665 Mr. MANOCHA SANJEEV B-1/16 MIANWALI NAGAR NEW DELHI 110087	FCA 16/08/2004	90	086125 Mr. ASHWANI KUMAR 21, PARSİ MOHALLA OPP. PUNJAB SPORTS CHOWNI MAIN ROAD INDORE	FCA 01/04/2004
81	084702 Mr. VINOD KUMAR RELIANCE TEXTILE INDUSTRIES LTD PLOT 6, BLOCK 'A', OGBA INDUSTRIAL ESTATE IKEJA, P.O. BOX 6778 MARINA, LAGOS NIGERIA	FCA 02/04/2004	91	086231 Mr. KHANNA SUNEEL KUMAR SUNEEL KHANNA ASSOCIATES 154A, POCKET-A, MAYUR VIHAR PHASE II DELHI 110091	FCA 22/12/2003
82	084785 Mr. KHANNA RAKESH M-115-A GREATER KAILASH PART I NEW DELHI 110048	FCA 22/12/2003	92	086378 Mr. BANSAL SURINDER KUMAR SECTOR-1/77, CHIRANJEEV VIHAR GHAZIABAD	FCA 18/08/2004
83	084918 Mr. KOHLI RAJAN 2705 BASEMENT BANK STREET KAROL BAGH NEW DELHI 110005	FCA 22/12/2003	93	086778 Mr. GUPTA RAKESH KUMAR RAKESH HANS RAJ GUPTA & CO. 113, BHAGYALAXMI APARTMENTS PLOT NO. 24/3, SECTOR IX, ROHINI DELHI 110085	FCA 22/12/2003
84	085243 Mr. SHARMA MADHU DEEP 403, MANCHAHAT APPTS SECTOR 10/42 DWARAKA NEW DELHI 110075	FCA 05/07/2004	94	086804 Mr. MAHESHWARY ANUPAM 174, NEHRU APARTMENT OUTER RING ROAD KALKAJI NEW DELHI 110019	ACA 07/06/2004
85	085441 Mr. GUPTA RAJESH FLAT NO.1, S F APARTMENTS D-842, AMIT BHARDWAJ MARG MALVIYA NAGAR RAJASTHAN JAIPUR 302017	FCA 22/12/2003	95	086806 Mr. SUD BRAHAM PRAKASH B PRAKASH & ASSOCIATES 1/4, FIRST FLOOR EAST PATEL NAGAR NEW DELHI 110008	ACA 22/12/2003
86	085729 Mr. MAINI DINESH D MAINI & ASSOCIATES D-24 GROUND FLOOR GULMOHAR PARK NEW DELHI 110049	FCA 22/12/2003	96	086809 Mr. SHARMA RITU DAMAN 271, TALLAB TILLO JAMMU TAWI 180002	FCA 23/03/2004
87	085957 Mr. BHARGAVA SANJAY D-7/7052, VASANT KUNJ NEW DELHI 110070	FCA 22/12/2003	97	086810 Mr. SINGHAL SANJEEV GENERAL MANAGER MANAGEMENT ASSURANCE SERVICES BENNETT COLEMAN & CO. LTD HERALD HOUSE, 5- A, B S Z MARG NEW DELHI 110002	FCA 22/12/2003
88	086083 Mr. SONI MANOJ 370, FIRST FLOOR SUS NAGAR MARKET JALANDHAR	FCA 02/06/2004	98	086855 Mr. BATRA MUKESH MUKESH BATRA & ASSOCIATES B-243 WEST PATEL NAGAR NEW DELHI 110008	FCA 22/12/2003

99	086872 Mr. SURESH KUMAR SURESH K MITTAL & ASSOCIATES 7341 PREM NAGAR GALI NO 1 SUBZI MANDI DELHI 110007	FCA 22/12/2003	110	087668 Mr. SHARMA ARUN KUMAR C-98, NIRMAL VIHAR DELHI 110092	ACA 22/12/2003
100	086964 Mr. BHATIA AMARJIT SINGH J-5/131 2ND FLOOR RAJOURI GARDEN NEW DELHI 110027	ACA 22/12/2003	111	087731 Mr. CHOPRA SANJAY 6A, LIG FLATS, RAJOURI GARDEN, NEW DELHI 110027	FCA 22/12/2003
101	087156 Mr. RASTOGI SUNIL KUMAR FLAT NO. 051, KESAR HERITAGE PLOT NO. 258, SECTOR-28 VASHI NAVI MUMBAI 400703	FCA 22/12/2003	112	087860 Mr. JAIN SANDEEP A-75, FIRST FLOOR SHANKAR GARDEN VIKASPURI NEW DELHI 110018	FCA 24/08/2004
102	087160 Mr. SOOD RAJIV KUMAR 4, KING CROSS ROAD APT # 1201 BRAMPTON ON BRAMPTON L6T 3X8 CANADA	FCA 22/12/2003	113	087910 Mr. KOCHHAR DILBAGH RAI DILBAGH RAI & CO 23, AMAR COLONY MARKET LAJPAT NAGAR-IV NEW DELHI 110024	FCA 22/12/2003
103	087220 Mr. BANSAL HARISH CHENDER H NO 1429 SECTOR 21 PANCHKULA	ACA 23/08/2004	114	087938 Ms. MORE ANUPAMA F-2/16, ANSARI ROAD, DARYA GANJ NEW DELHI 110002	ACA 12/05/2004
104	087241 Mr. VALMIKI C G-201 YAMUNA APARTMENTS ALAKNANDA NEW DELHI 110019	ACA 17/08/2004	115	088211 Mr. AHUJA NAVEEN 11/111, 2ND FLOOR SUBHASH NAGAR NEW DELHI 110027	FCA 22/12/2003
105	087447 Mr. GULSHAN KUMAR G. GUPTA & ASSOCIATES 311/1, LAJPAT NAGAR OPP. LALL NURSING HOME NEW RAILWAY ROAD GURGAON 122001	FCA 22/12/2003	116	088299 Mr. KHURANA PRIT PAL SINGH A-349 MEERA BAGH OUTER RING ROAD PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110063	FCA 22/12/2003
106	087464 Mr. SANJEEV KUMAR 4648/21, SEDHU MAL BLDG DARYAGANJ NEW DELHI 110002	FCA 22/12/2003	117	088319 Mr. BHATIA SANJEEV N-22 B SAKET NEW DELHI 110017	FCA 22/04/2004
107	087543 Mr. DAS DEVJIT J-373, SARITA VIHAR NEW DELHI 110044	ACA 22/12/2003	118	088337 Mr. MITTAL ASHOK KUMAR H.NO 1180 SECTOR-55 HARYANA FARIDABAD 121004	FCA 22/12/2003
108	087558 Mr. BAHL RAJNISH D-65, PREET VIHAR DELHI 110092	ACA 22/12/2003	119	088382 Mr. GUPTA SHARAT 200-L MODEL TOWN ROHTAK 124001	FCA 30/04/2004
109	087656 Mr. PAWAN KUMAR H.NO. 589, SECTOR-14 FARIDABAD 121007	ACA 07/04/2004	120	088399 Mr. SUMANTHA SEN A-9, BANGANGA CO-OP HSG. SOCIETY B.K.DEVSHI MARG DEONAR MUMBAI 400088	ACA 13/09/2004

121	088442 Mr. VERMA DINESH KUMAR	FCA 02/07/2004	130	089102 Mr. SNEHI SUNIL KUMAR	FCA 25/06/2004
	21-C. POCKET-C, DDA MIG FLATS			H-3/155	
	SHIVAM ENCLAVE			VIKAS PURI	
	DELHI 110032			NEW DELHI 110 018	
122	088501 Mr. MORE HARI RAM	FCA 12/05/2004	131	089106 Mr. AGGARWAL SANJAY	ACA 22/12/2003
	SONITEK PAYPHONES & TELECOM(P) LTD			V-12/32, DLF PHASE-III	
	N-17, CONNAUGHT PLACE			GURGAON 122002	
	NEW DELHI 110001				
123	088509 Mr. PAWAN KUMAR	ACA 20/04/2004	132	089116 Mr. JAIN RAJIV	FCA 06/05/2004
	1304, MEENAXI TOWER			120, PALIKA VIHAR	
	GOKALDHAM			AMBALA CITY	
	FILM CITY ROAD			AMBALA 134003	
	GOREGAON(EAST)		133	089204 Mr. VIJAY KUMAR	FCA 07/07/2004
	MUMBAI 400063			DURGA PRABHU NIWAS	
				STREET NO 11	
124	088516 Mr. KAPUR SUNIL	ACA 18/05/2004		SHAKTI NAGAR	
	C/O TATA DE MOZAMBIQUE LDA			JAMMU TAWI 181001	
	CAIXA POSTAL 758, MAPUTO		134	089301 Mr. JAIN SANJAY KUMAR	ACA 06/04/2004
	GIANJALI ROAD			9/6701 DEV NAGAR	
	MOZAMBIQUE			NEW DELHI 110005	
125	088813 Mr. TALWAR VINAY	FCA 20/09/2004	135	089437 Mr. OBEROI VIKRAM KUMAR	ACA 26/03/2004
	E-4, BALI NAGAR			B-801, LAGOON APARTMENTS	
	11ND FLOOR			AMBIENCE ISLAND	
	NEW DELHI 110015			NH-8, GURGAON	
126	088869 Mr. CHAKRABORTY ARNAB	ACA 25/05/2004	136	089451 Mr. MURALI R	ACA 20/05/2004
	MERCER HUMAN RESOURCE			P.O. BOX 2195	
	CONSULTING PRIVATE LTD			DUBAI, U.E.A.	
	4A, ADCHINI, GROUND FLOOR		137	089547 Mr. SHARMA VIJAY KUMAR	ACA 22/12/2003
	KANTIMANI COMPLEX, SHRI AUROBINDO			65-A KRISHNA COLONY	
	MARG			ITI ROAD	
	NEW DELHI 110017			YAMUNANAGAR 135001	
127	088889 Mr. NARESH KUMAR	*ACA 22/12/2003	138	089705 Mr. JUNEJA NEERAJ	ACA 22/12/2003
	DY. CHIEF ACCOUNTS OFFICER			EC-378, GROUND FLOOR	
	GURU HARGOBIND THERMAL PLANT			S.F.S. FLATS, MAYA ENCLAVE	
	LEHRA MOHABBAT			NEW DELHI 110064	
	DT. BHATINDA (PUNJAB)		139	089833 Mr. KHANNA RAJESH	FCA 22/12/2003
	BHATINDA 151111			1/10492-A SHIV MANDIR MARG	
128	089060 Mr. DUGGAL NASHEET	ACA 22/12/2003		MOHAN PARK	
	B-3/397, PASCHIM VIHAR			NAVEEN SHAHDARA	
	NEW DELHI 110063			DELHI 110032	
129	089091 Mr. SYAL SANJAY	ACA 22/12/2003	140	089836 Mr. MANOJ KUMAR	FCA 09/06/2004
	FLAT NO. 4, 11ND FLOOR			92, GANDHI GANJ	
	308, BHAGWATI SADAN			HAPUR	
	BEHIND TELEPHONE EXCHANGE		141	089904 Mr. SHARMA SURESH	FCA 19/08/2004
	DELHI ROAD			1944-A, S. ORCHORD ST	
	GURGAON 122001			URBARA, IL	
				ILLINOIS IL-61801	
				U.S.A.	

142	090015 Mr. GOEL VIJAY KUMAR AM-46, SHALIMAR BAGH DELHI 110088	FCA 22/12/2003	152	090745 Mr. JAIN MOHIT KUMAR B-307 VARDHMAN APARTMENTS MAYUR VIHAR PHASE-I EXTENSION DELHI 110091	ACA 15/06/2004
143	090139 Mr. AKSHAY KUMAR AKSHAY MALHOTRA & ASSOCIATES KP-142 MAURYA ENCLAVE (PITAM PURA) DELHI 110088	FCA 22/12/2003	153	090831 Ms. NANDA MADHU 41, GOLF LINKS NEW DELHI 110003	ACA 05/05/2004
144	090146 Ms. GOEL NAMRATA F-133 PARSHANT VIHAR DELHI 110085	ACA 11/05/2004	154	091060 Mr. SHARMA SUDHIR KUMAR 318, SECTOR-16 FARIDABAD	FCA 19/07/2004
145	090370 Mr. AGGARWAL RAJIV C/O RAJIV SHARMA & CO 155/8, GALI O. 2, BABU RAM GALI MODEL TOWN NARWANA 126116	ACA 30/07/2004	155	091091 Mr. RUPINDER KUMAR HOUSE NO 2742 GROUND FLOOR MIG (SUPER) SECTOR-70 (PUNJAB) MOHALI	FCA 22/12/2003
146	090517 Mr. AGARWAL ABHISHEK PLOT NO. 15, DADEBAN ROAD NORTH INDUSTRIAL AREA P.O. BOX 9840 KIA, ACCRA GHANA	FCA 14/05/2004	156	091187 Mr. AGARWAL LALIT KUMAR FLAT NO. 38, UCO APARTMENT SECTOR-9 ROHINI DELHI 110085	FCA 22/12/2003
147	090536 Mr. GOEL SANJAY F-133, PRASHANT VIHAR, DELHI 110085	FCA 11/05/2004	157	091217 Mr. ANURAG H NO -156 SECTOR -4 PANCHKULA	FCA 02/08/2004
148	090544 Mr. JAIN SHASHANK CONSULTANT - SAP DIVISION SIEMEN'S INFORMATION SYSTEMS LTD TOWER-B, PLOT-6A, SECTOR-18 HUDA AREA GURGAON 122015	ACA 27/04/2004	158	091308 Ms. MAHINDRU SEEMA MAHINDRU & ASSOCIATES H.NO. 612, PHASE 3B-1 DISTT. ROPAR. (PUNJAB) MOHALI S A S NAGAR 160059	ACA 22/12/2003
149	090585 Mr. MALIK VIJAYANT TOWER C-108, PURVA HEIGHTS BANNERGATTA MAIN ROAD BELEKAHALLI VILLAGE BEGUR HUBLI BANGALORE 560076	ACA 12/05/2004	159	091347 Mr. RAVINDRA NATH 312, ABHIYAN CO-OP.GROUP HSG.SOCIETY PLOT NO. 15, SECTOR-12 DWARKA NEW DELHI 110075	ACA 07/06/2004
150	090590 Mr. CHUGH ALOK C/O. ERNST & YOUNG P.O. BOX 74 SAFAT 13001 KUWAIT	ACA 12/08/2004	160	091355 Mr. GUPTA MUKESH KUMAR 34-C MIG FLATS B-BLOCK VIVEK VIHAR PHASE-II, DELHI 110095	FCA 06/05/2004
151	090665 Mr. CHELLANI CHANDER PRAKASH 39/11, RAMESH NAGAR NEW DELHI 110015	ACA 02/08/2004	161	091421 Ms. SEN NABANITA C-408 CHITTARANJAN PARK NEW DELHI 110019	FCA 22/12/2003
			162	091512 Mr. MARWAH NEERAJ A-46, MEERA BAGH OUTER RING ROAD NEW DELHI 110087	FCA 22/12/2003

163	091694 Ms. SAGGAR DOLLY F-302, ANUPAM APARTMENTS EAST ARJUN NAGAR DELHI 110032	ACA 22/12/2003	174	092606 Mr. GUPTA PAWAN 18-C NAV SENA APARTMENTS PLOT NO 9 WEST ENCLAVE PITAM PURA DELHI 110034	ACA 22/12/2003
164	091755 Mr. RAM RATTAN PANESAR MARKET NEAR OBC BANK OVERLOCK ROAD MILLERGANJ LUDHIANA 141003	FCA 22/12/2003	175	092651 Mr. RAJ KUMAR S/O SH BAJRANG OASS (CLOTH MERCHANT) NEAR PUNJAB NATIONAL BANK DISTT MANSA (PUNJAB) BUDHLAOA 151502	ACA 22/07/2004
165	091764 Mr. SUNIL KUMAR AD-19B SHALIMAR BAGH DELHI 110088	FCA 22/12/2003	176	092829 Mr. GUPTA ARUN C-57 ASHOKA ENCLAVE-II SECTOR-37 FARIOABAO 121003	ACA 22/12/2003
166	091819 Mr. SEN DIPEN 634/12 NAI ABADI GALI NO. 8 ARJUN NAGAR GURGAON 122001	ACA 22/12/2003	177	093117 Mr. NARANG RAJEEV 38-D DDA FLATS GULABI BAGH DELHI 110007	ACA 02/09/2004
167	091862 Mr. GUPTA RISHI QO-64, VISHAKHA ENCLAVE PITAMPURA DELHI 110088	ACA 22/12/2003	178	093146 Mr. DHILLON DEVENOER JEET SINGH SCO-808, FIRST FLOOR NAC MANIMAJRA CHANOIGARH	ACA 26/04/2004
168	091959 Mr. NARESH KUMAR 1717, SECTOR-4 URBAN ESTATE GURGAON 122001	ACA 29/04/2004	179	093200 Ms. GOYAL REENA KP-45, MAURYA ENCLAVE PITAMPURA DELHI 110034	ACA 22/12/2003
169	092182 Mr. AGARWAL NAVEEN G.M. FINANCE BENNETT, COLEMAN & CO LTD TIMES OF INDIA BUILDINGS D.N.ROAD, MUMBAI 400001	ACA 02/07/2004	180	093201 Mr. SINGH RAJESH KUMAR CD-237 VISHAKHA ENCLAVE PITAMPURA DELHI 110034	ACA 22/12/2003
170	092350 Mr. THUKRAL SANJAY 10, STATE BANK COLONY G.T. KARNAL ROAD DELHI 110033	ACA 22/12/2003	181	093231 Mr. SHIV KUMAR S/O. SHRI BALMUKANO SHARMA TAGORE MARG MEHM ROAD VIDYA NAGAR BHIWANI 125021	ACA 22/12/2003
171	092352 Mr. SUDAN RAJESH 5/28, IIND FLOOR VIKRAM VIHAR LAJPAT NAGAR NEW DELHI 110024	ACA 27/07/2004	182	093241 Mr. SHAH VINOD KUMAR D-15/6 G, PRESIDENCY FLOORS ARDEE CITY SECTOR-52 GURGAON	ACA 06/09/2004
172	092385 Mr. JAMAL SARWAR 764 ASIAD VILLAGE COMPLEX MAKHAN SINGH BLOCK NEW DELHI 110049	FCA 27/04/2004	183	093367 Mr. VERMA LALIT KUMAR 21 SATNAM PARK CHANDER NAGAR DELHI 110051	ACA 31/08/2004
173	092465 Mr. MANDAL ROHIT D-62 MALCHA MARG CHANAKYAPURI NEW DELHI 110021	ACA 22/12/2003			

184	093398 Mr. SHARMA NEERAJ B-P-137 [W] 1ST FLOOR SHALIMAR BAGH NEW DELHI 110088	FCA 22/12/2003	196	094454 Mr. SETH ALOK 8A/19, WEA, KAROL BAGH PUSA ROAD NEW DELHI 110005	ACA 22/12/2003
185	093434 Mr. SANJAY KUMAR 429, TILAK NAGAR AURAIYA 206122	ACA 09/08/2004	197	094517 Mr. KOUL KULDEEP 93, VAISHALI PITAMPURA DELHI 110034	ACA 22/12/2003
186	093629 Mr. GHAN SHYAM DY. FINANCE MANAGER FINANCE DEPT MATHURA REFINERY MATHURA 281005	ACA 17/06/2004	198	094544 Mr. HARPREET SINGH 152 GREEN FIELD PAKHOWAL ROAD LUDHIANA 141001	FCA 22/12/2003
187	093703 Mr. GARG AMIT KUMAR 115 SIDDHARTHA ENCLAVE NEW DELHI 110014	ACA 22/12/2003	199	094583 Mr. AGGARWAL NAVEEN KUMAR 104, SECTOR-17A GURGAON 122001	ACA 20/09/2004
188	093731 Mr. JINDAL SANJEEV KUMAR S.C.F. 22, A B & C MANDI OPP. STATE BANK OF PATIALA SIRSA 125055	FCA 21/05/2004	200	094590 Mr. PAUDEL UTTAM RAJ C/O SUBHASH SRIVASTAVA U-6/25, DLF, PHASE-III GURGAON 122002	FCA 06/08/2004
189	093768 Mr. SAXENA ANURAG A-303, HIM HIT COOP SOCIETY SEC-22, PLOT NO. 8 DWARAKA, NEW DELHI 110075	FCA 22/12/2003	201	094742 Mr. SARABJEET SINGH B-26, QUTAB INSTITUTIONAL AREA NEW DELHI 110016	ACA 20/04/2004
190	093786 Mr. IYER H RAVI A-11 SARVODAYA ENCLAVE NEW DELHI 110017	ACA 14/06/2004	202	094744 Mr. ARORA RAMAN GG-1, 138-B, VIKASPURI NEW DELHI 110018	FCA 26/05/2004
191	093861 Mr. SUDHIR KUMAR PNB BUILDING, CIVIL LINES LUDHIANA 141001	FCA 26/08/2004	203	094797 Mr. CHUGH RAJESH H. NO. 721 SECTOR-29 FARIDABAD	FCA 05/07/2004
192	093970 Mr. MONGA RAJIV PLOT NO 1(B PORTION) 1ST RANI JHANSI ROAD MOTIA KHAN NEW DELHI 110055	ACA 22/12/2003	204	094804 Mr. VIPIN KUMAR 446 SECTOR -15A CHANDIGARH 160017	ACA 31/03/2004
193	094025 Mr. GUPTA SANJAY 194 KARISHMA APARTMENTS PLOT NO 27 PATPARGANJ DELHI 110092	ACA 09/06/2004	205	094806 Mr. GULATI VISHAL HOUSE NO. 227 STREET NO-4 RAM NAGAR DELHI 110051	ACA 22/12/2003
194	094034 Mr. AGGARWAL ATUL KRISHAN H-32 SOUTH EXTENSION PART-I, NEW DELHI 110049	ACA 22/12/2003	206	094816 Mr. GARG SURINDER KUMAR C/O GARG GENERAL STORE SADAR BAZAR BHATINDA 0	FCA 22/12/2003
195	094355 Mr. KHURANA SANJEEV D-5 NEW BHARAT APARTMENTS A-4 PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110063	FCA 22/12/2003	207	094877 Mr. THUKRAL SAURABH FINANCE MANAGER GE CAPITAL SERVICES SECTOR ROAD, SECTOR-53 DLF PHASE-I, GURGAON 122022	ACA 22/12/2003

208	095045 Mr. RAJIV KUMAR B-17 MODEL TOWN ROAD NEAR INCOME TAX OFFICE JALANDHAR 144001	FCA 22/12/2003	220	095865 Mr. VIJAY KUMAR BU - 84 VISHAKHA ENCLAVE PITAMPURA DELHI 110088	ACA 13/05/2004
209	095089 Mr. BAHADUR ROHIT C/O WALKER CHANDIOK & CO L-41, CONNAUGHT CIRCUS NEW DELHI 110001	ACA 05/05/2004	221	095888 Mr. KHATOR AMIT FLAT NO. 8 MANAV VIHAR SOCIETY PLOT NO. 6, SECTOR-15 ROHINI DELHI 110085	ACA 22/12/2003
210	095100 Ms. KAUR SATINDER C-811, SUSHANT LOK -1 HARYANA GURGAON	FCA 07/04/2004	222	095894 Mr. GUPTA MANISH C/O DR V K GUPTA 5356/8 SHIV NIWAS PUNJABI MOHALLA AMBALA CANTT AMBALA	ACA 22/12/2003
211	095216 Mr. RASIK SINGH 46, HOLLEY ROAD LONDON W3 7TS U K	ACA 29/04/2004	223	095927 Mr GHOSH SANDIP 101, JANKI APARTMENT SECTOR-22 DWARAKA NEW DELHI 110045	ACA 14/05/2004
212	095378 Mr. GHANSHYAM OASS 4056 'C' NAYA BAZAR DELHI 110006	ACA 26/04/2004	224	095932 Mr GUPTA SANJEEV D-14 SATYAWATI COLONY ASHOK VIHAR PHASE-III DELHI 110052	ACA 22/12/2003
213	095400 Mr. ABHILASHI INDERJIT PARAM BHUSHAN & CO B 17, MODEL TOWN ROAD NEAR INCOME TAX OFFICE JALANDHAR 144001	FCA 22/12/2003	225	095935 Mr SACHDEVA HARSH B-59/F-1, DILSHAD COLONY DELHI 110095	ACA 13/04/2004
214	095425 Mr. MEHTA MANDEEP KULDEEP RATTAN & CO 347-348, 12TH STREET JOSHI ROAD, KAROL BAGH NEW DELHI 110005	ACA 22/12/2003	226	096016 Mr MADAN RAJESH 18/24/13 OLD GOBIND PURA, DELHI 110051	ACA 22/12/2003
215	095468 Mr. GUPTA MANISH 318, POCKET -E MAYUR VIHAR -II DELHI 110091	ACA 09/09/2004	227	096034 Mr KHANNA NEERAJ B 18, MODEL TOWN ROAD NEAR I T O OPP PARKASH COLOR LAB JALANDHAR 144001	FCA 22/12/2003
216	095503 Mr. ASHISH KUMAR 51, VIGYAN VIHAR, DELHI 110092	ACA 22/12/2003	228	096074 Mr SEHGAL YOGESH FLAT NO. 2267, SECTOR B, POCKET II, VASANT KUNJ, NEW DELHI 110070	ACA 22/12/2003
217	095613 Mr. SANDEEP KUMAR F-18/55 SECTOR -8 ROHINI DELHI 110085	ACA 22/12/2003	229	096115 Mr SETHI VIKRAM B-68 VIVEK VIHAR DELHI 110095	ACA 22/12/2003
218	095617 Mr. SOOD VIKRAM KP-45 MAURYA ENCLAVE PITAMPUR, DELHI 110088	ACA 22/12/2003	230	096266 Mr SHARMA RAKESH E-2/85A, SHASTRI NAGAR DELHI 110052	ACA 22/12/2003
219	095839 Mr. SHARMA DHIRAJ B P-137 (WEST) SHALIMAR BAGH DELHI 110088	ACA 22/12/2003			

231	096297 Ms AGARWAL SAVITA PLOT NO. 15, DADEBAN ROAD NIA, P.O. BOX 9840 KIA, ACCRA GHANA	ACA 14/05/2004	242	096774 Mr JAIN SACHIN GE CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES SECTOR-18 22A, UDYOG VIHAR GURGAON	ACA 22/12/2003
232	096367 Mr CHATTOPADHYAY RAHUL G-1268 CHITTARANJAN PARK NEW DELHI 110019	ACA 22/12/2003	243	096871 Mr SAHU VIJENDER KUMAR FLAT NO.1, SUKHWANI GHAR PLOT NO. 30, VIVEK NAGAR AKURDI BOMBAY PUNE HIGHWAY PUNE 411035	ACA 22/12/2003
233	096382 Mr KHURANA TAJINDER 216-B POCKET C MAYUR VIHAR PHASE-II DELHI 110091	FCA 22/12/2003	244	096935 Mr SUMIT KUMAR 71 ASHOK NAGAR NEAR PNB BASTI NAU JALANDHAR CITY JALANDHAR	FCA 22/12/2003
	096391 Ms AGGARWAL CHANCHAL NO. 595, SECTOR-5 GURGAON 122001	FCA 22/12/2003			
235	096392 Mr SANJEEV KUMAR # 1723/2, NIVIN GALI, SHERAN WALA GATE PUNJAB AMRITSAR 143001	ACA 22/12/2003	245	096978 Mr SINGH JASWINDER AC-9C SHALIMAR BAGH DELHI 110088	ACA 22/12/2003
236	096408 Ms AHUJA NISHA 33, VAN WYK ROAD LAKE HIAWATHA NEW JERSEY 07034 U S A	ACA 22/12/2003	246	097132 Ms MOGLA SUSHMA H NO 2046 SECTOR 27 C CHANDIGARH	FCA 22/12/2003
237	096503 Mr SETIA AMIT BHARAT NAGAR KHAI ROAD FEROZEPUR CITY FEROZEPUR 152002	ACA 22/12/2003	247	097157 Mr BHANDARI ADIT 109, ANUPAM GARDEN NEAR COUNTRY CLUB NEW DELHI 110068	ACA 11/06/2004
238	096523 Mr JAIN RAJNEESH CU-114 VISHAKHA ENCLAVE PITAM PURA DELHI 110088	ACA 22/12/2003	248	097206 Mr JAIN ABHISHEK AGILENT TECHNOLOGIES 90D, SECTOR-18 UDYOG VIHAR GURGAON	ACA 18/05/2004
239	096581 Mr. SHARMA DEEPAK KUMAR G-32, SECTOR-7 JASOLA DDA FLATS OPP. SARITA VIHAR NEW DELHI 110044	ACA 22/12/2003	249	097302 Mr NARANG ROHIT L-II/47-B, D D A FLATS KALKAJI NEW DELHI 110019	ACA 22/12/2003
240	096583 Mr MANANDHAR SANJEEV BALAGV- 16 KATHMANDU NEPAL	ACA 23/04/2004	250	097480 Ms ARORA AARTI 391/5, JACAM PURA BEHIND BANK OF INDIA OLD RAILWAY ROAD, GURGAON 122001	ACA 22/12/2003
241	096616 Mr RATNAM SRIRAM B-90, SARVODAYA ENCLAVE NEW DELHI 110017	ACA 19/08/2004	251	097547 Mr AGARWAL VAIBHAV C-68, INDERPURI NEW DELHI 110012	ACA 25/03/2004
			252	097592 Ms. ARORA TANNU EA-162 INDERPURI NEW DELHI 110012	ACA 22/12/2003

253	097616 Mr MURGAI SUNIL KUMAR AG-136, SHALIMAR BAGH DELHI 110088	ACA 03/09/2004	264	098452 Mr PAHJJA VIKRANT DK-304 SUBHASH NAGAR (OPP SHIV MANDIR) GURGAON 122001	ACA 22/12/2003
254	097618 Mr MATTA DHEERAJ K-32, JALVAYU VIHAR POWAI, MUMBAI 400076	ACA 22/12/2003	265	098633 Mr SHARMA VIJAY KUMAR 639 POCKET I PASCHIM PURI NEW DELHI 110063	ACA 22/12/2003
255	097651 Mr KAPOOR VINEET MANAGER RISK AND BUSINESS SOLUTIONS ERNST & YOUNG B-26, QUTAB INSTITUTIONAL AREA NEW DELHI 110016	ACA 22/12/2003	266	098795 Mr MISRA AVNISH H-10, JAL VAYU VIHAR SECTOR-25 NOIDA 201301	ACA 27/08/2004
256	097679 Mrs. DEWAN DEEPTI 33/28, OLD RAJINDER NAGAR NEW DELHI 110060	ACA 28/05/2004	267	098821 Mr VERMA NEERAJ 46/2/1(STREET NO 17) EAST AZAD NAGAR DELHI 110051	ACA 11/05/2004
257	097728 Ms WADHWA SMITA MANAGER GE CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES GE TOWERS, SECTOR-53, DLF CITY PHASE-V GURGAON 122015	ACA 22/12/2003	268	098901 Ms SINGH RADHIKA 4069, POCKET B-5/6 VASANT KUNJ NEW DELHI 110070	ACA 02/07/2004
258	097927 Mr VINAY KUMAR AMERICAN EXPRESS (I) PVT LTD A-37, MOHAN CO-OPERATIVE INDL ESTATE MATHURA ROAD NEW DELHI 110044	ACA 22/12/2003	269	099050 Mr GUPTA KAPIL 317 SUNEHRI BAGH APARTMENTS SECTOR 13 ROHINI DELHI 110085	ACA 22/12/2003
259	098026 Mr SINGH GURVINDER C/O MOHINDER SINGH SINDHU PUNJABI COLONY UJHANI BADAUN 243639	ACA 29/04/2004	270	099224 Ms. IYER MEENAKSHI 241-C, POCKET-I MAYUR VIHAR PHASE-1 DELHI 110091	ACA 13/05/2004
260	098050 Ms GUPTA POOJA A-113, NEW FRIENDS COLONY NEW DELHI 110065	ACA 22/12/2003	271	099325 Mr. JAIN ABHISHEK E-50, SECTOR-39 NOIDA 201303	ACA 14/05/2004
261	098230 Mr AGGARWAL ASHISH FLAT 34 PLOT 78 MEENA APTS I P EXTENSION NR PATPARGANJ BUS DEPOT DELHI 110092	ACA 22/12/2003	272	099345 Ms. SINGLA PARAS SENIOR FINANCE ANALYST FIDELITY TECHNOLOGY INDIA (P) LTD 9TH FLOOR, DLF SQUARE JACARANDA MARG, DLF PHASE-II GURGAON 122002	ACA 19/05/2004
262	098250 Mr SANTOSH KUMAR FLAT NO.# 139, POCKET-2 DDA FLATS, SECTOR-11 DWARAKA NEW DELHI 110045	ACA 22/12/2003	273	099366 Mr MAHAJAN RAMAN 40/22, LOWER GROUND FLOOR EAST PATEL NAGAR NEW DELHI 110008	ACA 22/12/2003
263	098292 Mr CHANDAR PRAKASH WZ-991, RANI BAGH SHAKUR BASTI DELHI 110034	ACA 22/12/2003	274	099626 Mr SINGHAL ANUJ FINANCE & ACCOUNTS OFFICER OIL & NATURAL GAS CORP.LTD DRONAGIRI BHAVAN DT. RAIGAD URAN 400702	ACA 20/05/2004

275	099659 Mr SACHDEV ARUN KUMAR A5B/ 183B JANAK PURI NEW DELHI 110058	ACA 21/04/2004	286	500311 Ms GARG SUJATA C/O GARG GENERAL STORE SADAR BAZAR BHATINDA	ACA 22/12/2003
276	099709 Ms DEVA MEGHNA 48/1, CHAMBERS ROAD R.A. PURAM CHENNAI 600028	ACA 03/08/2004	287	500613 Mr GUPTA SANJAY 2010/27, RAKESH NAGAR JANTA COLONY HARYANA ROHTAK	ACA 22/12/2003
277	099793 Mr. GUPTA AMIT RELIANCE ENERGY LIMITED RELIANCE ENERGY CENTRE SANTACRUZ (E) MUMBAI 400055	ACA 22/12/2003	288	500614 Mr PARAJULI RAJESH CHARTERED ACCOUNTANT VETERINARY ROAD BIRATNAGAR-17 MONANG NEPAL	ACA 05/05/2004
278	099832 Mr WADHWANI SANTDAS G PRICE WATERHOUSE COOPERS (P) LTD SUCHETA BHAIWAN GATE NO 2 2ND FLOOR 11-A VISHNU DIGAMBER MARG NEW DELHI 110002	ACA 22/12/2003	289	500738 Mr. SHARMA AERIK TATA-AIG LIFE INSURANCE CO. LTD NISHORI CORPORATION 75, ANNIE BASENT ROAD WORLI MUMBAI 400018	ACA 22/12/2003
279	099905 Ms REENA 3973, NEW MADHOPURI-I GALI NO.9 LUDHIANA 141007	ACA 07/07/2004	290	501210 Mr SHARMA VIVEK M-98, 3RD FLOOR NEAR JAGAT RAM PARK LAXMI NAGAR DELHI 110092	ACA 22/12/2003
280	099959 Mr SINGH ABHISHEK KUMAR 167 VIDYA VIHAR WEST ENCLAVE PITAMPURA DELHI 110034	ACA 22/12/2003	291	501616 Mr CHANDAN NEERAJ M/S NEERAJ CHANDAN & ASSOCIATES 285, RAJA GARDEN COLONY KAPURTHALA ROAD 120 FT ROAD (PB) JALANDHAR	ACA 22/12/2003
281	105433 Mr. JAIN NAVEEN CHAND 1ST FLOOR, C-82 ASHOKA ENCLAVE -II SECTOR-37 FARIDABAD	ACA 22/12/2003	292	501808 Mr BHANSALI NEERAJ BRANCH ACCOUNTANT LGEIL, 20A, SHIVAJI MARG MOTI NAGAR NEW DELHI 110015	ACA 21/06/2004
282	210714 Mr. MANISH ASTHANA 67, SUNDAR NAGAR HYDERABAD 38	ACA 24/05/2004			
283	500071 Mr. BANKA AMIT HOUSE NO. 872, SECTOR-10A GURGAON 122001	ACA 30/06/2004			
284	500084 Mr. GOYAL MANISH 808 RISHI NAGAR RANI BAGH DELHI 110034	ACA 22/12/2003			
285	500181 Mr NEPAL BIBEK 119, RANGELI ROAD BIRATNAGAR-11 KATHMANDU NEPAL	ACA 05/05/2004			

(DR. ASHOK HALDIA
SECRETARY

EMPLOYEE'S STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 16th October 2006

No.U-16/53/2000-Med.II/(M.P.) : - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Indore for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
Dr. K.P. Shukla	1.9.2006 to 31.8.2007	Bhopal, Sagar, Mandideep, Itarsi

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

New Delhi, the 16th October 2006

No. N-15/13/1/13/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation. 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

"ALL THE AREAS FALLING WITHIN THE LIMITS OF REVENUE VILLAGES OF PEERAMCHERUVU, BAIRAGIGUDA, GANDHAMGUDA, NEKNAMPUR, POPPALGUDA, ALIJAPUR, PANJASHABOULA, POKALWADA, JANI BEGUN, MANI KONDA JAGIR AND MANI KONDA KHALSA IN RAJENDRA NAGAR MANDAL OF RANGA REDDY DISTRICT IN ANDHRA PRADESH."

M. SUNDARARAMAN
Director (P&D)

The 19th October 2006

No. N-15/13/8/1/1996-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16th October, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Madhya Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Madhya Pradesh namely

"The area comprising the Municipal Limits of Pithampur, including Industrial area Sector-III and IV in Tehsil Pithampur District : Dhar in addition to areas in which the said provisions of the Act have already been brought into force."

M. SUNDARARAMAN
Director (P&D)